

**Municipal Library,  
NAINI TAL.**



891-8

Class No. 828

Book No. G 32 M

“याद हम सब सच्चे दिलों से गांधी जी के सिद्धांतों को मानें तो वे मरेंगे नहीं। वे हमारे अन्दर और हमारे द्वारा जीवित रहेंगे किन्तु यदि हमने उनके सिद्धांतों को नहीं माना और शिक्षाओं को शिक्षक के साथ ही मर जाने दिया तो हम गिरेंगे, और वास्तव में उन की हत्या के हम भी दोषी होंगे।”

चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य



# महाप्रयाण

लेखक

श्री. एस० मनोहर लाल

प्रो. भगवती प्रसाद पान्थरी

प्रकाशक

१९४८ ]

प्रकाशन गृह, टिहरी गढ़वाल


[ मूल्य ४।।।) सजिल्द ५।)

प्रकाशक  
श्री पांथरी  
प्रकाशन गृह, टिहरी गढ़वालस्टेट



सूत्रक  
पं० पृथ्वीनाथ भार्गव  
भार्गव भूषण प्रेस, गायवाट, काशी ।

# समर्पण



भारतीय आत्मा  
पूज्य बापू के चरणों में श्रद्धा का यह फूल  
सादर समर्पित



## दो शब्द

आज हम ढाइ हजार वर्ष के बाद भी बुद्ध के परिनिर्वाण को नहीं भूले हैं, नहीं भूल सकते हैं । बापू का 'महाप्रयाण' भारत भूमि के महिमामय इतिहास की एक ऐसी दुर्घटना है, जैसी उससे पहले कभी नहीं घटी । 'महाप्रयाण' के सम्पादक द्वय ने 'महाप्रयाण' का संकलन कर वर्तमान पीढी की ही नहीं, अपनी आने वाली पीढियों की भी सेवा की है ।

प्रार्थना है कि बापू का जीवन और 'महाप्रयाण' हमारे अन्धेरे पथ को कुछ प्रकाशित करे ।

काशी विद्यापीठ  
२. ३. ४८.

} आनन्द कौसल्यायन



## आमुख

हमें तो उस हत्यारे की बुद्धि पर तरस आता है जिसने यह सोचा कि गांधीजी के शरीर को गिराकर वह गांधीत्व को भी धराशायी कर देगा! वह वस्तुतः मृत्यु का अर्थ ही नहीं समझ सका। उसने यही समझा कि मृत्यु का अर्थ है केवल शरीरान्त और वह गांधीजी को मारकर गांधीजी के विचारों का भी अन्त कर डालेगा और उस महान् दीपक की लौको अकस्मात् शान्त कर देगा जो दुनिया को आज भी प्रकाश दे रहा है। अतः उसने गोलियां दागीं—गांधीजी का तपःपूत शरीर भूमिपर आ गया, लेकिन गांधीजी का गांधीत्व आवरण मुक्त होकर और भी चमक उठा। यह कैसा अचरज, पागल हत्यारे का भ्रांत मस्तिष्क भी सचमुच यह देखकर चक्कर काटने लगा होगा।

शरीरान्त में मौत देखना और जीवित रहकर जीवन की चरम उपलब्धि प्राप्त करने का प्रयास ये दोनों दंभी और अहंकारी मनुष्य की भावनाएं रही हैं। ऐसे मनुष्य कायाके अमरत्वके पुजारी और आत्मा के विरोधी हुए हैं। और इस कारण वे अपनी मानवता तक को गवां बैठे। ऐसे ही प्रकार के मनुष्यों को हमारी पौराणिक गाथाओं में 'राक्षस' कहा गया है। रावण और हिरण्यकश्यप ऐसे दंभी मनुष्यों ही के प्रतीक हैं। ये दोनों कभी मरना न चाहते थे और सदा अमर रहकर जीवित रहना चाहते थे। वे जीवन के चरम सत्य, सुख और ऐश्वर्य को शरीर में रहकर ही प्राप्त करना चाहते थे। रावण ने तो कहा जाता है सदेह स्वर्ग जाने के लिए सोपान तैय्यार करने की योजना भी बना ली थी परन्तु इस सारे दंभ और अहंकार का अन्त क्या हुआ?—वृणित मृत्यु और वह भी केवल एक साधारण मानव राम के द्वारा।

आज अमरत्व लोलुप रावण को मिटे अनन्त युग बीत चुके हैं, पर राम बिना देह का अमरत्व प्राप्त किये भारतके प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आज भी आसीन हैं। इससे प्रकट है कि देह का अमरत्व प्राप्त करने की चेष्टा एक राक्षसी प्रयास, और सत्य का विरोध है। अतः यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि अमरत्व देह का नहीं, सत्य का अथवा आत्मा का लक्षण या गुण है। इसलिए जो अनित्य है उक्तका विनाश आवश्यक है लेकिन उसके विनाश से 'नित्य' का विनाश नहीं हो सकता।

नश्वर देह अनश्वर आत्मा का परिधान मात्र है और गीता के कथनानुसार यह पुराना पड़ने पर बदला ही जाता है। परन्तु भौतिकता और देह के उपासक इस सत्य की उपेक्षा करते रहे हैं। वे देह को ही सब कुछ मानते हैं इसलिए उनका प्रहार देह पर हुआ करता है। गांधीजी के हत्यारे को प्रेरणा देने वाले व्यक्तियों ने भी यही सोचकर तो गांधीजी को मरवाया। परन्तु अब वे जरूर शिर धुनते होंगे यह देखकर कि गांधीजी का शरीर तो गिरा लेकिन देह के भीतर के गांधीजी आज और भी उज्वल, स्वर्णिम और स्वर्गीय आभा से युक्त होकर मानवता के हृदयाकाश में जाज्वल्यमान सूर्य की तरह चमक रहा है।

मृत्यु तो जीवन का ही दूसरा पहलू है। अनन्त काल के अंधकूप से उसकी उत्पत्ति हुई है और उसी अनन्त में जाकर उसकी निष्पत्ति भी होती है। महाकाल से सृष्टि की उत्पत्ति है और महाकाली से उसकी निष्पत्ति; तो मरना जीवन की कोई विरोधी घटना नहीं वह तो जीवन के प्रवाह में एक धारा है। जीवन को पूर्णता प्रदान करने का काम भी इसी मृत्यु का है जिससे साधारण मनुष्य इतना डरा करता है। जीवन की विखरी हुई सीमाओं को आवद्ध करने वाली यही मृत्यु तो है। जीवन एक गति है, एक लय है, एक बढ़ता हुआ प्रवाह जिसे परिवेष्टित नहीं किया जा सकता। जीवनका चल चित्र जबतक चलता रहता है उसकी पूरी तस्वीर अंकित नहीं की जा सकती। और बिना अंकन के जीवन का मूल्यांकन करना भी कठिन है। जीवन असीम है और जबतक वह सीमाओं के भीतर वेष्टित न कर लिया जाय उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सकता। इसलिए वर्तमान युग के एक जर्मन दार्शनिक ने कहा है कि 'The only frame for the fleeting picture of life is Death' जीवन की चलती हुई तस्वीर के लिए मृत्यु ही एक समुचित चौखट है (Immortality, by Kesserling, P. 76)!

निःसन्देह आज मृत्यु की चौखट में आवेष्टित होकर महात्मा गांधी के जीवन की तस्वीर अपने पूर्ण रंगों के साथ चमक उठी है। आज इस तस्वीर का सौंदर्य पूर्णिमा के चन्द्र की तरह पूर्ण समुज्वल होकर चमकने लगा है।

मृत्यु ने निःसन्देह और निर्बिबाद रूप से गांधीजी के जीवन को पूर्णता प्रदान कर दी है। आज संसार स्वीकार करता है कि गांधी जी मरकर अमर हो गये हैं। गांधीजी जबतक जीवित रहे काया और शरीरके मोह से अलग रहकर आत्मा और परमात्मा के साथ मिलकर इस भूमि पर सत्य, अहिंसा और प्रेम

का राग आलापते रहे। उनके इस राग की ध्वनि मरने पर आज और भी तीव्र और मधुर होकर विश्व की आत्मा में गूँजने लगी है। उनकी यह कल्याण कलित रागिनी कभी मर नहीं सकती। गानेवाला चला गया है लेकिन उसके संगीत की लय विश्व में शांति विखेरती हुई घूमती ही रहेगी। गांधीजी मर गये हैं, किन्तु उनके बोल जगत को नित्य सुनायी पड़ते ही रहेंगे। क्योंकि गांधीजी एक सत्य थे जिसका बिनाश असंभव है! मानव में जबतक थोड़ी सी भी सभ्यता, हिंसा के प्रति विरक्ति और जीव तथा प्राणियों के प्रति दया-भाया के भाव विद्यमान रहेंगे गांधीजी के सन्देश उनके कानों में साहस और उत्साह भरते जायेंगे।

गांधी एक ऐसा प्रकाश पुंज है जिसका उजाला कभी शांत न होगा और हिंसा से पूरित काले और अंधेरे मार्ग में फंसने से रोकने के लिए मानव जाति को रोशनी देता रहेगा। तब हम क्यों कहें गांधीजी मर गये—गांधीजी शरीर से मरे हैं लेकिन आत्मा के रूपमें सत्य के रूपमें वे अजर हैं अमर हैं और नित्य हैं। सत्य और ईश्वर का वह साथी भला मर कैसे सकता है। हमें आशा है गांधीजी के महाप्रयाण की कहानी हमें साधारण मौतके शोकके बदले जीवनपर विजय पाने की शक्ति और प्रेरणा प्रदान करेगी और हिंसा तथा द्वेष से पूर्ण इस संसार पर छाये अधियारेको प्रकाशित कर उसे दूर हटा देगी।

इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर हमने बापू के—महाप्रयाण की कहानी को प्रस्तुत पुस्तक में संकलित किया है। यदि महाप्रयाण की यह कहानी अपने इच्छित ध्येय में सफल हुई तो हम अपने इस प्रयास को व्यर्थ न समझेंगे।

इस पुस्तक के प्रूफ पढ़ने और ब्लाक बनवाने में हमें अपने कर्नाटक के विद्यार्थी मित्र श्री गजानन शर्मा और श्री महाबलेश्वर भट्ट से बहुत मदद मिली है जिसके लिए हम आभारी हैं। पुस्तक के बारे में प्रो. गोरवाला खुशालाइन से उपयोगी सुझाव और लेखकों के संकलनमें श्री दिनेशचंद्र सक्लानी (विद्यार्थी तृतीय वर्ष, शास्त्री विद्यापीठ) से सहयोग प्राप्त होता रहा है जिसके लिए हम उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं।

पुस्तक में जहाँ जहाँ जो कुछ त्रुटियाँ रह गयी हैं उनके लिए पाठक हमें क्षमा ही न करेंगे किन्तु सुधार के सुझाव भी अवश्य देंगे।

## विषय सूची—

<b>अप्रत्याशित</b>	<b>पृष्ठ</b>
बापू चले गये	८
महामानव की महायात्रा	१३
अंतिम यात्रा समाप्त	२०
अंतिम यात्रा समाप्त होगई	२३
भारत की अंतिम श्रद्धांजलि	२६
<b>उद्गार</b>	
बापू का अंतिम दिन	३६
क्या बापू को अपने अवसान का ज्ञान पहले से था ?	४१
बापू क्षमा करना	४६
बापू का बलिदान	४६
बापू	५२
बापू के प्रति	५६
संसार को महात्मा गाँधी की देन	६२
हिन्दुत्व को बापू की महती देन	६७
सर्वश्रेष्ठ मानव	६९
मानवता के प्राण गाँधी	७३
बुद्ध और गाँधी के अंतिम संस्कार	७६
गाँधी बाणी	८०
<b>रोदन</b>	
गाँधी-भय जगत	८२
हिन्द रो उठा	८३
पाकिस्तान भी कराह उठा	८८
संपूर्ण जगत की श्रद्धांजलि	८६
अभूत पूर्व नेता	९२
कौन नहीं रोया	९४
विश्वभरके पत्रों की श्रद्धांजलियाँ	९८

## अंतिम लीला

गाँधीजी की जीवन झाँकी	१००
बापू का अंतिम उपवास	१०८
कांग्रेस का अंतिम संदेश	११०
अंतिम प्रवचन	११४


## सब ब्याधियों की औषधराम

प्रकाशमान पुरुष	११६
बापू का प्रिय भजन	११७
बापू की सार्यकालीन प्रार्थना	११६
रामधुन	१२०

---



प्रकाश-स्तम्भ



अप्रत्याशित





## बापू चले गये

बापू चले गये ! किसी को विश्वास न होता था । रेडियो और अखबार की खबरों को सुनकर और पढ़कर हृदय जम गया । आखें पथरा गईं और आत्मा में शून्यता व्याप्त हो गई थी—लेकिन जो होना था सो हो चुका था ! निरभ्र आकाश से बिजली असंभव है लेकिन गिर चुकी थी; और संतप्त हृदय से दुनिया ने अखबारों में छपे नहीं दिल्ली से प्रेषित इस समाचार को पढ़ा—

नयी दिल्ली ३० जनवरी ।

जब वे शामको बिड़ला भवन में प्रार्थना के मैदान की तरफ जा रहे थे तो किसी ने उन पर चार बार गोली चलायी । वे सख्त घायल हुए । डाक्टर तुरंत बुलाये गये ।

गांधीजी ५ बजकर ५ मिनटपर बिड़ला भवनसे बाहर निकले और अपनी दो पौत्रियोंके कन्धोंके सहारे प्रार्थना की जगह पैदल जाने लगे । ज्योंही वे मंचके पास आये भीड़ दो हिस्सोंमें छँट गयी ताकि गांधीजी बीचसे होकर निकल जायं ।

भीड़में से एक आदमीने, जो ३०-३५ की अवस्थाका था और खाकी वर्दी पहने था, गांधीजीके पास आते ही करीब २ गजके फासले परसे उनपर रिवाल्वरसे ४ गोलियां चलायीं ।

गांधीजीके पेटमें गोली लगी और वे उसी दम गिर पड़े । उनकी पौत्रियों आभा गांधी और मनु गांधीने उनको पकड़ लिया और रोने लगीं । यह सब इतनी जल्दी हुआ कि भीड़में किसीको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ । भीड़में से कुछ लोग हत्यारेपर दूट पड़े और उसे पकड़ लिया । भीड़में से कुछ तो आतंकित होकर बेतहाशा भागने लगे और बाकी लोग चकर झपटे जहां गांधीजी पर गोली चलायी गयी थी ।

महाप्रयाण

गांधीजी, जिनके शरीरसे खून बह रहा था, तुरंत ही बिड़ला भवनमें ले जाये गये जहां तुरंत डाक्टर बुलाये गये। जिस कमरेमें गांधीजी पड़े रहे उसमें किसीको अन्दर नहीं जाने दिया जाता रहा।

आधे घंटे बाद ५-५० पर गांधीजी के कमरेसे एक आदमी बाहर आया और उसने कहा—

“बापू नहीं रहे !”

बाहर भीड़ जो गांधीजीके बारेमें जाननेको उत्सुक खड़ी थी गांधीजीके निधनकी बात सुनकर पत्थर जैसे हो गयी।

दाह संस्कारके लिए गांधीजीका शव कल जमुना घाटपर ले जाया जायगा। कल ११ बजे विरला भवनसे रथी निकलेगी और ४ बजे शामको श्मशान घाट पर पहुँचेगी।

जिस व्यक्तिने महात्मा गांधीकी हत्या की है उसका नाम है नाथूराम विनायक गोडसे। यह व्यक्ति ३६ वर्ष का सुशिक्षित मरहटा हिन्दू है।

ज्ञात हुआ है कि हत्यारा कल ही दिल्ली आया था। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनपर प्रथम दर्जेके “वेटिंग रूम” में उसका बिस्तर पाया गया है।

### वह निर्मम क्षण

ईश्वर के सिवाय किसे मालूम था कि उस सांध्य प्रार्थना में जाते हुए क्या होने वाला है। प्रार्थना की भीड़ तो गांधीजी की प्रतीक्षा में थी और प्रवचन सुनने की उत्सुकता लिए थी, और गांधीजी आ भी गये थे लेकिन भगवान की इच्छा वे आये और रुला करके चले गये। भगवान ने क्या उन्हें अपने पास बुला लिया था क्योंकि मनुष्य बहुत नीचे गिर चुका था और देवत्व के लिए स्थान न रह गया था ? इसीलिए वे आये और तुरन्त चले गये ! उस निर्मम क्षण का विवरण एसोसियेटेड प्रेस के संवाददाता ने इस प्रकार अखबारों में दिया था—

“लगभग ५०० व्यक्तियोंकी भीड़ प्रार्थना सभाके लिए गांधीजीका इन्तजार कर रही थी। ५ बजे चुके थे। गांधीजी अपनी पोतियों आभा गांधी और मत्तु गांधीके

कंधेपर हाथ रखे हुए बिरला भवनके बाहर निकले और जैसी उनकी आदत थी मंच की ओर तेजीसे बढ़ने लगे। जब गांधी भीड़के नजदीक पहुँचे तो वह उनको रास्ता देनेके लिए दो हिस्सोंमें बंट गयी।

जब महात्मा गांधी मंचसे १५ गज रह गये तो एकाएक गोली चलनेकी आवाज सुनायी पड़ी। आवाज दो गजकी दूरीसे आयी। मैंने उस आदमीको देखा, जिसने गोली चलायी थी। वह अपने दाहिने हाथमें सीधी रिवाल्वर पकड़े हुए था। इसीके बाद तीन बार और गोली चलनेकी आवाज आयी।

इसके बाद ही मैंने गांधीजीको गिरते देखा। मालूम होता था कि उनके पेटमें गोली लगी है। गांधीजी की धोतीपर खून बहने लगा।

एकाएक भीड़में भगदड़ और आतंक फैल गया। एक मिनटके लिए मालूम होता था कि मेरी मृत्यु हो गयी।

गोली मारनेवालेके पास जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने तुरन्त उसे पकड़ लिया। लोगोंने उसकी कलाई जोरसे पकड़ ली उसकी रिवाल्वर गिर पड़ी। गोली मारनेवाला फौजी ढर्रेकी खाकी कमीज और पतलून पहने हुए था।

पहरा देनेवाले सिपाहियोंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। महात्मा गांधी जहाँपर पड़े थे मैं उसी ओर दौड़ पड़ा।

मैंने देखा गांधीजीके शरीरसे खून बह रहा था। उनकी आंखें बंद थीं और सर एक ओर झुका हुआ था। उनके दोनों हाथ जुड़े हुए थे। मालूम हो रहा था कि वे प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी पोसियोंने उन्हें बैठा दिया और तुरन्त ही चार पांच आदमी उन्हें उठाकर बिरला भवनमें ले गये। जिस कमरेमें गांधीजी लिटाये गये उसके दरवाजे बन्दकर दिये गये और किसीको उनकी जगहजानेकी इजाजत नहीं दी गयी।

बिरला भवनके बाहर मैं अपार भीड़में खड़ा रहा। उसके बाद मैंने दीवान चमनलालको बाहर निकलते हुए देखा। मैंने पूछा गांधीजी कैसे हैं। उन्होंने उत्तर दिया, महात्मा गांधी अभी जीवित हैं। इसके पाँच मिनट बाद ही कैम्पका एक आदमी बाहर निकला। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कहा “बापूका स्वर्गवास हो गया।”

## जवाहर लाल रो पड़े, और पटेल अवसन्न थे !

बापू चला गया ! जवाहर लाल का हृदय सन्न हो उठा था ! बिड़ला भवन में बापू की निष्प्राण काया के बगल में आंखों को हथेली पर रख बापू का प्यारा जवाहर सुबकियां ले रहा था ! हां, तभी यकायक उनका और उन्हीं के पास शोक और सन्तापमें डूबे उन के प्रिय साथी सरदार पटेल का हृदय यह सोचकर और भी कराह उठा कि असंख्य बापू की भारत सन्तान और विश्व के नर नारी बापू के निधन से बेहोश हो रहे होंगे ! उन्होंने आंसू पोंछ डाले और 'रेडियो' पर आकर लोगों को भर्राये कंठ से सांत्वना देने लगे । वे बोल रहे थे या रुदन कर रहे थे यह सोचकर रेडियो पर बैठे नर नारी और बाल-वृद्ध भी रो पड़े ।

दूसरे दिन अखबारों में यह रुदन भरा भाषण सब ने पढ़ा । नेहरूजी बोले थे : 'प्यारे भाइयो और साथियो ! मैं आपके सामने बोलने आया हूँ पर किस तरह कहूँ और क्या कहूँ समझमें नहीं आता । एक अंधेरासा छा गया है । हमारे प्यारे बापूका देहान्त हो गया । एक पागल आदमीके हाथसे पेसा हुआ । हमारी बड़ी बड़ी उम्मीद खत्म हो गयी, और हम निराश हो गये । हमें गुस्सा, तकलीफ और निराशा तो होगी ही, दिल अफसोससे भरा है, लेकिन इसके बारेमें हम बादमें सोचेंगे । अब हमें करना क्या है ? ऐसे मौकेपर हमारा और देशका इम्तिहान होता है । जाहिर है कि प्यारे बापू जो करते वही हमें करना है । ऐसी कोई बात न हो जिसे वे पसन्द न करते । हमें वही करना है जो उनकी निगाहमें अनुचित न होता, हमें उनकी हिदायतें माननी हैं ।

वे गये पर वे सदा हिन्दके साथ रहेंगे । न कभी हिन्दुस्तान उन्हें छोड़ सकता है और न वे कभी हिन्दुस्तानको छोड़ेंगे । उनकी आत्मा हमें हमेशा रास्ता बतायेगी, उनकी निगाह यहीं लगी रहेगी । ७८ सालकी उम्र तक उन्होंने हमें सबक सिखाया, हमें आजादीके दरवाजे तक पहुँचा दिया और आज वह रोशनी छिन गयी और अंधेरा छा गया । लेकिन नहीं इस देश और दुनियासे उनकी रोशनी कभी नहीं हटेगी । १००० साल बाद भी उनके सबक हमें और दुनियाको रास्ता दिखायेंगे । दुनिया कहेगी कि एक इन्सान था, जिसने इस देशको रोशनी दी । मैं कहां तक कहूँ । इस वक्त तो मुझे इतनाही कहना है कि हम सर्वोकी तरह इस दुखको बरपाशत करें । हमें

मिलकर, छोटे मोटे झगड़े खत्मकर एक होकर जहर और उत्तेजना का सामना करना है, उसपर काबू पाना है। और उसे खत्म करना है, जिसकी वजहसे हम गलत बात करते रहे हैं। लेकिन हमें इस जहरका सामना करना है अपने रास्ते चलकर बापूके रास्ते चल कर। इस शानदार मुल्कके शानदार नेताके रास्ते हमें चलना है। हमें उस नेताकी शानके खिलाफ कुछ भी नहीं करना है।

इस वक्त मैं कलका कार्यक्रम बता दूँ।

कल साढ़े ग्यारह बजे बिड़ला हाउससे बापूका शरीर उठेगा। शहरकी खास सड़कोंसे होता हुआ जमुना नदीके किनारे जायगा। शामको चार बजे दाहक्रिया होगी। जो लोग गांधीजीके अन्तिम दर्शन करना चाहें वे रास्तेमें किनारे खड़े हो सकते हैं।

यह तो दिल्लीके लिए प्रोग्राम है। देशमें हर जगह लोग कल उपवास करें और शामको चार बजे नदी या समुद्रके किनारे जाकर प्रार्थना करें, और सोचें और अपनी खराबियां निकालें। और प्रतिज्ञा करें कि सारी उम्र उन्हींके बताये रास्ते—सच्चे रास्तेपर चلتेंगे। यही प्रार्थनाका सबसे अच्छा तरीका है।'

और जवाहरलालके चुप होनेपर थोड़ी ही देर बाद हिन्दूके उप-प्रधान मंत्री सरदार बल्लभभाई पटेल भी भारतके रोते हुए हृदयों को सम्हालने के लिये रेडियो पर आकर खड़े हुए, वे कह रहे थे:—

“भाइयो और बहिनो ! मेरे प्यारे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू का पैगाम आपने सुन लिया है। मेरा दिल दर्दसे भरा है। क्या कहूँ और क्या न कहूँ ? आजका अवसर भारतवर्षके लिए शोक दर्द और शर्मका है। मैं आज शामको चार बजेसे बापूके साथ था, और एक घंटेतक उनसे बातकी। फिर वे घड़ी निकालकर बोले—मेरी प्रार्थनाका समय हो गया है, मैं चलूँगा। वे भगवानके मन्दिरकी ओर चल दिये, मैं वहाँसे चला आया। मकानपर पहुँचा भी न था कि मेरे पास एक भाई आया और बोला कि एक नौजवान हिन्दूने गांधीजीके ऊपर पिस्तौलसे चार बार गोली चलायी। मैं फौरन घासपस पहुँचा। उनका चेहरा देखा। हमेशाका वही शान्त चेहरा था। उनके दिलके भीतर दया और क्षमाके भाव उनके चेहरेसे प्रकट थे। और बहुतसे लोग भी वहाँ पहुँच गये। लेकिन वह तो अपना काम करके चले गये। चन्द

## महाप्रयाण

दिनोंसे उनका दिल खट्टा हो गया था। पिछले उपवासमें ही वह चले गये होते तो बहुत अच्छा होता। पिछले हफ्ते भी वह बमसे बच गये। इस समय उन्हें जाना था। सो वह भगवानके मन्दिरमें पहुँच गये।

समय दुख-दरदका है, गुस्सेका नहीं, क्योंकि अगर हमने गुस्सा किया तो हम उनकी जिन्दगी भरका सिखाया सबक भूल जायेंगे। जो हमने उनके जीनेपर न माना उसे मरने पर भी भूले रहे, ऐसा धब्बा हम पर लगेगा। इसलिए भाई जो उन्होंने सिखाया उसकी परीक्षा है। हमें शान्तिसे और मजबूतीसे पैर जमीनपर रखना है। हमारे ऊपर इतनी मुसीबत आ पड़ी है, हमारे ऊपर इतना बोझ आ पड़ा है कि हमारी कमर टूटने लगी। हम हमेशा उनका सहारा लेते थे। लेकिन हमारे जीवनका सहारा चला गया। चला तो गया ही पर वे हर मिनट हमारे साथ रहेंगे। जो चीज वे हमें दे गये हैं, वह हमारे साथ रहेगी। उनकी मट्टी तो कल शामको चार बजे खत्म हो जायगी, पर उनकी आत्मा तो अब भी हमारे साथ है और देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं। शायद ईश्वरकी यही मरजी थी कि इसी तरह हम उनका बाकी काम पूरा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम ना हिम्मत न होंगे। एक साथ मिलकर हमें बाकी काम अपने ऊपर उठाना है। ईश्वरसे प्रार्थनाकर हम इसीकी प्रतिज्ञा करें।”

## महामानव की महायात्रा

बापू महामानव थे ! वे सब के प्राण थे ! उन के चले जाने से सारे जीव और प्राणी व्याकुल हो उठे थे ! दिल्ली तो मानों उनकी महायात्रा को देखने के लिए उलट पड़ी थी । सारी राजनगरीही शोक में विह्वल होकर उन्मादिनी की भांति बापू के महाप्रयाण के जुलूस के पीछे रोती हुई चली जा रही थी, और जब रेडियो इस महायात्रा का वर्णन सुना रहा था, विश्वभर क्रन्दन कर उठा था—राजनगरी तू धन्य है, तूने बापू की महायात्रा में उन्हें विदा देने का सौभाग्य तो प्राप्त किया !

बापू की इस महायात्रा का वर्णन हिन्दुस्तान टाइम्स के विशेष संवाददाता ने इस प्रकार दिया था—

‘अर्धी के जुलूस की तैयारियां उसी समय अर्ध रात्री से शुरु हो गईं जब कि देवदास गांधी, श्रीमती गांधी तथा अन्य परिजन और महात्मा गांधी के निजी साथियों ने हिन्दुधर्म के अनुसार गांधी जी के शवको स्नान कराया । इसके बाद एक साधारण चटाई पर जो गुलाबके फूलोंसे ढँक दी गयी थी, प्यारे नेता को लेटा दिया गया ! सारी रात लोग जागे रहे और गीताका पाठ, श्लोक पाठ तथा रामधुन करते रहे !

६ बजे सुबह बिड़ला भवन के द्वार खोल दिये गये ताकि भीड़ मृत नेताके दर्शन कर सके ! दो घंटे तक हजारोंने शांतिपूर्वक दर्शन किया । लेकिन बाद में भीड़ इस तरह से बढ़ गई कि पुलिस कोई रोक थाम न कर सकी ! कईयोंको भीड़के बढ़नेसे चोटभी आई ! अन्तमें गांधीजी के शवको ऊपर रख दिया गया ताकि लोग बाहर दूर से ही देख सकें ।

इस सुबहको मंत्रियोंमें जो सबसे पहले पहुँचे वे थे—सरदार वल्लभ भाई पटेल ! उनके तुरन्त बादही नेहरूजी पहुँचे ! वे जुलूस के संबंधमें निर्देश करते हुए इधर उधर जाते दिखलाई पड़ते थे । वे उन अनेक राजदूतोंको, जो राष्ट्रके बापूकी अभ्यर्थना और पूजाके लिए माला लेकर वहाँ आते जाते थे, बापूके शवका दर्शन करानेके लिए अन्दरभी खिवा जाते थे !



महाप्रयाण

अमेरीकाके राजदूतकी पत्नी श्रीमती ग्रेडी गांधीजीके शवके पास खड़ी रो रही थीं ।

इसके बाद सरकारके सचिव और सिविल तथा मिलिट्रीके उच्चाधिकारी तथा अमृतसरसे एक विशेष वायुयान द्वारा सिखोंकादल पहुंचा जो अपने साथ सुवर्ण मन्दिरसे फूल और भेंट लाया था !

१० बजे दिनतक सरकारके तमाम मंत्री, काँग्रेसी नेता और विधान सभाके सदस्य तथा आचार्य कृष्णानी, श्रीमती कृपलानी और श्री मेहरचन्द्र खन्ना बिरला भवनमें आ पहुँचे ।

सरदार बलदेवसिंह महाप्रयाणके जुलूसका प्रबन्ध करा रहे थे !


लन्दनके भारतीयोंके प्रतिनिधि डा० सी० एल० कतिअलभी वहाँ उपस्थित थे ! हैदराबादके प्रधानमंत्री श्री लायक अली नेत्रोंमें आँसू भरे शवके निकट तक गये !

गाँधीजी की अर्धी १० बजे दिनको बिड़ला भवनसे निकाली गई । अर्धीको ३० आदमी, जिनमें श्री देवदास गाँधी, श्री जी० डी० बिड़ला और श्री गाडगिलभी थे, बाहर लाये और तब शवको फूलों से सुसज्जित सैनिक गाड़ी पर रखा गया ! सारी भीड़पर आत्मिक शांति सी छा गई और वे शवपर गुलाबके फूल बिखेरने लगे । दूसरी ओर स्त्रियाँ जोर जोरसे सिसक रही थीं । गाँधीजी का शव श्वेत खदरमें लिपटा हुआ था और राष्ट्रीय ध्वजासे ढँक दिया गया था ! सिर और चेहरा खुला हुआ था और माथे पर चंदन लेप दिया गया था !

११ बजकर ४३ मिनट पर जैसे ही गाड़ी पर लदा हुआ गाँधी जी का शव बाहर आया, गंखोंकी ध्वनि हुई और गाँधीजी की जय से वायुमण्डल गूँज उठा । पं० जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और सरदार बलदेवसिंह शोकातुर होकर जुलूसका नेतृत्व कर रहे थे । गाड़ीके बीचके पावदान पर दाहिनी ओर सरदार बलदेवसिंह और बायीं तरफ नेहरूजी खड़े थे ।

सरदार बल्लभ भाई पटेल महात्माजीके चरणोंके पास बैठे थे और सामनेसे श्री देवदास गाँधी बैठे थे ।

लार्ड माउण्टबेटन जुलूसके आगे आगे थे । गाड़ीके आगे गांधीजीके परिजन और आश्रमवासी थे ! भीड़को चीरती हुई पुलिस और फौज अर्धीके



अन्तिम यात्रा



ऊपर  
रामलीला मैदान-  
शोक सभा में पंडित नेहरू  
देशवासियों को सात्वना  
देते हुए

नीचे-सरदार पटेल  
शोकग्रस्त जनता को  
सात्वना देते हुए



बापू—

आभा और मत्तु गांधी के साथ प्रार्थना सभा में जाते हुए

[ ३० जनवरी १९४८ ]

जुलूसके लिए मार्ग बनाती जाती थी। जुलूसके बढ़नेके साथ साथ 'महात्मा गान्धीकी जय !' और 'महात्मा गान्धी जिन्दाबाद'के नारे लगाए जा रहे थे !

जुलूसके आगे आगे सशस्त्र गाड़ीयाँ थीं। और उनके पीछे आर्मड फोरसेज और वालेंटियरोंके प्रतिनिधि थे। उनके पीछे अशवारोही और हाथोंमें छाल वा श्वेत पताका लहराते हुए गवर्नर जनरलके अंगरक्षक चल रहे थे ! उनके पीछे गोरखा फौज, प्रमुख कांग्रेसी नेता और सिविल तथा सैनिक अधिकारी थे। तब शव वाली गाड़ी थी जिसे आर्मड सर्बिसके सैनिक खींच रहे थे।

गाड़ीके पीछे गांधीजाके कुटुम्बी और साथी थे। जुलूसके पीछले भागमें सभी जातियोंके लोग थे और स्त्रियों की अपार भीड़ थी, जो गांधीजीके प्रिय भजन 'रामधुन' को गाती जाती थीं !

जुलूसके बढ़नेके साथ साथ शवके पास बैठे हुए प्रमुख व्यक्ति अदलते बदलते जाते थे। आचार्य कृपलानी, डा० राजेन्द्र प्रसाद और कुमारी मनी बेन पटेल तथा श्री रामदास गांधी बारी-बारीसे गाड़ी पर बैठते थे !

केवल सरदार बल्लभ भाई पटेल पांच घंटे तक चट्टानकी तरह अडिग होकर अपने प्यारे गुरुके चरणोंके पास बैठे रहे !

रास्ते भर लोग अर्धी तक पहुँचनेके लिए दूटे पड़ते थे और बहुतसे छतों पर चढ़कर गांधीजीके दर्शन करनेका प्रयास कर रहे थे ! बहुतसे पेड़ों पर चढ़ गये थे। कोई लैम्पपोस्ट पर ही बँधा बैठा था, तो कोई किसी खम्भे पर ही चढ़ गया था। अनेक छारियों और मोटरोंके सिर पर खड़े थे। प्रत्येक इस बातके प्रयासमें था कि वह गांधीजीके मुखका दर्शन करले और जुलूसके दृश्यको देख सके। सबसे अधिक भीड़ इंडिया गेट और प्रिंसेज प्लेसके पास थी ! लोग रो रहे थे और 'महात्मा गांधी' की जयका नारा लगाते जाते थे।

नेताओंके चेहरों पर दुःख और शोककी स्पष्ट छाया अंकित थी। उन्हें पहचानना कठिन था। ये लोग ऐसे मालूम पड़ते थे जैसे १० वर्ष और बूढ़े हो गये हों।

जुलूस विरक्तो डिस्ट्रिक्ट जेलके पास आकर रुका। कुछ ही हप्तें पहले यहाँ गांधीजीने कैदियोंसे बातें की थीं। गाड़ी पर फूल और गुलाबकी पंखड़ियाँ बिखेरी

महाप्रयाण

गई ! अर्थीके चिता भूमिके पास पहुँचने से पूर्व जमुना पुल से लाल किले तक मानव मुँह ही दिखलाई पड़ते थे ।

दाह संस्कारकी क्रिया इस महायात्राका अपूर्व दृश्यथा । सुन्दर सिकताकणोंके ऊपर चन्दनकी चिता बनाई गई थी ! गांधीजी के परिजन और साथी चिताको घेरकर बैठे थे ! प्रमुख आगतों को फूल और मालाएं बाँट दी गई थीं ! तब शवकी गाड़ी पहुँची ।

आश्रमवासियोंने बापूका शव उठाकर चन्दनकी चितावेदी पर रखा ! इस दृश्य को देखकर लक्षों हृदय तेजीसे धड़क उठे ! महायात्राकी यह अन्तिम मंजिल थी ।

मानव समुद्र उमड़कर आगे बढ़ा और चिताके चारों तरफसे घिर गया । चारों तरफसे फूल और मालाओंकी वर्षा होने लगी । पहली माला चीनी राजदूतने अर्पित की ।

अर्थी परसे झंडा हटाया गया तथा गांधीजीके शवपर चन्दनकी लकड़ियाँ रखी गयीं ! पण्डित रामधन शर्मा वेदके मन्त्रोच्चारण कर पौरोहित्य कार्य कर रहे थे ।

चिताकी वेदी १५ मन चन्दनकी लकड़ी, ४ मन घी, २ मन सामग्री, १ मन नारियल और १५सेर कपूरसे बनाई गई थी ।

४ बजकर ५० मिनट पर—

श्री रामदास गांधीने चिताको प्रज्वलित किया । थोड़ी ही देरमें हवाके झोंकोंके साथ लपटें आसमानको उठने लगीं ! इस दृश्यको देखकर भीड़ करुणाद्र हो उठी ! आगकी लपटोंके ऊपर उठनेके साथ अपार जन समूह ने 'महात्मा गांधी अमर हो गये' का तुमुल घोष किया ।

सरदार बल्लभ भाई पटेलने जो भूमि पर बैठे हुए थे, एक रोती हुई बालिकाके सिर पर हाथ रखा, मानो उसे समझा रहे हों । सरदार पटेल आध घण्टे तक मूर्ति की भांति निश्चल बैठे रहे ! नेहरूजीके चेहरेसे ऐसा प्रकट हो रहा था, मानों वे अपनी अवस्था से १० वर्ष अधिक वृद्ध हो गये हों ।

चिता प्रज्वलित होने पर धूआँ तो शांत हो गया लेकिन अपार जनसमूहके पैरोंसे उठने वाली धूलने सारे दृश्यको ढँक दिया ! तुरन्त ही हवाका एक जोरदार झोंका आया और दृश्य फिर खुल गया ।

लपटें २० फीट तक ऊंची उठ रही थीं। चन्दनकी पवित्र अग्नि ने अमर गांधीके नश्वर शरीरको भस्म कर डाला था !'

इस प्रकार महात्मा गांधीकी नश्वर काया यद्यपि हत्यारेके गोली दागनेके २४ घंटे बाद पवित्र अग्नि देव द्वारा भस्मीभूत करदी गई, लेकिन उनकी अमर आत्मा भारत और विश्वके प्राणोंमें अमर होकर चिरकालतक रमण क्रिया करेगी !

गांधीका शरीर चला गया लेकिन गांधीत्व कभी दुनियासे न जा सकेगा ! जबतक संसारमें सत्य, अहिंसा, क्षमा और करुणा का अस्तित्व रहेगा तबतक गांधी का अस्तित्व मिटाये नहीं मिट सकता !

तब कौन कहता है गान्धी मर कर चले गये, गान्धीतो मरकर अमर हो गये हैं ।

## अन्तिम यात्रा समाप्त

शोकार्त्त भारत और भारत की सरकारने अपने राष्ट्रके बापूके महाप्रयाणपर १३ दिन का नियमित शोक मनाया ! इन १३ दिन तक पूरे राष्ट्र ने सूतक रखा और हृदय तथा कर्म द्वारा 'बापू' के प्रति जैसा कि पुत्र पुत्रियोंको वाञ्छित है अपना सांसारिक कर्त्तव्य पूरा किया ।

किन्तु कितना कठोर था यह कर्त्तव्य ? प्रत्येक दिन मौन और निस्तब्धता में बीता ! इन १३ दिनों मालूम होता था मनुष्यके साथ प्रकृति भी दूखाभिभूत होकर मौन और निस्तब्ध है !

फूलोंने मुस्काना छोड़-सा दिया था, चिड़ियों ने चहकना और ऊपा ने विहंसना !

१२ ता० फरवरी सूतक का १३ वां दिन आया ! महाप्रयाण का यह १३ वां दिन महायात्राका अन्तिम दिन था ! गांधीजी की अस्थियां इस दिन त्रिवेणीके संगम पर गंगा और यमुनाकी अनन्त गोदमें विसर्जित होनेकी थीं ! अतः बापू की अस्थियों को लेकर ११ ता० फरवरी को सुबह ६ बजकर ३० मिनट पर दिल्लीसे स्पेशल गाड़ी रवाना हुई और १२ ता० सुबह नौ बजे प्रयागतीर्थ में आ पहुँची !

स्पेशल गाड़ी जिस स्टेशन पर पहुँचती भारतके नर नारी और बाल-वृद्ध इस तरहसे 'अस्थियों' को देखनेके लिये टूट पड़ते मानों वे अपनी आंखों से यह जान लेना चाहते हों कि क्या सचमुच गाड़ी में बापू नहीं केवल उनकी अस्थियां हैं; और तब प्रत्यक्षका दर्शन करने के बाद बोझिल हृदय और मनको लेकर वे मर्माहत से लौट जाते !

कितना हृदय विदारक वह दृश्य था ?

हिन्दुस्तान टाइम्सके संवाददाताने जो स्पेशल ट्रेनके साथ दिल्लीसे प्रयाग आया था, इस प्रकार अन्तिम महायात्रा का विवरण दिया था:—

“अस्थि स्पेशलने जो महात्मा गांधीके पवित्र अवशेषोंको लेकर दिल्ली से इलाहाबाद को रवाना हुई, तमाम पुराने रेकार्ड तोड़ डाले। गांधीजी के जीवनकाल में भी कभी प्रशंसा गाती हुई और ‘महात्मा गांधी की जय’ तथा ‘बापू जिन्दा बाद’ चिल्लाती हुई इतनी भीड़ गाड़ीके पास जमा न हुई थी। इतनी भीड़ होने पर भी पहले कभी किसी गाड़ी ने अपने नियमित समयका पालन न कर सका था। मार्ग में आसानी से २० लाख आदमी अस्थिके ढिबरे का दर्शन कर सके !

मार्ग भरमें अनेक हृदयस्पर्शी घटनाएँ देखनेको मिलीं, लेकिन श्रीदेवदास गांधीके सबसे छोटे लड़के गोपू, जो अभी ३ वर्षका है, को भावुकता का दृश्य बहुत ही हृदय विदारक था ! गाजियाबादमें ‘महात्मागांधीकी जय’ का नारा सुनकर वह जाग उठा और स्वयं भी दो बार ‘महात्मागांधी की जय’ चिल्लाया ! उसकी इस तोतली पुकार ने सबकी भावनाओं को जगा डाला और बहुतांशों की आंखें भर आईं। चार घंटे बाद रास्ते में जब उसने एकाएक असंख्य भीड़ को ‘महात्मा गांधीकी जय’ चिल्लाते सुना तो गंभीर होकर गोपू ने अपनी माँ से पूछा “सब महात्मा गांधीकी जय कह रहे हैं तो क्या बापू लौट आवेंगे ?” निःसन्देह ये ही भाव दूसरों में भी थे !

दूसरा हृदयग्राही दृश्य वह था जब कि कानपुर स्टेशनपर मूर्च्छित हो जाने से एक अंधेड़ व्यक्ति को स्पेशल कम्पार्टमेंट में ले जाया गया ! होश में आने पर वह प्रार्थना करने लगा कि उसे भीड़ में जाने दिया जाय, क्योंकि उसे अस्थिके दर्शन करने हैं ! वह चला गया लेकिन फिर मूर्च्छित हो चला !

### अस्थि स्पेशलमें

लगभग २५० आदमी थे जिन में ३२ पत्रकार और फोटोग्राफर भी शामिल थे ! भारत सरकार का प्रतिनिधित्व श्री० के० सी० नियोगी करते थे ! रेलवे के चीफ कमिश्नर बकवेले भी यह देखने के लिए साथ थे कि गाड़ी निर्धारित समय पर चलती रहे ! भारतीय रेलवेके इतिहास में यह पहला अवसर था जबकि रेलके चीफ कमिश्नर ने भीड़ के साथ तीसरे दर्जे में सफर किया ! इन्तजाम में कोई शुटी न थी ।

गाड़ीकी देख रेख के लिए ४०० मीलके लम्बे रास्ते में हर फलांग पर



## महाप्रयाण

एक गाड़ खड़ा कर दिया गया था। कानों कान गांव गांव में खबर पहुँच गई थी कि अस्थि स्पेशल आनेवाली है, इसलिये सर्वत्र ग्रामीणोंकी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। स्पेशलके पहुंचते ही सब हाथ जोड़कर मस्तक नवालेते और इस बात से हर्षित हो उठते थे कि उन्होंने अस्थि वाले डब्बे को देख सका !

गांवका एक धनी व्यक्ति हाथी पर चढ़कर आया था ताकि ठीक तरह से अस्थि के दर्शन कर सके !

एक गांवके पास ट्रेन के पहुंचने पर स्कूलके बच्चे दौड़े हुए ट्रेनकी तरफ बढ़े किन्तु उनके नन्हें पांव उन्हें वहां तक न पहुंचा सके ! इसलिए २०० गजकी दूरी पर ही खड़े होकर उन्होंने महात्मा गांधी की जय का नारा लगाया और श्रद्धाके साथ गाड़ीकी दिशा में अपने हाथमें के फूल फेंक दिये !

अस्थि ट्रेनकी यात्रा नई दिल्लीके प्लेटफार्म से आरम्भ हुई ! तड़के ४ बजकर २० मिनट से ही दर्शकों की असंख्य भीड़ अस्थि कम्पार्टमेंट के अगल बगल में एकत्रित होनी शुरू हो गई थी। भीड़ संयमित थी ! स्टेशन पर अन्य लोगोंके साथ प्रधान मंत्री पं० नेहरू और ट्रान्सपोर्ट मंत्री श्री मथार्ई मौजूद थे !

स्टेशन पर अस्थिघटके इर्दगिर्द बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति गीताके श्लोक पढ़ते जाते थे !

## महायात्रा का आरम्भ

स्पेशल ट्रेन ठीक ६ बजकर ३० मिनट पर महायात्राके लिए रवाना हुई ! स्टेशन और उसके बाहर एकत्रित हुए अपार जन समूह ने गाड़ी के चलते ही गांधीकी जय के नारे से आसमान को गूंजा दिया !

अवसर के अनुरूप दिल्ली स्टेशन बिलकुल शांत था ! सशस्त्र पुलिसका कदम कदम पर पहरा था ! जिस समय अस्थि स्पेशल पुल से गुजरी यमुना नदी पर कुहरा छाया हुआ था। और नीचे बहता हुआ पानी तेजीके साथ अस्थि दानको लेनेके लिए प्रयागकी ओर बढ़ता मालूम पड़ता था !

अस्थि ट्रेन सबसे पहले गाजियाबाद में रुकी। स्टेशन पर स्त्री पुरुषोंकी अपार भीड़ थी। अस्थि कम्पार्टमेंट के पास पहली कतार स्त्रियों की थी और

उनके बाद पुरुष थे। स्पेशल ट्रेनके रवाना होनेके बाद तक भीड़ जमा होती ही जाती थी।

खुरजा में बहुत से लोग दर्शन के लिए पुल और पेड़ों पर चढ़ गये थे ! अस्थि कम्पार्टमेंट से रामधुनकी आवाज आने पर हजारों की भीड़से भी वही प्रतिध्वनि होने लगी ।

अलीगढ़में अस्थि ट्रेन नियत समय पर पहुंची । हजारों स्त्री पुरुषोंके साथ स्टेशन पर छतारी के नवाब ओर श्री मुहम्मद इस्माईल भी मौजूद थे !

भीड़ ने चारों तरफ से ट्रेन पर फूल बरसाये ।

मार्गमें गांवके नर नारी ट्रेनको आते देख अपना कार्य जहाँका तहाँ छोड़कर अस्थि की अर्चना में मस्तक नवाते जाते थे !

द्वाधरस स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि उसे सम्हालना दुष्कर हो चला ! सब अस्थि घटको देखने के लिये दूट पड़ते थे ।

टुण्डला में तो भीड़की हद ही हो गई ! करीब एक लाख स्टेशन पर एकत्रित हो गये थे । उन्हें सम्भालना या संचालन करना पुलिस और सैनिकोंके बश में न रह गया । सब अस्थिके दर्शनको पागल से होकर घंसते जा रहे थे । यह धका-पेल ट्रेनके रवाना होने पर ही शांत हो सकी ।

कानपुरका दृश्य अत्यन्त निराला था । यहाँ पर ट्रेन दो घंटे रुकी ! रेलवे लाइनके ५० मील तक दोनों तरफ भीड़ ही भीड़ खड़ी थी ! कुल मिलाकर करीब ५० लाख स्त्री पुरुष भीड़ में होंगे । इतनी भीड़ कभी न हुई होगी ! कितने इस भीड़ में मूर्च्छित हुए और गिरपड़े कुछ ठिकाना नहीं, लेकिन आहत कोई नहीं हुआ ।

बीच बीच में रामधुन गाया जाता था । लेकिन 'महात्मा गांधी की जय' की आवाज अभिरक्त रूप से गूंजती रही । ट्रेनके रवाना होने पर तो लोगों ने नारों से आकाश को ही मानों चीर डाला । १५ मिनट तक ट्रेन को केंचुप की तरह बिसकना पड़ा, क्योंकि मीलों तक लाइन के दोनों ओर दर्शकोंकी प्यासी भीड़ जमा थी । भीड़ में यूरुपियन भी शामिल थे ।

इस भीड़ के कारण वातावरण इतना गरम हो चला कि कम्पार्टमेंट

महाप्रयाण

में बैठे हुए लोग भी ऊब उठे। कानपुर से गुजरने के बाद ही खुली हवा मिल सकी! निःसन्देह गतनेताके वियोग में कानपुर गला फाड़ फाड़ कर बिलाप कर रहा था।

रजुलाबाद में ट्रेन ११ घंटे रुकी। यहाँ से फिर वह ७ बजे प्रातः चली और ९ बजे सुबह रामधुन के संगीत में लहराती हुई प्रयाग के पुनीत स्टेशन पर आ लगी। स्टेशन पर पं० नेहरू और पं० पंत के नेतृत्व में तमाम मंत्रीगण एकत्रित थे।

### त्रिवेणी में अस्थि विसर्जन

( ऐसोसियेटेड प्रेस द्वारा प्रकाशित अस्थि विसर्जन का मार्मिक विवरण )

महात्मा गांधीकी अस्थियोंको दिल्लीसे लानेवाली स्पेशल ट्रेन आज सबेरे ठीक ९ बजे प्रयाग पहुँच गयी।

स्टेशनपर कुछ खास लोगोंको जानेकी ही अनुमति दी गयी थी, क्योंकि आदमियोंके इस महासमुद्रको स्टेशनपर नहीं जाने दिया जा सकता था।

जैसे ही “रघुपति राघव राजाराम” के भजनके साथ ट्रेन स्टेशनपर पहुँची वैसे ही सारा वातावरण शोक और श्रद्धाके साथ बिलकुल शान्त हो गया। हिंदू सरकारके प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और पंडित गोविन्द वल्लभ पंत गाड़ीके दरवाजेपर गये और उन्होंने अस्थिघट ले लिया।

अस्थिघट कुर्सीपर रखा हुआ था और उसे पंडित जवाहरलाल और उनके अन्य साथी बाहर ले आये।

मंत्रियोंने अपनी छोटी सी पंक्ति बना ली और इनमें सबसे आगे थीं संयुक्त प्रान्तकी गवर्नर श्रीमती सरोजनी नायडू।

कुमाऊँ पलटनके सैनिकोंने अस्थिघटको सलामी दी और जुलूसके आगे आगे हो लिए। स्टेशनके पूरे मार्गपर जहाँसे होकर घट ले जाया गया, शुद्ध सफेद खादी बिछी हुई थी।


स्टेशनके बाहर अस्थिघटको एक रथ पर रख दिया गया। घटको रखनेके लिए रथपर एक मंच बनाया गया था जो जमीन से १७ फीट ऊँचा था।



प्रयाग में अस्थि-विसर्जन का जुलूस



शोक सभा में  
सरदार पटेल बोल रहे हैं  
नेहरू तथा  
शंकर राव देव  
बैठे हैं।



अस्थि स्पेशल दिल्ली से प्रयाग जाते हुए



अवशेष पर पहरा  
देते हुए सैनिक  
( राजघाट )

मंचपर महात्मा गांधीकी एक मूर्ति रखी गयी थी । और मूर्तिके बगलमें अस्थिघट ।

बिगुल बजा और रथ चल पड़ा । रथपर बैठे हुए लोगोंमें थे प्रधानमंत्री नेहरू जी, सरदार पटेल, श्रीरफी अहमद किदवई ।

जुलूसके आगे आगे बखतरबंद गाड़ियां और जीप कारें थीं एवं पीछे १२-१२ की कतारमें घुड़सवार पुलिस । रथके पीछे और अगल बगल दोनों ओर भी रक्षा सैनिक थे ।

क्वीन्सरोड और कैनिंगरोडके चौराहे पर स्थित गिरजेके निकट जब जुलूस पहुंचा तब तक भीड़ दो लाखसे ऊपर पहुंच चुकी थी । गिरजेके अहाते में सैकड़ों व्यक्ति काले वस्त्रोंमें विश्वबंध बापूके अवशेषोंके आगमनकी प्रतीक्षामें मौन और शान्तभावसे खड़े हुए थे ।

‘जय’ का कोई नारा नहीं लगा कोई फुस फुस भी नहीं, केवल घोड़ोंके टापों और मोटरके इंजनकी आवाज सुनायी दे रही थी ।

रथ गिरजेके सामने कुछ मिनट रुका और शोकाकुल पर शांत वातावरणमें बापूका प्रिय अंग्रेजी गीत “लीड काइन्डली लाइट” सुनाई दिया ।

जुलूस जैसे जैसे आगे बढ़ता था वैसे वैसे इसकी लंबाई बढ़ती नजर आती थी । सुबह जुलूस निकलनेको था लेकिन जिन सड़कों से होकर उसे जाना था उनपर मध्यरात्रिसे ही लोगोंने अपना डेरा जमा लिया था ।

पुरुषोत्तमदास पार्कके निकट आते आते जुलूसकी संख्या १५ लाखसे ऊपर हो गयी होगी । पंडितजी कुछ समयके लिए रथसे उतर पड़े और पैदल चलते रहे । बादमें अस्थिघटको एक बत्तख मोटरपर रखा गया जो जमीन और पानी दोनोंपर चल सकता है । बत्तख मोटरपर भी पं० नेहरू तथा अन्य मंत्रियोंके अलावा युक्त प्रांतकी गवर्नर श्रीमती सरोजनी नायडू थी ।

बत्तख मोटर पहले सरस्वती घाटकी ओर चला । बादमें इस प्रकार चक्कर काट कर कि दर्शन करनेके लिए आतुर जनता अस्थि घटका दर्शन कर सके, मोटर रांगा यमुना सरस्वतीके संगमपर आया और श्रीरामदास गांधीने वैदिक मंत्रोंके

## महाप्रयाण

बीच लगभग २ बजे अपने पिता-राष्ट्रपिता और वस्तुतः जगतपिताके पार्थिव अवशेषोंका विसर्जन कर दिया ।

विसर्जित होनेके पूर्व चारों विमानोंने बहुत नीचे आकर अस्थियोंपर पुष्पवृष्टि की । लोगोंने अंतिम प्रणाम किया । सहस्त्रों स्त्रियोंकी आंखों से अश्रुधारा चल पड़ी-बहुत कठोर हृदय पुरुष भी अपने आपको रोक न सके । पं० जवाहरलाल नेहरूको भी लोगोंने कई बार देखा अपने रुमालको आंखों तक ले जाते हुए । अस्थियां जलमें प्रवाहित कर दी गयीं । घट रख लिया गया । कुछ और कृत्य संपन्न करनेके लिए थोड़ी देरके लिए संगमपर रह गये नेता किनारे वापस आ गये ।

संगम तक आते आते दर्शनार्थी जनताकी संख्या ३० लाखसे ऊपर हो चुकी थी ।

इस कृत्यकी समाप्तिके बाद ही प्रधान मंत्री पं० नेहरूने करीब करीब आधघंटे तक भाषण दिया, कुछ रूंचे हुए कंठसे प्रधानमंत्रीने शुरू किया—“आखिरी सफर खत्म हो गया, अंतिम यात्रा समाप्त हो गयी ।”

## अंतिम यात्रा समाप्त हो गई

( अस्थि विसर्जनके बाद संगमपर पं० नेहरू जी का श्रद्धांजलि भाषण )

आज राष्ट्रपिताकी अंतिम यात्रा समाप्त हो गई। पिछले पचास सालसे महात्मा गांधी देशभरमें घूम घूम कर जनताको सत्य और अहिंसाका पाठ पढ़ा रहे थे। उनकी जन-सेवा स्वार्थरहित थी। अब यह महान व्यक्ति हमारेबीच नजर नहीं आयागा, लेकिन उनका संदेश हमारे साथ सदैव रहेगा। आज इस महामानवकी अस्थियोंका विसर्जन कर देनेके बाद हमारा नाता समाप्त नहीं हो गया है बल्कि हमारा और उनका बंधन और भी दृढ़ हो गया है।

यह हमारा भाग्य था कि हम उसी समयमें रहे जिसमें महात्मा गांधीका अवतार हुआ और हमने उन्हें हाड़मांसके शरीरमें देखा। आने वाली पीढ़ी उन्हें शारीरिक रूपमें न देख सकेगी लेकिन उसेभी उनसे वही शक्ति मिलेगी जो शक्ति हमें मिली है, क्योंकि उनके व्यक्तित्वका प्रभाव अनंत काल तक बना रहेगा।

महात्मा गांधीके निधनके पहले हमसब उनके पास जाते थे और उनकी सलाहसे लाभ उठाते थे। अब हम ऐसा न कर सकेंगे। अब हम उनकी ओर न देख सकेंगे और न वे हमारी कठिनाइयों और बोझोंमें हिस्सा बांट सकेंगे। अब हमें बिना उनके ही सब चीजोंका सामना करना है। लेकिन उन्होंने हमें जो सिखाया है वह सदा हमारे साथ प्रोत्साहन और प्रदर्शनके रूपमें रहेगा।

महात्मा गांधीने देशको स्वतंत्रताकी ओर ले जाते हुए अहिंसा और सांप्रदायिकताके विरुद्ध पाठ पढ़ाया। स्वतंत्रता मिल जानेपर हम विभाजित हो गये और देशभरमें हिंसाकी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ गयी। एक पददलित देशको अहिंसाके द्वारा स्वतंत्र कराना मानव इतिहासमें अद्वितीय है। लेकिन आज स्वतंत्र भारत बाहरकी दुनियाकी नजरोंमें शर्मिन्दा है, उसकी आत्मामें ठेस लगी है।



## महाप्रयाण

कुछ दिनोंसे देशभरमें सांप्रदायिकताका विष फैला हुआ है। अधिकांश व्यक्ति हिंसाकी ओर मुक रहे हैं और इसी हिंसाके शिकार हमारे सबसे प्रिय बापू हुए। इस हिंसाको यदि न रोका गया तो यह हमारी आजादीको नष्ट कर देगी और आज हमें गंगाजीके किनारेसे यह प्रतिज्ञा करके ही जाना है कि इस हिंसाको समाप्त कर देंगे। हमारे देशके नवयुवकोंकी बहुत बड़ी संख्या हिंसाकी ओर जा रही है। हमें उनकी गलतियां दिखलाकर उन्हें हिंसाके मार्गसे वापस लाना है।

अपने राजनैतिक विरोधियोंके विरुद्ध हिंसाका प्रयोग करना हमारी इच्छाओंके विरुद्ध है। साथ ही साथ यह हमारे भविष्यके लिए खतरनाक है। हमने निश्चय करलिया है कि देशमें प्रजातांत्रिक शासनकी स्थापना होगी। बिना शान्ति-भंग प्रत्येक नागरिक को अपने विचार प्रकट करनेका अधिकार है। यहां वही सरकार काम करेगी जिसमें अधिकांश जनताका विश्वास होगा। जो लोग इस प्रकारकी सरकारको पसन्द नहीं करते और हिंसाके जरिये शक्ति छीनना चाहते हैं उनके लिये स्वतंत्र भारतमें कोई स्थान नहीं है।

देशमें हिंसा और सांप्रदायिक घृणाका वातावरण किस प्रकार उत्पन्न हुआ ? इसके मुख्य कारण थे कुछ जिम्मेदारीके स्थानपर काम करनेवाले व्यक्ति जिन्होंने नयी पीढ़ीको गुमराह किया और अपने स्वार्थ साधनके लिए अनजान जनताका बेजा फायदा उठाया। यह हो सकता है कि इस स्थितिका सामना करनेके लिए हम पहले कुछ कमजोर साबित हुए हों, लेकिन आज राष्ट्रपिताका अंतिम संस्कार करके हममें कौन है जो हिंसाका नाश करनेकी प्रतिज्ञा न कर लेगा।

आज हम सभी उदास और भारी दिल लेकर घर लौटेंगे लेकिन हमारे इस दुखमें इस गर्वका मिश्रण भी होगा कि महात्मा गांधी ऐसे महान् व्यक्ति हमारे नेता थे।

महात्मा गांधीने हमारे लिये जो कुछ भी किया उसके लिए उनके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य भी है। हमारा फर्ज है कि हम उनके द्वारा शुरू किये गये कामको पूरा करें और उनके विचारोंके भारतका निर्माण करें। हमें सांप्रदायिक भेदभाव

छोड़कर सबको समान अधिकार देना चाहिए। मनुष्यकी समानताका संदेश हमें दुनिया भरके सामने रखना है। यदि हम ऐसा न कर सके तो इसका मतलब होगा कि हम ऐसे महान नेताके योग्य न थे।

पिछले ४० साल से हम सभी 'गांधीजीकी जय' बोलते रहे हैं। गांधीजी कभी अपनी जय नहीं चाहते थे। भारत की विजय ही उनकी विजय थी। उन्होंने सत्य और अहिंसा की दृढ़ नींव पर भारतीय स्वतंत्रता की नींव डाली और हम सबको यही चेष्टा करनी चाहिये कि हम उनका सबसे बड़ा यही स्मारक बनावें।

---

## भारत की अंतिम श्रद्धाञ्जलि

प्रयाग की प्रमुख अस्थि विसर्जन क्रिया के साथ साथ हिमालय से लेकर वन्यावुमारी तक प्रायः सभी क्षेत्रों ( पवित्र स्थानों ) में महात्मा गांधी की अस्थियां वैदिक रीति से संपन्न हुईं । गंगा, यमुना, गण्डक, सतलज, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि पवित्र नदियों तथा रामेश्वर, बम्बई और पुरी आदिमें समुद्रमें अस्थियां विसर्जित की गयीं । जिन स्थानों पर अस्थि विसर्जन नहीं हुआ ( क्योंकि वहां के लोगों को अस्थि प्राप्त न हो सकी ) वहां भी जनता ने नदियों के किनारे एकत्र होकर धूप को अपनी अंतिम श्रद्धाञ्जलि अर्पित की ।

इस पुण्यकार्य में अपार जनताने, जिस में सभी संप्रदायके लोग थे, भाग लिया । जनता की ऐसी भीड़ आज तक कभी न हुई थी । इस काररवाई के समय जनता बहुत शांत और नियंत्रित रही । जब हृदय ही व्यथासे मौन थे, मुख सुखरित होते भी कैसे ।

### दुनियाँ ने साथ दिया

अस्थि-विसर्जनके अवसर पर संसारने भी महात्मा गांधी को श्रद्धाञ्जलियाँ अर्पित कीं ।

वॉशिंगटन ( १२ फरवरी ) की एक विशाल सभामें भाषण करते हुए अन्तर-राष्ट्रीय सीनेटर श्री टामसने कहा “गांधी विश्वके नागरिक थे । मरने के बाद गांधी जिन्दा गांधीसे बढ़कर शक्ति संचारका काम करेंगे ।

वे पच्छिम और पूरब का समन्वय करने वाले महात्मा थे । वे युगपुरुषथे युग युगान्तरके महामानव थे ।”

श्रीमती पर्लबकने कहा—“हिन्दू तभी बड़ा बन सकता है जब गांधीजी के आदर्श और उनकी अद्भुत महाशक्ति अहिंसा को अपनावे ।”

प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइन्सटीनने कहा—“गांधीके प्राण इसलिये गये कि उपद्रवके दिनोंमें भी उन्होंने हथियारोंसे अपनी रक्षा पसन्द न की । उन्होंने प्रदर्शित करदिया कि मानवताके हृदय पर काबू करनेके लिए राजनीतिक कुचक्र तैयार करने की जरूरत नहीं है ? विशुद्ध नैतिक आचरणसे यह चीज प्राप्त हो सकती है ।”

अमेरिकामें ग्रेण्ड इण्टर डिपार्टमेंटल आडिटेरियम में गांधीजी के लिए प्रार्थना की आयोजना की गई थी । हाल खचाखच भरा हुआ था ।

अमरीकाके प्रेसीडेंट ट्रूमैन और—उनकी पत्नी भी समय पर पहुँचे ।

प्रेसीडेंटके बगलमें अमरीकाके परराष्ट्र सचिव श्री जार्ज मार्शल थे और उनके पीछे कांग्रेस, अमरीकाके न्याय, शासन प्रबंध आदि विभागोंके प्रतिनिधि बैठे थे ।

इस अवसरपर धूपबत्ती जला देनेसे वहाँके पावन वातावरणमें और भी वृद्धि हो गयी ।

उस निरतब्ध शान्तिमें विश्वकवि रबिन्द्र नाथ ठाकुरका एक गीत पढ़ा गया और उसके बाद ही फिर उसका अंग्रेजी अनुवाद भी ।

कई धर्म ग्रन्थों के अंश पढ़े गये जिनसे इस शोक समारोहका उत्कर्ष और उसकी महत्ता और भी बढ़ गयी ।

जिस स्थानसे धर्म ग्रन्थोंके बचन पढ़े जाते थे उसके दोनों ओर हिन्द और अमरीकाके झण्डे लगे हुए थे । झण्डोंमें मालाएं पड़ी हुई थीं । और गुलाबके फूल लगे हुए थे ।

फिर कुछ देरकी पूर्ण श्रद्धामय निस्तब्धताके बाद प्रार्थना पढ़ी गयी और समारोह समाप्त हो गया ( रायटर ) ।

## सच्ची श्रद्धांजलि

लार्ड माउन्ट बेटन

१२ फरवरी को नयी दिल्लीसे रात रेडियो पर भाषण करते हुए गवर्नर-जनरल लार्ड माउण्टबेटनने कहा कि गांधीजीको जो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हम दे सकते हैं वह है कि “हम अपने दिलों, दिमागों और हाथोंको हिन्दमें एक असम्प्रदायवादी लोकतांत्रिक राज्य कायम करनेमें लगा दें, जिसके अन्दर सब लोग उपयोगी तथा रचनात्मक जिन्दगी बिता सकें, और जिसमें सामाजिक तथा आर्थिक न्यायपर आधारित एक वास्तविक प्रगतिशील समाज बनाया जासके।”

इसके लिए आवश्यक है कि हम गांधीजीकी शिक्षाओंका पालन करें।

गवर्नर राजगोपालाचार्य—

महात्मा गांधीके भस्मावशेषके प्रवाहित किये जानेके बाद, कलकत्तारेडियोसे ब्राडकास्ट करते हुए पच्छिमी बंगालके गवर्नर श्रीराजगोपालाचारीने कहा कि, “यदि हम सब सच्चे दिलोंसे गांधीजीके सिद्धान्तोंको मानें तो वे मरेंगे नहीं। वे हमारे अन्दर और हमारे द्वारा जीवित रहेंगे। किन्तु यदि हमने उनके सिद्धान्तोंको नहीं माना और शिक्षाओंको शिक्षकके साथ ही मर जाने दिया तो हम गिरेंगे, और वास्तवमें उनकी हत्याके हम भी दोषी होंगे।”


श्री० एस० के पाटिल

बम्बई प्रांतीय कांग्रेसके अध्यक्ष श्रीएस० के० पाटिलने अपने भाषणमें कहा कि बापूको वास्तविक तथा सच्ची श्रद्धांजलि हम तभी अर्पित करेंगे जब हम अपने जीवन भर अहिंसा, सत्य, शांति तथा एकता आदि बापूकी शिक्षाओंका पालन करनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा करें।”

श्री एम० सी० छागला

बम्बई हाईकोर्टके चीफ जस्टिस श्रीएम० सी० छागलाने गांधीजीको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि “जब उत्तेजनामय पागल पनकी लड़ाई चल रही थी तब वे ही अकेले इस मतिहीन पागल संसारमें सुस्थिरमत्ता बने रहे, और हमें सिखाया कि साम्प्रदायिक घृणा और विद्वेषका सिद्धांत बिल्कुल गलत है।”





भारतके उपप्रधान-सरदार पटेल ।

उद्गार



## सेवाके लिए जिन्दा रहें

जो अपनेसे बहुत दूर चला गया है उसके लिए शोक करनेकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जानेवालेकी आत्माका नाश नहीं होता लेकिन जो लोग जीवित रह जाते हैं उनका कर्तव्य है कि मानवताकी सेवा करनेमें अपने प्राण न्योछावर कर देनेके लिए ही वे जिन्दा रहें।

जो नहीं रहे उनकी आत्माको शान्ति पहुंचाने और अपने आपको उनकी पवित्र धरोहरके योग्य बनानेके लिए आवश्यक है कि हम उनके सबसे प्यारे सपनों उनके जीवनकी सबसे बड़ी इच्छाओं और उद्देश्योंको पूरा करें।

—महात्मा गांधी

( मरनेसे कुछ समय पहले एक पुराने मित्र को लिखे गये एक पत्र से । )

## मृत्यु एक आनन्ददायक मित्र है

मेरी फिक्र किसीको नहीं करना है। फिक्र अपने लिए की जाय—हम कहां तक आगे बढ़ रहे हैं और देशका कल्याण कहां तक हो सकता है, इसका ध्यान रखें। आखिरमें सब इन्सानोंको मरना है। जिसका जन्म हुआ है उसे मृत्युसे युक्ति नहीं मिल सकती। ऐसी मृत्युका भय क्या, शोकभी क्या करना ? मैं समझता हूँ कि हम सबके लिए मृत्यु एक आनन्ददायक मित्र है, हमेशा धन्यवादके साथक है, क्योंकि मृत्युसे अनेक प्रकारके दुखोंमें से हम एक समय तो निकल जाते हैं।

( अंतिम अनशन की दफे दिया एक मौखिक संदेश जो १५ जनवरी को अखबारों में प्रकाशित हुआ था । )

# बापू का अन्तिम दिन

श्री प्यारेलाल

[ निधन के पूर्व गांधीजी के जीवन की अंतिम घड़ियां किस प्रकार से व्यतीत हुईं उसका इस लेख में सजीव, सरल और मार्मिक वर्णन दिया गया है । ]

२९ जनवरीको सारे दिन गांधीजीको इतना क्यादा काम रहा कि दिनके आखीरमें उन्हें खूब थकान मालूम होने लगी । कांग्रेस विधानके मसविदेकी तरफ इशारा करते हुए, जिसे तैयार करनेकी जिम्मेदारी उन्होंने ली थी, उन्होंने आभासे कहा—‘मेरा सिर घूम रहा है । फिर भी मुझे इसे पूरा करना ही होगा । मुझे डर है कि रातको देरतक जागना होगा ।’

आखिरकार वे ९। बजे रातको सोनेके लिए उठे । एक लड़कीने उन्हें याद दिलाया कि आपने हमेशाकी कसरत नहीं की है । ‘अच्छा, तुम कहती हो तो मैं कसरत करूँगा’—गांधीजीने कहा और वे दोनों लड़कियोंके कंधोंपर, जिमनाशियमके ‘पैरलल बारकी’ तरह, शरीरको तीन बार उठानेकी कसरत करनेके लिए बड़े ।

## अन्तिम रात

बिस्तरमें लेटनेके बाद गांधीजी आमतौरपर अपने हाथ-पाँव और दूसरे अंग सेवा करनेवालोंसे वधाते थे—ऐसा करवानेमें उन्हें अपना नहीं बल्कि सेवा करनेवालोंकी भावनाओंका ही ज्यादा खयाल रहता था । जैसे तो उन्होंने अपने आपको इस बातसे एक अरसेसे उदासीन बना लिया था, हालांकि मैं जानता हूँ कि उनके शरीरको इन छोटी-मोटी सेवाओंकी जरूरत थी । इससे उन्हें दिनभरके कुचल डालनेवाले कामके बोझके बाद मनको हलका करनेवाली बातचीत और हँसी-मजाकका थोड़ा मौका मिलता था । अपने मजाकमें भी वे हिदायतें जोड़ देते । गुरुवारको रातको वे आश्रमकी एक महिलासे बातचीत करने लगे, जो संयोगसे मिलने आ गयी थी । उन्होंने उसकी तन्दुरस्ती अच्छी न होनेके कारण उसे

महाप्रयाण

डांटा और कहा कि अगर रामनाम तुम्हारे मन-गन्धिरमें प्रतिष्ठित होता तो तुम बीमार नहीं पड़तीं। उन्होंने आगे कहा—‘लेकिन उसके लिए श्रद्धाकी जरूरत है।’

उसी शामको प्रार्थनाके बाद प्रार्थना सभामें आये हुए लोगोंमें से एक भाई उनके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि आप २ फरवरीको वर्धा जा रहे हैं, इसलिए मुझे अपने हस्ताक्षर दे दीजिये। गांधीजीने पूछा—‘यह कौन कहता है?’ हस्ताक्षर मांगनेवाले हठी भाईने कहा—‘अखबारोंमें यह छपा है।’ गांधीजीने हँसते हुए कहा—‘मैंने भी गांधीके बारेमें वह खबर देखी है। लेकिन मैं नहीं जानता, वह ‘गांधी’ कौन है?’

एक दूसरे आश्रमवासी भाईसे बात करते हुए गांधीजीने वह राय फिर दोहरायी जो उन्होंने प्रार्थनाके बाद अपने भाषणमें जाहिर की थी—‘मुझे गड़बड़ीके बीच शांति, अन्वेषणमें प्रकाश और निराशामें आशा पैदा करनी होगी।’ बातचीतके दौरानमें ‘चलती लकड़ियों’ का जिक्र आनेपर गांधीजीने कहा ‘मैं लकड़ियोंको अपनी चलती लकड़ियाँ बनने देता हूँ, लेकिन दरअसल मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मैंने लम्बे समयमें अपने आपको इस बातका आदी बना लिया है कि किसी बातके लिए किसीपर निर्भर न रहा जाय। लकड़ियाँ अपना पिता समझकर मेरे पास आती हैं और मुझे घेर लेती हैं। मुझे यह अच्छा लगता है। लेकिन सच पूछा जाय तो मैं इस बातमें बिल्कुल उदासीन हूँ।’ इस तरह यह छोटी-सी बातचीत तबतक चलती रही जबतक गांधीजी सो न गये।

३० जनवरीको सुबह गांधीजी हमेशाकी तरह ३॥ बजे प्रातः स्मरण प्रार्थनाके लिए उठे। प्रार्थनाके बाद वे काम करने बैठे और थोड़ी देर बाद दूसरी बार थोड़ीसी नींद लेनेके लिए लेटे।

आठ बजे उनकी मालिशका वक्त था। मेरे कमरेसे गुजरते हुए उन्होंने कांफ्रेंसके नये विधानका मसविदा मुझे दिया, जो देशके लिए उनका आखिरी वसीयतनामा था। इसका कुछ हिस्सा उन्होंने पिछली रातको तैयार किया था। मुझसे उन्होंने कहा कि इसे ‘पूरी तरह’ दोहरा लो। ‘इसमें कोई विचार छूट गया हो तो उसे लिख डालो, क्योंकि मैंने इसे बहुत थकावटकी हालतमें लिखा है।’

मालिशके बाद मेरे कमरेसे निकलते हुए उन्होंने पूछा कि ‘मैंने उसे

पूरा पढ़ लिया या नहीं, और मुझसे कहा कि नोआखालीके अपने अनुभव और प्रयोगके आधारपर मैं इस विषयमें एक टिप्पणी लिखूँ कि मद्रासके सिरपर भूमते हुए अन्नसंकटका किस तरह सामना किया जा सकता है। उन्होंने कहा—‘वहाँका खाद्य-विभाग हिम्मत छोड़ रहा है। मगर मेरा खयाल है कि मद्रास ऐसे प्रान्तमें, जिसे कुदरतने नारियल, ताड़, मूँगफली और केला इतनी ज्यादा तादादमें दिए हैं—कई किस्मकी जड़ों और कन्दोंकी बात ही जाने दो—अगर लोग सिर्फ अपनी खाद्य सामग्रीका सम्हालकर उपयोग करना जानें, तो उन्हें भूखों मरनेकी जरूरत नहीं।’ मैंने उनकी इच्छाके अनुसार टिप्पणी तैयार करनेका बचन दिया। इसके बाद वे नहाने चले गये। जब वे नहाकर लौटे तब उनके बदनपर काफी ताजगी नजर आती थी। पिछली रातकी थकावट मिट गयी थी और हमेशाकी तरह प्रसन्नता उनके चेहरपर चमक रही थी। उन्होंने आश्रमकी लड़कियोंको उनकी कमजोर शारीरिक बनावटके लिए डांटा। जब किसीने उनसे कहा कि वाहन न मिलनेके कारण...अमुक जगह नहीं गयीं, तो उन्होंने कड़ाईसे कहा—‘वह पैदल क्यों न चली गयीं?’ गांधीजीकी यह कड़ाई कोरी कड़ाई ही नहीं थी; क्योंकि मुझे याद है कि एक बार जब आंध्र देशके अपने एक दौरेमें हमें ले जानेवाली मोटरोंका पेट्रोल खत्म हो गया तो उन्होंने सारे कागजात और लकड़ीकी हलकी नाव लेकर वहाँसे १३ मील दूर दूसरे स्टेशन तक पैदल जानेके लिए तैयार होनेको हमसे कहा था।

### अन्तिम निर्देश

बंगाली लिखनेके अपने रोजानाके अभ्यासको पूरा करनेके बाद गांधीजीने साढ़े नौ बजे अपना सबेरेका भोजन किया। अपनी पार्टीको तितर-बितर करनेके बाद वे पूर्व बंगालके गावोंमें अपनी ‘करो या मरो’की प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिए नंगे पांवों श्रीरामपुर गये तबसे वे नियमित रूपसे बंगालीका अभ्यास करतेरहे हैं। जब मैं विधानके मसविदेको दोहरानेके बाद उनके पास गेया, तब वे भोजन ही कर रहे थे। उनके भोजनमें ये-ये चीजें शामिल थीं—बकरीका दूध, पकायी हुई और कभी भाजियाँ, संतरे और अदरकका काढ़ा, खट्टे नींबू और ‘घृत कुमारी’। उन्होंने अपनी विशेष सतर्कतासे मसविदेमें बढ़ायी हुई और बढ़ली हुई बातोंको एक-

## महाप्रयाण

एक करके देखा और पंचायती नेताओंकी संख्याके बारेमें जो गलती रह गयी थी, उसे सुधारा ।

इसके बाद मैंने गांधीजीको डाक्टर राजेन्द्र प्रसादसे हुई अपनी मुलाकातकी विस्तृत रिपोर्ट दी । डाक्टर राजेन्द्र प्रसादकी तबीयत अच्छी न थी । इसलिए गांधीजीने कल उनके स्वास्थ्यके बारे में पूछने के लिए उनके पास भेजा था । मैंने गांधीजीको पूर्व बंगालके बारेमें ताजीसे ताजी खबर भी सुनायी, जो मुझे डाक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्जीने कल शामको बताया थी । इसपरसे नोआखालीके बारेमें चर्चा चली ; मैंने उनके सामने व्यवस्थित रीतिसे नोआखाली छोड़ने की बात रखी । लेकिन गांधीजीका दृष्टिकोण साफ और मजबूत था । उन्होंने कहा जैसे हम कार्यकर्ताओंको 'करना या मरना' है, उसी तरह हमें अपने लोगोंको भी आत्मसम्मान, इज्जत और मजहबी हकको बचानेके लिए 'करने या मरने' को तयार करना है । हो सकता है कि आखिरके थोड़े ही लोग बचें । लेकिन कमजोरीसे तात्त पैदा करनेका इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है । क्या हथियारोंकी लड़ाईमें भी बलवा करनेवाले या कमजोर सिपाहियोंकी कतारें मार नहीं दी जाती ? तब अहिंसक लड़ाईमें इससे दूसरा कैसे हो सकता है ?' उन्होंने आगे कहा—'तुम नोआखालीमें जो कुछ कर रहे हो, वही सही रास्ता है । तुमने मौतका डर भगा दिया है और लोगोंके दिलोंमें अपना स्थान बनाकर उनका प्यार पा लिया है । प्यार और परिश्रमके साथ ज्ञान जोड़ना जरूरी है । तुमने यही किया है । अगर तुम अकेले भी अपना काम पूरी तरह और अच्छी तरह करो, तो तुम्हीं सबके लिए काफी हो । तुम जानते हो कि यहाँ मुझे तुम्हारी बड़ी जरूरत है । मुझपर कामका इतना बोझ है और मैं बहुत कुछ दुनियाकी भी देना चाहता हूँ । लेकिन तुम्हारे बाहर रहनेसे मैं ऐसा नहीं कर सकता । लेकिन मैंने अपने आपको इसके लिए कड़ा बना लिया है । नोआखालीका तुम्हारा काम इससे ज्यादा महत्वका है ।' इसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि अगर सरकार अपना फर्ज पूरा करनेमें चूके, तो गुण्डोंके साथ कैसे निपटना चाहिये ।

## अन्तिम चिन्ता

दोपहरको थोड़ी झपकी लेनेके बाद गांधीजी श्री सुधीर घोषसे मिले । श्री

घोषने और बातोंके अलावा लन्दन 'टाइम्स' की कतरन और एक अंग्रेज दोस्तके खतके कुछ हिस्से पढ़कर उन्हें सुनाये। इनमें लिखा था कि किस तरह कुछ लोग बड़ी तत्परताके साथ पण्डित नेहरू और सरदार पटेलके बीच फूट डालनेकी कोशिश कर रहे हैं। वे सरदार पटेलपर फिरकापरस्त होनेका दोष लगाते हैं और पण्डित नेहरूकी तारीफ करनेका ढोंग रचते हैं। गांधीजीने कहा कि वे इस तरहकी हलचलसे बाकिफ हैं और उसपर गहराईसे विचार कर रहे हैं। वे बोलते कि अपने एक प्रार्थना-सभाके भाषणमें मैं पहले ही इसके बारेमें कह चुका हूँ, जो 'हरिजन' में छप गया है। मगर मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ और ब्यादा करनेकी जरूरत है। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिये।

सारे दिन लोग लगातार मुलाकात करनेके लिए आते रहे। उनमें दिल्लीके मौलाना लोग भी थे। उन्होंने गांधीजीके वर्धा जानेके बारेमें अपनी सम्मति दे दी। गांधीजीने उनसे कहा कि मैं सिर्फ थोड़े दिनोंके लिए ही यहांसे गैरहाजिर रहूँगा और अगर भगवानकी कुछ और ही मर्जी न हुई और कोई आकस्मिक घटना न घटी तो ११ तारीखको वर्धामें स्थगोय सेठ जमनालालजीकी पुण्यतिथि मनानेके बाद १४ वीं तारीखको मैं लौट जाऊँगा।

एक बात और थी, जिसके बारेमें मुझे गांधीजीसे सलाह लेनी थी? मैंने उनसे पूछा—'बापू' मुसलमान औरतोंमें अपने कामको आसानीसे चलानेके लिए अगर ब्यादा नहीं तो थोड़े ही वक्तके लिए मैं...को नोआखाली ले जाऊँ? जरूरी छुट्टीके लिए मैं...से प्रार्थना करूँगा।' 'खुशीसे'—उन्होंने जवाब दिया। आखिरी शब्द थे जो मुझे सुनने थे।

साढ़े चार बजे आभा उनका शामका खाना लायी। इस धरतीपर उनका यह आखिरी भोजन था, जिसमें करीब-करीब सबेरेकी ही सब चीजें शामिल थीं। उनकी आखिरी बैठक सरदार पटेलके साथ हुई। जिस विषयपर चर्चा हुई, उनमेंसे एक कैबिनेटकी एकताको तोड़नेके लिए सरदारके खिलाफ किया जानेवाला गन्दा प्रचार था। गांधीजीकी यह साफ राय थी कि हिंदुस्तानके इतिहासमें ऐसे नाजुक मौकेपर कैबिनेटमें किसी तरहकी फूट पैदा होना बड़ी दुःखपूर्ण बात होगी। सरदारसे उन्होंने कहा कि आज मैं इसीको अपनी प्रार्थना सभाके भाषणका विषय

## महाप्रयाण

बनाऊँगा। प्रार्थनाके बाद पण्डितजी मुझसे मिलेंगे; मैं उनसे भी इसके बारेमें चर्चा करूँगा। आगे चलकर उन्होंने कहा कि 'अगर जरूरी हुआ, तो मैं २ तारीखको अपना वर्धा जाना मुलतवी कर दूँगा और तबतक दिह्ली नहीं छोड़ूँगा जबतक दोनोंके बीच फूट डालनेकी कोशिशके इस भूतका पूरी तरह खात्मा न कर दूँ।'

### अन्तिम मजाक

इस तरह चर्चा चलती रही। बेचारी आभा भी बाधा देनेका साहस नहीं कर रही थी। इस बातको जानते हुए कि बापू पत्तकी पाबन्दीको, और खासकर प्रार्थनाके बारेमें उसकी पाबन्दी को, कितना महत्व देते हैं, उसने आखिरमें निराश होकर उनकी घड़ी उठायी और जैसे इस बातका इशारा करते हुए उनके सामने रख दी कि प्रार्थनामें देर हो रही है।

प्रार्थना मैदानमें जानेके पहले ज्योंही गांधीजी गुसलखानेमें जानेके लिए उठे, वे बोले—'अब मुझे आपसे अलग होना पड़ेगा।' रास्तेमें वे उस शामको अपनी 'चलती लकड़ियों' आभा और मनुके साथ तबतक हंसते और मजाक करते रहे, जबतक वे प्रार्थना मैदानकी सीढ़ियोंपर नहीं पहुँच गये।

दिनमें जब दोपहरके पहले आभा गांधीजीके लिए कच्ची गाजरोंका रस लायी, तब उन्होंने उल्लाहना देते हुए कहा 'तो तुम मुझे डोरोंका खाना खिलाती हो।' आभाने जबाब दिया 'बा' तो इसे घोड़ेकी खुराक कहती थी। उन्होंने पूछा 'जिस चीजको दूसरा पूछेगाभी नहीं, उसे स्वादसे खाना क्या कम है?' और हँसने लगे।

आभाने कहा—'बापू, आपकी घड़ीको जरूर यह लगता होगा कि आप उसकी परवाह नहीं करते। आप उसकी तरफ देखते नहीं।' गांधीजीने तुरन्त जबाब दिया—'मैं क्यों देखूँ, जब तुम दोनों मुझे ठीक समय बता देती हो?' लकड़ियोंमें से एकने पूछा—'लेकिन आपतो टाइम बतानेवाली लकड़ियोंकी तरफ नहीं देखते।' बापू फिर हँसने लगे। पाँच साफ करते हुए उन्होंने आखिरी बात कही—'मैं आज १० मिनट देरसे पहुँचा हूँ। देरसे आनेमें मुझे नफरत होती है। मैं प्रार्थनाकी जगहपर ठीक पाँच बजे पहुँचना पसंद करता हूँ।' यहाँ बातचीत खतम हो गयी। क्योंकि—'चलती लकड़ियों' के साथ गांधीजीकी यह शर्त थी कि प्रार्थनामैदानके अद्दातेमें पहुँचतेही सारा मजाक और बातचीत बन्दहो जानी चाहिये -- मनुमें प्रार्थनाके

बिचारोंके सिवा दूसरी कोई चीज नहीं होनी चाहिये । मन प्रार्थनामय हो जाना चाहिये ।

### अन्तिम शब्द

जब गान्धीजी प्रार्थना सभाके बीच रस्सियोंसे घिरे रास्तेमें चलने लगे उन्होंने प्रार्थनामें शामिल होनेवाले लोगोंके नमस्कारों का जबाब देनेके लिए लड़कियोंके कन्धोंसे अपने हाथ उठा लिए । एकाएक भीड़मेंसे कोई दाहिनी ओरसे भीड़को चीरता हुआ उस रास्तेपर आया । छोटी मनुने यह सोचा कि वह आदमी बापूके पाँव छूनेको आगे बढ़ रहा है । इसलिए उसने उसको ऐसा करनेके लिए झिड़का, क्योंकि प्रार्थनामें पहलेही देरहो चुकी थी । उसने रास्तेमें आनेवाले आदमीका हाथ पकड़कर उसे रोकनेकी कोशिश की । लेकिन उसने जोरसे मनुको धक्का दिया, जिससे उसके हाथ की आश्रमभजनावली, माला और बापूका पीकदान नीचे गिर गये । ज्योंही वह बिखरी हुई चीजोंको उठानेके लिए झुकी, वह आदमी बापूके सामने खड़ा हो गया— इतना नजदीक खड़ा था कि पिस्तौल से निकली हुई गोलीका खोल बादमें बापूके कपड़ेकी पतमें उलझा हुआ मिला । सात कारतूसोंवाली आटोमेटिक पिस्तौलसे जल्दी जल्दी तीन गोलियाँ छूटीं । पहली गोली, नाभीसे ढाई इंच ऊपर और मध्यरेखासे साढ़े तीन इंच दाहिनी तरफ पेटकी बाजूमें लगी । दूसरी गोली, मध्यरेखासे एक इंचकी दूरीपर दाहिनी तरफ घुसी और तीसरी गोली छातीकी दाहिनी तरफ लगी । पहली और दूसरी गोली शरीरको पारकर पीठसे बाहर निकल आयी । तीसरी गोली उनके फेफड़ेमें ही रुकी रही । पहले बारमें उनका पाँव, जो गोली लगनेके वक्त आगे बढ़ रहा था, नीचे आ गया । दूसरी गोली छोड़ी गयी तबतक वे अपने पाँवोंपर ही खड़े थे और उसके बाद वे गिर गये । उनके मुँहसे आखिरी शब्द 'राम-राम' निकले । उनका चेहरा राखकी तरह सफेद पड़ गया । उनके सफेद कपड़ोंपर गहरा सुर्ख धब्बा फैलता हुआ दिखाई पड़ा । उनके हाथ, जो सभाको नमस्कार करनेके लिए उठे थे, धीरे-धीरे नीचे आ गये, एक हाथ आभाके गलेमें अपनी स्वाभाविक जगहपर गिरा । उनका लड़खड़ाता हुआ शरीर धीरेसे ढुलक गया । सिर्फ तभी घबरायी हुई मनु और आभाने महसूस किया कि क्या हो गया है ।

मैं दूसरे दिन नोआखाली जानेकी अपनी सैयारी पूरी करनेके लिए बाहर गया था और वहाँसे हाटमें ही लौटा था । प्रार्थना-सभाके मैदान तक बनी हुई



## महाप्रयाण

पत्थरकी कमानीके नीचे भी मैं नहीं पहुँच पाया था कि श्री चन्द्रावत सामनेसे दौड़ते हुए आये। उन्होंने चिल्लाकर कहा—'डाक्टरको फोन करो। बापूको गोली मार दी गयी है।' मैं पत्थरकी तरह जहाँका तहाँ खड़ा रह गया, जैसे कोई बुरा सपना देखा हो। मशीनकी तरह मैंने किसीके द्वारा डाक्टरको फोन करवाया।

## अन्तिम श्वास

हर एकको इस घटनासे धक्का लगा। डॉ० राज सभरवालने, जो उनके पीछे आर्या, गांधीजीके सिरको धीरेसे अपनी गोदमें रख लिया। उनका काँपता हुआ शरीर डाक्टरके सामने आधा लेटा हुआ था और आँखें अधमुँदी थीं। हत्यारेको बिड़ला भवनके मालीने मजबूतीसे पकड़ लिया था। दूसरोंने भी उसका साथ दिया और थोड़ी खींचतानके बाद उसे काबूम कर लिया। बापूका शांत और ढीला पड़ा हुआ शरीर दोस्तोंके द्वारा अन्दर ले जाया गया और उस चटाईपर उसे रखा गया, जिसपर बैठ वे काम किया करते थे। मगर कुछ इलाज करनेसे पहले ही घड़ीकी आवाज बन्द हो चुकी थी। उन्हें भीतर लानेके बाद उनको जो छोटा चम्मचभर शहद और गरम पानी पिलाया गया उसे भी वे पूरी तरह निगल न सके। करीब-करीब, फौरन ही उनका अवसान हो गया।

डॉ० सुशीला बहावलपुर गयी थीं, जहाँ बापूने उसे दयाके मिशनपर भेजा था। डॉ० भार्गव, जिन्हें बुलावा भेजा था, आये और 'एडेनलिन' के लिए डॉ० सुशीलाकी संकटके समय काममें आनेवाली दवाईयोंकी संदूक पागलकी तरह तलाश करने लगे। मैंने उनसे दलीलकी कि वे उस दवाईको हूँ देनेकी मेहनत न उठायें, क्योंकि गांधीजीने कई बार हमसे कहा है कि उनकी जान बचानेके लिए भी कोई निषिद्ध दवाई उनको न दी जाय। जैसे-जैसे बरस बीतते गये, उन्हें ज्यादा-ज्यादा विश्वास होता गया कि सिर्फ रामनाम ही उनकी और दूसरोंकी सारी बीमारियोंको दूर कर सकता है। थोड़े ही दिनों पहले अपने उपवासके दरमियान उन्होंने यह सबाल पूछकर साइंसकी कमियोंके बारेमें अपने मतको पक्का कर दिया था कि गीतामें जो यह कहा गया है 'एकांशोन स्थितो जगत्'—उसके एक अंशसे सारा संसार टिका हुआ है—उसका क्या मतलब है? रामनामकी सब बीमारियोंको दूर करनेकी शक्तिपर अपने विश्वासके बारेमें बोलते हुए एक आहूके साथ गांधीजीने घनश्याम-

दासजीसे कहा था—‘अगर मैं इसे अपने जीते जी साधित नहीं कर सकता, तो वह मौतके साथ ही खत्म हो जायगा।’ जैसा कि आखिरमें हुआ, डा० सुशीलाकी संकटकालीन दवाइयोंमें एड्रेनलिन नहीं मिला, संयोगसे एड्रेनलिनकी जो एकमात्र शीशी सुशीलाने कभी ली थी वह नोआखालीके काजिरखिल कैम्पमें छूट गयी थी, गांधीजी उसकी इतनी कम परवाह करते थे।

उनके साथियोंमें सबसे पहले सरदार बल्लभभाई पटेल आये। वे गांधीजीके पास बैठे और नाड़ी देखकर उन्होंने खयाल कर लिया कि वह अब भी धीरे-धीरे चल रही है। डा० जीवराज मेहता कुछ मिनट बाद पहुँचे। उन्होंने नाड़ी और आँखोंकी परीक्षाकी और उदास और दुःखी होकर सिर हिलाया। लड़ाक्यों सिसक उठीं। लेकिन उन्होंने तुरन्त दिलको कड़ा किया और रामनाम बोलने लगीं। मृत शरीरके पास सरदार चट्टानकी तरह अचल बैठे थे उनका चेहरा उदास और पीला पड़ गया था। इसके बाद पंडित नेहरू आये और बापूके कपड़ोंमें अपना मुँह छिपाकर बच्चेकी तरह सिसकने लगे। इसके बाद देवदास और डा० राजेन्द्र प्रसाद आये। तब बापूके पुराने रक्षकोंमेंसे बचे हुए श्री जयरामदास, राजकुमारी अमृत कौर आचार्य कृपलानी आये। जब कुछ देर बाद लार्ड माउण्ट बेटन आये, उस समय बाहर लोगोंकी भीड़ इतनी बढ़ गयी थी कि वे बड़ी मुश्किलसे अन्दर आ सके। कड़े दिलके योद्धा होनेके कारण उन्होंने एक पल भी नहीं गँवाया और वे पण्डित नेहरू और मौलाना आजाद साहबको दूसरे कमरेमें ले गये और महान् दुर्घटनासे पैदा होनेवाली समस्याओंपर अपने राजनीतिक दिमागसे विचार करने लगे। एक सुझाव यह रखा गया कि मृत शरीरको मसाला देकर कुछ समयके लिए सुरक्षित रखा जाय। लेकिन इस बारेमें गांधीजीके विचार इतने साफ और मजबूत थे कि बोचमें पड़ना मेरे लिए जरूरी और पवित्र फर्ज हो गया। मैंने उनसे कहा कि बापू मरनेके बाद पार्थिव शरीरको पूजनेका कड़ा विरोध करते थे। उन्होंने मुझे कई बार कहा था। ‘अगर तुम मेरे बारेमें ऐसा होने दोगे, तो मैं मौतमें भी कोसूंगा। मैं जहाँ कहीं मरूँ, मेरी यह इच्छा है कि बिना किसी दिखावे या झमेलेके मेरा दाह-संस्कार किया जाय।’ डा० राजेन्द्र प्रसाद, श्री जयरामदास और डा० जीवराज मेहताने मेरी बातका समर्थन किया। इसलिये मृत शरीरको मसाला देकर रखनेका विचार छोड़ दिया गया। बाकी रातमें गीताके श्लोक और सुखमणि साहबके भजन सीटी रागमें गाये जाते रहे, और बाहर

महाप्रयाण

दुःखमे पागल बने लोगोंकी भीड़ दर्शनके लिए कमरेके चारों तरफ इकट्ठी होती रही। आखिरकार मृत शरीरको ऊपर ले जाकर बिड़ला-भवनके छज्जेपर रखना पड़ा, ताकि सब लोग दर्शन कर सकें।

### हमारा अन्तिम प्रणाम

सुबह जल्दी ही शरीरको हिन्दू-विधिके अनुसार नहलाया गया और कमरेके बीचमें फूलोंसे ढँककर रख दिया गया। विदेशी राजदूत, सुबह थोड़ी देर बाद आये और उन्होंने बापूके चरणों पर फूलोंकी मालाएं रखकर अपनी मौन श्रद्धांजलि अर्पित की।

अवसानके दो दिन पहले ही गांधीजीने कहा था—‘मेरे लिए इससे प्यारी चीज क्या हो सकती है कि मैं हँसते हँसते गोलियोंकी बौछारका सामना कर सकूँ?’ और मालूम होता है, भगवान्ने उन्हें यह वरदान दे दिया।

११ वजे दिनको हमारे सबके अन्तिम प्रणाम करनेके बाद मृत शरीर अर्थापर रखा गया। उस समय तक रामदास गांधी हवाई जहाजमें नागपुरसे आ पहुंचे थे। डा० सुशीला नायर सबसे आखिरमें पहुंची, जब अर्था रवाना ही होनेवाली थी। उसे इस बातका बड़ा दुःख था कि बापूके आखिरी समयमें वह उनके पास नहीं रह सकीं। लेकिन इस बातके लिए उसने ईश्वरको धन्यवाद दिया कि वह अन्तिम दर्शनके समय पहुँच गयी।

उस रात डा० सुशीला बार-बार बहुत दुःखी होकर चिल्लाती रही ‘आखिर मुझे यह सजा क्यों?’ देवदासने उसे आश्वासन देनेकी कोशिश की, ‘यह सजा नहीं है। बापूके आखिरी मिशनको पूरा करनेमें जुटे रहना बड़े गौरवकी बात है—यह बापूका उसीको सौंपा हुआ आखिरी काम था।’ यह बापूकी एक विशेषता थी कि जिन्हें उन्होंने बहुत दिया था, उनसे वे और ज्यादाकी आशा रखते थे।

जब मैं बापूका अपार शांति, क्षमा और सहिष्णुता दयासे भरा अञ्जल और उदास चेहरा ध्यानसे देखने लगा, तो मेरे दिमागमें उस समयसे लेकर—जब मैं कालेजके विद्यार्थीके रूपमें चौधियानेवाले सपनों और उज्ज्वल आशाओंसे भरा बापूके पास आकर उनके चरणोंमें बैठा था—आज तकके २८ लम्बे बरसोंके

निकटतम और अद्भुत सम्बन्धका पूरा दृश्य बिजलीकी गतिसे घूम गया और वे वर्ष कौमके बोझसे कितने लदे हुए थे ।

जो कुछ हुआ था, उसके अर्थपर मैं विचार करने लगा । पहले मैं घबराहट महसूस करने लगा, लेकिन बादमें धीरे-धीरे यह पहेली अपने आप सुलझने लगी । उस दिन जब बापूने एक आदमीके भी अपना फर्ज पूरी और अच्छी तरह अदा करनेके बारेमें कहा था, मुझे ताज्जुब हुआ था कि आखिर उनके कहनेका ठीक-ठीक मतलब क्या है ? उनकी मृत्युने उसका जबाब दे दिया । पहले जब गांधीजी उपवास करते, तो वे दूसरोंसे प्रार्थना करनेके लिए कहते थे । वे कहा करते थे—‘जब तक पिता बच्चोंके बीच है, तब तक उन्हें खेलना और खुशीसे उछलना कूदना चाहिये । जब मैं चला जाऊँगा, तब आज मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह सब वे करेंगे ।’ मगर आज जो आगकी लपटें देशको निगल जानेकी धमकी दे रही हैं उन्हें शान्त करना है, और बापूने जो आज्ञा दी हमारे लिए जीती है यदि उसका फल हमें भोगना है, तो उनकी मौतने हमें वह रास्ता दिखा दिया है, जिस पर हमें चलना है ।



## क्या बापू को अपने अवसान का ज्ञान पहले से था ?

श्री कुमारी मीरा बहन

मेरे सिर्फ दो ही संगी थे—ईश्वर और बापू। और अब दोनों एक हो गये हैं।

जब मैंने बापू की मृत्यु की खबर सुनी, तो मेरी आत्मा को बन्दी बनाने वाले दरवाजे खुले और बापू की आत्मा ने उसमें प्रवेश किया। उस पल से शास्व-तता की नयी भावना मुझमें आ गई है।

यह सच है, कि प्रिय बाबू जीते जागते रूप में हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी पवित्र आत्मा तो आज हमारे ब्यादा नजदीक है। एक समय बापू ने मुझ से कहा था—“जब मेरा यह शरीर नहीं रहेगा, तब भी हम एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। तब मैं तुम्हारे ब्यादा नजदीक आ जाऊंगा। यह शरीर तो बाधा रूप है।” ये शब्द मैंने श्रद्धा से सुने थे। अब मैं अपने अनुभव से बापू के उन शब्दों का दिव्य सत्य जान पायी हूँ।

क्या बापू को आज होने वाली घटना का ज्ञान था ? मेरे दिल्ली से ऋषी-केश जाने से पहले, दिसम्बर महीने की एक शाम को बापू से मैंने कहा था: “बापू जब मार्च में गोशाला तैयार हो जायगी और सारा काम व्यवस्थित हो जायगा, तब क्या गोशाला का उद्घाटन करने और हिन्दुस्तान की गरीबदुःखी गाय को आशीर्वाद देने का समय निकाल सकेंगे ?” बापू ने जबाब दिया “मेरे आने का ख्याल मत रखो”—और फिर मानों अपने आप से कुछ कह रहे हों, इस तरह उन्होंने आगे कहा—“मुझे से किसी तरह की मदद की आशा रखने से क्या फायदा ?” ये शब्द इतने भयानक थे कि मैंने किसी के सामने उन्हें नहीं दोहराया, और ईश्वर की प्रार्थना के साथ उन्हें अपने दिल में रख लिया। उनका अनशन आरम्भ हुआ और समाप्त हुआ। मुझे आशा हो गयी कि बापू के इन शब्दों का मतलब अनशन

के साथ खतम हो गया। लेकिन ये शब्द तो भविष्यवाणी के समान थे और वह भविष्यवाणी पूरी हुई।

उस विधिनिर्मित शाम को जब मैं ध्यान में अचल बन कर बैठी थी, मैंने सारी दुनिया से गुजरनेवाली संताप की कंपकंपी का अनुभव किया। मनुष्य जाति की मुक्ति के लिए एक बार फिर अवतार का खून बहा, और धरती इस भयानक पाप के डर और बोझ से कराह उठी।

वह पाप एक आदमी का नहीं है। वह युग-युग में सारी दुनिया को ढंके लेने वाला पाप है। उसे एकमात्र ईश्वर के भक्तों का बलिदान ही रोक सकता है।

अब बापू हमारे लिए जो काम छोड़ गये हैं, उसे पूरा करने में हमें जमीन-आसमान एक कर देना चाहिए। बापू हम सब के लिए—हर मर्द, औरत और बच्चे के लिए—जिये और मरे। वे लगातार काम करते करते जिये और इसीलिए दाहीद की मौत मरे कि हम नफरत, लालच, हिंसा और भूठ के बुरे रास्ते से पीछे लौटें हैं। अगर हमें अपने पापों का प्रायश्चित्त करना है और बापू के पवित्र उद्देश्य को आगे बढ़ाने में हिस्सा लेना है, तो हर तरह की साम्प्रदायिकता, और दूसरी बहुत—सी बातें खतम होनी चाहिये। चोरबाजारी, रिश्वतखोरी, तरफदारी, आपसी द्वेष और उसी तरह हिंसा और असत्य के दूसरे काले रूपों को जड़ मूल से मिट जाना चाहिए। इनके विरुद्ध हमें मजबूती से और बिना हिचकिचाहट के जेहाद बोलना होगा। बापू प्रेम और दया के सागर थे, लेकिन बुराई के विरुद्ध लड़ने में वे बड़े कठोर थे।

बापू ने भीतरी बुराई पर विजय पा ली थी, इसीलिए बाहर की बुराई के सामने वे लड़ सके थे। भगवान हमें इस तरह पवित्र बनाएं कि हम अपने सामने पड़े हुए इस भारी काम के लायक बन सकें।

## बापू क्षमा करना

श्री सुशीलानायर

कहते हैं समुद्र मन्थन से अमृत निकला, हीरे जवाहरात निकले और हलाहल जहर निकला। जहर इतना घातक था कि सारे जगत का नाश कर सकता था। उसे क्या किया जाय ? सब इस बारे में चिन्तित थे। शिवजी आगे बढ़े और उन्होंने वह जहर पी लिया। हिन्दुस्तान के समुद्र-मन्थन में से आजादीका अमृत निकला। साथ ही आपसकी मारकाटका, दुश्मनीका, घोरका, हिंसाका, जहर भी निकला। गांधीजीने इसके सागने अपनी आवाज बुलन्द की। लोग अपनी मूर्खीमें चौंके, लेकिन जागे नहीं। पाकिस्तानके लोगोंके कानोंमें भी आवाज पहुंची। बापूकी आवाज अकेले गगनमें गूंज रही थी—‘इस आगको बुझाओ, नहीं तो दोनों इस आगमें भस्म हो जाओगे।’ उनका हृदय दिन-रात पुकारता था ‘हे ईश्वर, इस ज्वालाको शांत कर, नहीं तो मुझे इसमें भस्म होने दे। मैं इसका साक्षी नहीं बनना चाहता।’

जो बापू अनेक उपवासोंसे, अनेक हमलोंसे बच निकले थे, वे अपने ही एक गुमराह पुत्रकी गोलीसे न बच सके। पुत्रके हाथसे हलाहलका प्याला लेकर बे पी गये, ताकि हिन्दुस्तान जीवित रह सके। किसीने कहा, जगतने दूसरी बार ईसा का सूती पर चढ़ना देखा है।

मुझे जब यह खबर मिली तब मैं मुलतानमें थी। बहावलपुरियोंको बापू की इतनी चिन्ता थी कि उन्होंने मुझे लेसली क्रॉस साहबके साथ बहावलपुर भेजा था। वहां डिप्टी कमिश्नरकी पत्नीने बहुत प्यारसे पूछा—‘गांधीजी अब कंसे हैं ? हमारे पास कब आयेंगे ? मैंने कहा—‘जब आपकी हुकूमत चाहेगी।’

शामको ६ बजेके करीब डिप्टी कमिश्नर साहबकी पत्नी हांफती हांफती आयी ‘और बोली दुनिया किधर जा रही हैं ? गांधीजीको गोलीसे मार दिया।’ सुनते ही मेरे हाथ-पांव ठंढे पड़ गये। मैं सुन्न बैठ गयी। किसी दूसरेने कहा—‘नहीं, नहीं, यह तो अफवाह है। हम दिल्लीको फोन करके पक्की खबर निकालेंगे। घबराइये नहीं।’

मैंने कहा—‘नहीं, मुझे अभी लाहौर जाना है। कोई गाड़ी दिखाइये। सच्ची खबर हो या झूठी, मैं जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहती हूँ।’

गाड़ी बिड़लाभवनके पिछले दरवाजे दाखिल हुई। उधर भी बहुत भीड़ थी। दूसरे एक ऊँचा फूलोंका ढेर दिखाई पड़ा। मैं भीड़को पूरे जोरसे चीरती हुई हाँफती हाँफती वहाँ पहुँची, जहाँ पालकी रवाना होनेके लिए तैयार थी। वहाँ सरदार अपने दिवंगत स्वामीके कांधोंके पास गम्भीर बैठे थे। उन्होंने मुझे ऊपर चढ़ाया। फूलोंमें से बापू का चेहराही दिखता था। हमेशाकी तरह मैंने अपना सिर उनकी छातीपर रख दिया। बिना सोचे अन्दरसे भावना उठी, अभी बापू एक प्यार की चपत लगा देंगे, पीठपर एक जोरकी थपकी लगा देंगे! मगर मैंने तो उनकी आखिरी थपकी बहावलपुर जाते समय ही ले ली थी।

सिरके पास मनु और आभा खड़ी थी। ‘सुशीला बहन! सुशीला बहन! पुकार कर वे फूट-फूटकर रोने लगीं। आँसुओंमें से मैंने देखा बापूका चेहरा पीला था, पर हमेशाकी तरह शांत था। वे गहरी नींदमें सोये दिखते थे। अपने आप मेरा हाथ उनके माथेपर चला गया। उनके चेहरेको छुआ। वह अभी भी मुझे गरम लगा, जीवित लगा! मेरा सिर फिरसे उनके चेहरे पर झुक गया। माथा उनके गालको जा लगा। किसीने पुकारा—अब सब नीचे उतरो।

नीचे सिरकी तरफ पण्डितजी खड़े थे। दुःख और गमकी रेखाएँ उनके चेहरेपर थीं। मुँह सूखा हुआ था। उन्होंने प्यारसे हम तीनोंको नीचे उतारा। पुराने जमानेमें महादेव भाई, देवदास भाई और प्यारेलालजी तीनों बापूके साथ हुआ करते थे—त्रिमूर्ति कहलाते थे। उसी तरह कुछ महीनोंसे आभा, मनु और मैं बापूके साथ त्रिमूर्ति-सी बन गयी थीं। उन तीनोंमें महादेव भाई बड़े थे, इन तीनोंमें मैं। दोनों लड़कियाँ दोनों तरफसे मुझे लिपट गयीं। एक दूसरीको सहारा देते हुए हम आगे बढ़ीं। बापू चाहेंगे रामधुन चले, सो रामधुन शुरू की लेकिन बहुत चढ़ न सकी। मणि बहन बार-बार ध्यान खींचती थी, रोना नहीं चाहिये। सिख भाइयोंने गुरु ग्रन्थ साहेब के शब्द बोलने शुरू किये। हम सब उनके पीछे राम नाम बोलने लगे।

कुछ देर बाद हम लोग पीछे बापूकी गाड़ीके पास आ गये। उस गाड़ी



महाप्रयाण

के स्पर्शमें बापूका स्पर्श था। दोनों तरफ लाखों जनता खड़ी थी। हर दरख्तकी हर टहनी पर लोग बैठे थे। 'महात्मा गांधीकी जय' के नादसे गगन गूँज रहा था।

जैसे जीवनमें, वैसे मृत्युमें निन्दा और रतुतिसे अलिप्त बापू सो रहे थे। जीवनमें हम लोगोंको चुप कराते थे। जयनादसे भी उनके कानोंको तकलोफ पहुँचती थी। वे कानोंको ऊंगलियोंसे बन्द कर लिया करते थे। कान बन्द करनेको हमें साथ रुई रखनी होती थी। मगर आज उसकी जरूरत न थी। मनमें आया, क्या अपनी भावनाएँ हम आँसू बहाकर धो डालेंगे? क्या जयघोष करके ही बैठ जायेंगे? या क्या ये भावनाएँ कार्य रूपमें भी परिणत होंगी?

शामको जुलूस यमुनाजीके किनारे पहुँचा। ईंटोंके एक छोटेसे चबूतरेपर लकड़ियां रखी थीं। जिस तख्तपर बापू बैठा करते थे, उसीपर उनका शव था। उसे लाकर लकड़ियोंपर रखा गया। ब्राह्मणोंने कुछ मन्त्र पढ़े। हम लोगोंने छोटी-सी प्रार्थना की। देवदास भाईने बापूके पांचपर सिर रखकर प्रणाम किया। हृदयसे एक ही पुकार निकल रही थी, बापू मेरे अपराध क्षमा करना। मेरी भूल चूक भुटियाँ क्षमा करना। जीवनमें कितनी बार आपको सताया, आपको मानवी पिता मानकर आपसे झगड़ा किया। आपके साथ दलीलें कीं। बापू, क्षमा करना! क्षमा करना!! क्षमा!!! मैं चितासे दूर हटकर बैठ गयी। मैं ज्यादा देख न सकी। मनमें मैं गीताका यह श्लोक दोहराती रही।

सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति ।

अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि ॥

बापू आपने जो अगाध प्रेम मुझपर बरसाया; जो अगाध विश्वास बताया; भूलपर भूल क्षमा की; तुच्छ, अज्ञान, मतिहीनको अपनाया; सिखाया; अपनी बेटी बनाया; उसको लायक बनाया। एकबार बापूने महादेव भाईसे बातें करते हुए कहा था—“सुशीलाने सबसे आखिर मेरे जीवनमें प्रवेश किया, मगर वह सबसे निकट आयी। मुझमें समा गयी है।” हे प्रभु उसी समय तुने मुझे क्यों न उठा लिया। उसके बाद सुशीला उनसे दूर चली गयी।

बापूकी बातपर उसके मनमें शंका आने लगी, मगर बापूने धीरजसे उसकी शंकाओंका निवारण करनेका प्रयत्न किया। उसे अपनेसे दूर न जाने दिया। एकबार

कहने लगे—“तूने हाउण्ड आफ हेविन” की कविता पढ़ी है। तू मुझसे भाग कैसे सकती है? मैं भागने दूँ तब न?” इस नालायक बेटीके प्रति इतना प्रेम! हे प्रभो जो योग्यता उनके जीवनकालमें न थी, वह उनके जानेके बाद दोगे ?

शवपर चन्दनकी लकड़ियाँ रखने लगे। सुगन्धित सामग्री डालने लगे। मैं जाकर सरदार काकाके पास बैठ गयी। घुटनोंमें सिर रख लिया और देख न सकी। सारा जगत् चक्कर खा रहा था। भीड़का जोरसे धक्का आया। मनु, आभा, मैं और मणि बहन पास बैठी थीं। सरदारने हमें साथ लेकर उस भीड़मेंसे निकलनेकी कोशिश की। धक्केपर धक्का आता था हम गिरते-पड़ते बाहर निकले। एक मिलिटरी ट्रकमें बैठे। सरदार काका और सरदार बलदेव सिंहजी साथ थे। ट्रक चली। आभाने मेरा हाथ खींचा। दूसरे चिताकी ज्वालाकी लपटें आकाशको जा रही थीं। हृदय पुकार उठा, हे प्रभो इस अग्निमें हमारे दोष, हमारी कमजोरियाँ भस्म हो जायें, ताकि हम बापूके बताये मार्गपर दृढ़तासे आगे बढ़ सकें। जिस अग्निको शांत करनेमें उनके प्राण गये; वह इस अग्निके साथ शान्त हो। रातको बिड़ला-भवनमें जिस गद्दीपर बैठकर बापू फाम किया करते थे, उसपर रखी बापूकी फोटोंके सामने बैठे मनमें विचार आने लगा—कल सारी रात मोटरमें बैठे हृदयसे जो ध्वनी निकल रही थी, ‘बापू जीवित हैं। बापू जीवित हैं।’ वह क्या गलत थी? वह ध्वनि इतनी स्पष्ट थी, मगर क्या सब कल्पनाका ही खेल था? उत्तर मिला—नहीं, बापू जीवित हैं। सचमुच जीवित हैं। तुम्हारे एक-एक विचारको, एक-एक आचारको देख रहे हैं। दूसरे दिन क्रास साहब अंग्रेजी कविताकी कुछ लाइनें लिखकर दे गये। उनमें आखिरी लाइनों का भाव कुछ ऐसा था।

‘याद रखो, अब उनके हथियार सिर्फ तुम्हारे हाथ और पांव हैं। वे देखते हैं। संभालना कि किस चीजको तुम छूते हो, कहाँ पर कदम रखते हो।’

एक दफा बापूसे किसीने कहा था—‘आपके अनुयायियों’ रचनात्मक कार्य करने वालोंमें कुछ बेबसी पायी जाती है। उनमें वह तेजी नहीं जिससे वे आपका सन्देश घर-घर, गाँव-गाँव, देश भरमें पहुँचायें। बापू गम्भीर हो गये। कहने लगी—“हाँ, आज वे बेबससे लगते हैं। मेरे जीवनमें दूसरा हो नहीं सकता। उन सबका व्यक्तित्व मेरे व्यक्तित्वके नीचे दबा पड़ा हुआ है। वे बात बातमें मुझसे पूछते हैं।

## महाप्रयाण

मगर मेरे बाद, मैं आशा रखता हूँ, उनमें वह तेज और शक्ति अपने आप आ जायेगी। अगर मेरे सन्देशमें कुछ है, तो वह मेरे जानेके बाद मर नहीं जायगा।”

हम लोगोंसे एक बार कहने लगे कि हमसे क्या क्या आशाएँ रखते हैं। आगाखां महलमें उपवासकी बातें चल रही थीं। वे न रहें, तो हमारा क्या धर्म होगा, हमें क्या करना होगा, वे हमें समझा रहे थे। हमसे वह चर्चा सहन नहीं हुई। मैं बोल उठी—“नहीं बापू, यह सब न सुनाइये। हमारी तो यही प्रार्थना है कि आपके देखते-देखते महादेव भाईकी तरह हमें भी ईश्वर उठा ले। आपके बाद कुछ भी करने की हमारी शक्ति नहीं!” बापू और ज्यादा गम्भीर हो बोले—“महादेवकी तरह तुम सब मुझे छोड़ते जाओगे, तो मैं कहाँ जाऊँगा? ऐसा विचार करना तुम्हें शोभा नहीं देता। और तुम लोगोंकी आज शक्ति नहीं, मगर ईसाके मृत्युकी समय उनके शिष्योंमें शक्ति थी क्या, दृढ़ विश्वाससे सब्हे हृदयसे, जो ईश्वर परायण होकर कार्य करता है, शक्ति उसे ईश्वर अपने आप दे देता है। जो अपने आपको शून्यवत् करके सत्यकी आराधना करता है, उसका मार्ग प्रदर्शन प्रभु अपने आप करता है।” क्या हम अपने आपको शून्यवत् कर सकेंगे?





राष्ट्रपति—डा० राजेन्द्र प्रसाद ।

# बापूका बलिदान

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद

( ९ ता० को दिल्ली रेडियो से दिया भाषण )

आज बापूका भौतिक शरीर हमारे बीच नहीं है। उनके वे कोमल चरण नहीं जिनको हम स्पर्श करते रहे। उनके वरदहस्त नहीं जिन्हें हमारे कंधोंपर रख बेहद शुभाशीर्वाद देते थे। सत्यके पथ्यका अनुसरण करनेके लिए प्रेरित करने वाले उनके मधुर शब्द भी अब हमें नहीं सुनाई देंगे। दयारो परिपूर्ण उनके नेत्र अब हमपर प्यारकी वर्षा बरसानेके लिए नहीं रहे।

पर बापूने ही तो हमें सदा यह बताया है कि यह देह अनित्य है, आत्मा ही अमर है। यद्यपि बापूकी आत्माने नाशवान शरीरको छोड़ दिया है, पर वे हमारे भले और बुरे कर्मोंको अबभी देख रहे हैं। आज हमें उस कार्यको सम्पन्न करना है जिसे बापूने अधूराही छोड़ दिया। यही उस पवित्र आत्माके लिए हमारा सबसे बड़ा सम्मान होगा।

गांधीजी के महान् व्यक्तित्व और उनके कार्योंने उन्हें सदाके लिए अमर बना दिया है। अब उनके स्मारककी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। पर मनुष्य तो अपनी आत्माको सान्त्वना प्रदान करनेके लिए कुछ करताही है। इसीलिए कहा गया है कि गांधीजीके विधायक कार्यक्रमोंको, जिन्हें पूरा करनेके लिए उन्होंने आजीवन प्रयत्न किया, पूरी शक्ति और श्रद्धासे सम्पन्न करना होगा। इसी विधायक कार्यक्रमके द्वाराही गांधीजी का प्रेम और अहिंसाका सिद्धान्त फूला और फला। इन्हीं कार्यक्रमोंको सम्पन्न कर हम बापूके महान् आदर्शों और उनकी शिक्षाओंको जीवित रख सकते हैं।

कॉमेस कार्यसमितिकी बैठक हालही में हुई थी। उसने गांधीजीके स्मारक कोषके लिए वैश्वसिद्धियोंसे अपील की है। उसने अपीलकी है कि गांधीजीके विधायक कार्यक्रमोंको पूरा करनेके लिए स्थापित किये जासकेवाले कोषमें अपनी आवक

दसवां भाग दान करें। इसी कोषमें गांधीजीकी लिखित शिक्षाएं तथा उनकी रचनाएं प्रकाशित की जायंगी। चन्दा एकत्रित करने वालोंके नाम बादमें घोषित किये जायंगे। इस कोषमें चन्दा देनेके लिये विशेष तौरपर अपील निकालनेकी आवश्यकता नहीं क्योंकि स्वयं लोग चन्दा देनेके लिये लालायित हैं।

### पारस्परिक घृणाका दुष्परिणाम

आज तो मैं आपके सामने इस हृदय विदारक दुर्घटनाके सम्बन्धमें अपने हृदयके भावोंको व्यक्त करनेके लिए उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्न उठता है कि ऐसा नीच कर्म क्यों किया गया। मानव इतिहासमें सत्य और अहिंसाके सगसे बड़े पुजारीकी निकृष्टतम रूपमें ऐसी हत्या क्यों की गयी? भारतमें सांप्रदायिकता तथा सांप्रदायिक विद्वेष और घृणाका जो विपाकत वातावरण तैयार किया गया उसीका यह दुष्परिणाम है। महात्माजीने अपने महान् व्यक्तित्व और पूरी शक्तिसे घृणा, विद्वेष और सांप्रदायिकताका आजीवन विरोध किया। पर हमारा कर्तव्य है कि महात्माजीने अपने जीवनमें जिसे नहीं पूरा किया, उनके शहीद होजाने के बाद हम उसे पूरा कर।

### गांधीजी और हिन्दू धर्म

क्या हम कभी स्वप्न में भी अनुभव कर सकते हैं कि गांधीजीने हिन्दू जाति और हिन्दू समाजको हानि पहुँचायी है? क्या यह कभी सम्भव है कि हिन्दू समाजके मुक्तिदाता निर्दलित, उत्पीड़ित तथा नग्न समाजके व्राता गांधी हिन्दुओं का अहित कभी सोच सकता? पर अदूरदर्शी तथा संकुचित मस्तिष्कके वे हिन्दू ही, जो हिन्दू धर्मके वास्तविक तथ्योंको नहीं समझते, ऐसा सोच सकते हैं। ऐसाही संकुचित अदूरदर्शिताके दुष्परिणाम स्वरूप यह दुर्घटना घटित हुई है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किस तरह गांधीजीकी हत्यासे हिन्दू धर्म और समाजकी रक्षा हुई है? मैं स्पष्ट रूपसे यह कह सकता हूँ कि हिन्दू इतिहासमें इतनी बड़ी दुर्घटना कभी घटित नहीं हुई थी। हिंदू इतिहासमें बहुत-सी लड़ाइयां लड़ी गयी हैं पर ये न्याय-युद्ध रहे हैं। हिंदू धर्म किसी वीरको आवेश नहीं देता कि वह धोखे और धूर्ततासे दूसरेकी हत्या करे।

### हिन्दुओंपर सदाके लिए कालिख

हिंदू इतिहासमें एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जब महात्माजी जैसा अधवा

उनसे छोटा भी व्यक्ति इस तरह छलसे मारा गया हो। हिंदू इतिहासमें यही एक ऐसी दुर्घटना है जब एक कायर हिंदूने उस महात्माके खूनसे अपने हाथोंको रंगा है। उसने सदाके लिए हिंदुओं पर कालिख पोत दी। सोचिये! कौन मारा गया है। गांधीजीका शरीर या उनकी आत्मा। गांधीजी तो स्वयं ही अपने शरीरको कम महत्व देते थे। जिन गोलियोंसे गांधीजीका हृदय छेदा गया वास्तवमें उनसे हिंदू धर्मकी ही आत्मा छिद गयी है। आज प्रत्येक भारतीयका कर्तव्य है कि वह जागृत हो अपने हृदयको ईमानदारीसे टटोले कि सांप्रदायिकता या अलगावके पापोंका भागी वह है या नहीं। आज यही अवसर है जब हम इस विषसे विषाक्त अपने हृदयको साफकर सकते हैं। अपनी गलतियों और भूलोंको छिपाना तथा दूसरेके पापोंको निकालना सबसे बड़ा पाप है।

### देशके नामको उज्ज्वल रखें

आपमें भला बुरा करनेकी शक्ति भी है। आज हमें वह सुअवसर प्राप्त है जब हम भारतीयता और भारतीय परंपराके अनुरूप कार्य कर सकें। आज विश्वकी दृष्टिमें हिंदकी प्रतिष्ठा क्या है इसे हमें महसूस करना है। हमें अपनेको योग्य शासक और जनसेवक सिद्ध करना है। ईश्वर करे गांधीजीके बलिदानसे हममें वह भावना जागृत हो जिससे बापूके आदर्शोंपर चल सकें। इसीमें देशका उद्धार है।



## बापू

### पण्डित जवाहरलाल नेहरू

१९१६ का साल था। कोई ३२ सालसे ऊपरकी बात है। तब मैंने बापूको पहले पहल देखा था और तबसे तो एक पूरा युग बीत गया है। लाजिमी तौरपर हम बीते हुए जमानेकी तरफ देखते हैं और बेशुमार यादें ताजा हो जाती हैं। हिन्दुस्तानके इतिहासमें यह कितना अनोखा जमाना रहा है। सारे उतार चढ़ाव और हार जीतवाली इस सच्ची कहानीने वीररसके काव्यका अनोखा रूप ले लिया है। हमारी मामूली जिंदगियोंको भी रोमांचक कल्पनाके प्रकाशने छुआ, क्योंकि हम इस जगानेमें जिये और हिन्दुस्तानके महान नाटकमें कम या ज्यादा हमने अपना पार्ट अदा किया।

यह जमाना सारी दुनियांमें लड़ाइयों, क्रांतियों और हिलानेवाली घटनाओंका जमाना रहा है। फिर भी हिन्दुस्तानकी घटनाएँ उनसे बिलकुल अलग और साफ दिखाई देती हैं, क्योंकि वे बिलकुल दूसरी ही सतहपर हुई थीं। अगर कोई बापूके बारेमें काफी जाने बिना इस जमानेका अध्ययन करे, तो उसे ताज्जुब होगा कि हिन्दुस्तानमें यह सब कैसे और क्यों हुआ! इसे समझना कठिन है। बुद्धिके ठंडे प्रकाशकी मददसे यह समझना भी कठिन है कि हममेंसे हर एक पुरुष या स्त्रीने जो कुछ किया वह क्यों किया। कभी कभी यह होता है कि एक व्यक्ति या एक राष्ट्र भी किसी भावना या जोशमें बहकर एक खास ढंगका काम करता है—कभी कभी ऊँचा और तारीफके लायक काम करता है, अक्सर नीचा और बुरा काम करता है। लेकिन वह जोस और वह भावना थोड़े समय बाद खतम हो जाती है और व्यक्ति जल्दी ही कर्म और अकर्मकी अपनी मामूली सतहपर लौट आता है।

इस जमानेमें हिन्दुस्तानके बारेमें सिर्फ यही ताज्जुबकी बात नहीं कि सारे देशने एक ऊँची सतहपर काम किया, बल्कि यह भी थी कि उसने इतने लम्बे अरसेमें लगातार कम या ज्यादा उसी सतहपर काम किया। वह सचमुच तारीफके लायक काम था। इसे तबतक आसानीसे समझाया या समझा नहीं जा सकता जबतक हम उस अक्षरजमें डालनेवाले व्यक्तिकी तरफ नहीं देखते, जिसने इस जमानेको बनाया है। एक बड़ी भारी मूर्तिकी तरह बापू हिन्दुस्तानके इतिहासकी आधी सदीमें पांव फैलाकर खड़े हैं। वह बड़ी भारी मूर्ति शरीरकी नहीं, बल्कि मन और आत्माकी है।

हम बापू के लिये शोक करते हैं और अपनेको अनाथ महसूस करते हैं ! लेकिन उनके तेजस्वी जीवनको देखते हुए शोक मनानेको है ही क्या ? सचमुच दुनियाके इतिहासमें बिरले ही मनुष्योंके भागमें यह बदा होगा कि वे अपने ही जीवनमें इतनी बड़ी कामयाबी देख सकें । बापू हमारी कमजोरियों और त्रुटियोंके लिए दुःखी थे और हिन्दुस्तानको और ज्यादा ऊँचाईपर न ले जानेका उन्हें अफसोस था । उस दुःख और अफसोसको हम आसानीसे समझ सकते हैं । फिर भी, कौन कह सकता है कि उनका जीवन असफल रहा ? जिस चीजको उन्होंने छुआ- उसे कीमती और गुणवाली बना दिया । जो काम उन्होंने किया, उसका काफी अच्छा नतीजा निकला—हालां कि शायद उतना बड़ा नहीं जितनेकी वे आशा करते थे । हमपर यही छाप पड़ती थी कि वे जो कोई काम हाथमें लेंगे, उसमें सचमुच असफल हो ही नहीं सकते । गीताके उपदेशके मुताबिक वे फलकी इच्छा न रखते हुए स्थितप्रज्ञकी तरह उदासीन रहकर काम करते थे । इसीलिए कामका फल उन्हें मिलता ही था ।

कठिन कामों, हलचलों और एक-सी प्रवृत्तिवाले सामान्य जीवनसे भिन्न अनेक साहसोंसे भरी हुई उनकी लम्बी जिंदगीमें बेसुरा राग शायद ही कभी सुनाई पड़ता था । उनकी सारी विविध प्रवृत्तियोंमें ज्यादा ज्यादा मात्राओंमें एकरसता आती गयी और उनके मुंहसे निकलनेवाला हर एक शब्द और हर एक चेष्टा इसमें ठीक तरहसे जम गयी थी, और इस तरह बेजाने ही वे पूरे कलाकार बन गये, क्योंकि उन्होंने जीनेकी कला सीखी थी; अगरचे जीवनका जो ढंग उन्होंने अख्तियार किया था, वह दुनियाके ढंगोंसे बहुत भिन्न था । इससे यह बात साफ हो गयी कि सत्य और अच्छाईकी लगन, दूसरी चीजोंके अलावा, जीवनमें ऐसी कलात्मकता प्रदान करती है ।

जैसे जैसे वे बूढ़े होते गये उनका शरीर उनके भीतरकी शक्तिशाली आत्मा का सिर्फ एक वाहन जैसा दिखाई पड़ने लगा । उनकी बात सुनते हुए या उनको देखते हुए लोग उनके शरीरको भूल जाते थे और इसलिए जहाँ वे बैठते थे, वह जगह मन्दिर बन जाती थी और जहाँ वे चलते थे वह स्थान पूजाका स्थान बन जाता था ।

उनके अवसानमें भी एक अनोखी भव्यता और कलापूर्णता थी । उन जैसे व्यक्तिके लिये और उनके जैसी जिन्दगीके लिये हर दृष्टिकोणसे एक योग्य अन्त था ।

## महाप्रयाण

सचमुच, उस मृत्युसे उनके जीवनका सबक ऊँचा उठ गया। मौतके समय वे अपनी शक्तियोंसे भरपूर थे और प्रार्थनाके वक्त उनकी मृत्यु हुई, जब कि वैद्यक वे मरना पसन्द करते। दो फिरकोंके बीच एकता कायम करनेके लिए वे शहीद हुए इसके लिए उन्होंने हमेशा काम किया था, और खास करके पिछले एक या ज्यादा बरसोंसे तो उन्होंने इसके लिए लगातार मेहनत की थी।

वे अचानक मर गये, जिस तरह कि सभी लोग मरना चाहेंगे। उनके बारेमें शरीरके छुलते जाने या लम्बे अरसे तक बीमार रहनेकी कोई बात ही पैदा नहीं हुई। ज्यादा उम्रमें इन्सानकी याददाश्तमें जो कमी आ जाती है, वह भी उनमें नहीं आयी। तब हम क्यों उनके लिए शोक करें ? हमारी यादमें वे उस 'गुरु' की तरह हमेशा रहेंगे, जिनके ढग अन्त तक फुर्तीले रहे, जिनकी मुस्कान दूसरोंके ओठों पर भी मुस्कान ला देती थी और मानसिक शक्तियाँ अचूक थीं। अपने जीवन और मृत्यु दोनोंमें उनकी शक्तियाँ अपनी चरम सीमापर पहुंची हुई थीं। हमारे मनमें और जिस युगमें हम रहते हैं उसके मनमें वे अपनी ऐसी तस्वीर छोड़ गये हैं जो कभी मिट नहीं सकती।

वह तस्वीर कभी धुंधली नहीं होगी मगर उनकी सिद्धि इससे बहुत ज्यादा है। उन्होंने हमारे मन और आत्मके तत्त्वमें प्रवेश करके उन्हें बदला है और उनको नये ढंगमें तैयार किया है। गांधी युगकी पीढ़ीका तो अन्त हो जायगा, मगर गांधीका वह असर बना रहेगा, और हर आनेवाली पीढ़ीको प्रभावित करता रहेगा क्योंकि वह हिन्दुस्तानकी आत्माका एक अंग बन गया है। जब इस देशमें हम आत्मिक रूपसे कंगाल होते जा रहे थे, बापू हमें समृद्ध और बलवान् बनानेके लिये हमारे बीचमें आये और जो ताकत उन्होंने हमें दी, वह एक दिन या एक बरसकी नहीं है, बल्कि उससे हमारी राष्ट्रीय विरासतमें हमेशाके लिए भारी वृद्धि हो गयी है।

बापूने हिंदुस्तानके लिए, दुनियांके लिए और हम गरीबोंके लिए भी बहुत बड़ा काम किया है और उन्होंने उसे आश्चर्यजनक रीतिसे अच्छा किया है। अब हमारी बारी है कि हम उन्हें या उनकी यादको धोखा न दें, बल्कि अपनी पूरी योग्यताके साथ उनके कामको आगे बढ़ाते रहें और जो प्रतिज्ञायें हमने इतनी बार ली हैं, उन्हें पूरा करें।



आशा किरण प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू



# बापू के प्रति

आचार्य-नरेन्द्र देव

( युक्त प्रान्त की असेम्बली- में दिया भाषण )

माननीय श्रीकर महोदय,

संसारके सर्वश्रेष्ठ मानव तथा भारतके राष्ट्रपिता महात्मा गांधीके प्रति उनके निधन पर अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करने का अवसर इस व्यवस्थापिका सभा को आज ही प्राप्त हुआ है। अपने देशकी प्रथाके अनुसार तथा लोकाचारके अनुसार हमने १३ दिन तक शोक मनाया। यह शोक महात्माजीके लिए नहीं था, क्योंकि जो सर्वभूतहितमें रत है और जो मानव जातिकी एकता का अनुभव अपने जीवनमें करता रहा हो उसको शोक कहाँ, मोह कहाँ ? यदि हम रोते हैं, बिलखते हैं तो अपने स्वार्थके लिये बिलखते हैं, क्योंकि आज हम इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि हमने अपनी अक्षय निधि खोदी है, अपनी चल सम्पत्ति को गंवा दिया है।

महात्माजी इस देशके सर्वश्रेष्ठ मानव थे इसीलिए हम उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। हमारे देशमें समय समय पर महापुरुषोंने जन्म लिया है और इस जाति को पुनरुज्जीवित करने के लिए नूतन संदेश का संचार किया है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि अन्य देशोंमें महापुरुष उत्पन्न हुए हैं, लेकिन मेरी अल्प बुद्धिमें महात्मा गांधी ऐसा अद्वितीय बेजोड़ महापुरुष केवल भारतवर्षमें ही जन्म ले सकता था और वह भी बीसवीं शताब्दीमें, अन्यत्र कहीं नहीं। क्योंकि महात्मा गांधीने भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति को, उसकी पुरातन शिक्षा को परिष्कृत कर युग धर्मके अनुरूप उसको नवीन रूप प्रदान कर, उसमें वर्तमान युगके नवीन सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यका पुट देकर एक अद्भुत एवं अनन्यतम साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने इस नवयुगकी जो अभिलाषाएँ हैं, जो आकांक्षाएँ हैं, जो उसके महान उद्देश्य हैं उनका सच्चा प्रतिनिधित्व किया है। इसलिये वे भारतवर्षके ही महापुरुष नहीं थे अपितु समस्त संसारके महापुरुष थे। यदि कोई यह कहे कि उनकी राष्ट्रीयता संकुचित थी, तो वह

## महाप्रयाण

गलत कहेगा। यद्यपि महात्मागांधी स्वदेशीके व्रती थे, भारतीय संस्कृतिके पुजारी थे तथा भारतीय राष्ट्रीयताके प्रबल समर्थक थे, किन्तु उनकी राष्ट्रीयता उदारतासे पूर्ण थी, ओतप्रोत थी। वह संकुचित नहीं थी। संकुचित राष्ट्रीयता वर्तमान समाज का एक बड़ा अभिशाप है किन्तु महात्माजी का हृदय विशाल था। जिस प्रकार भूकम्प-मापक यंत्र पृथ्वीके सृदुसे सृदु कंप को भी अपने में अंकित कर लेता है उसी प्रकार मानव जाति की पीड़ा की क्षीणसेक्षीण रेखा भी उनके हृदय-पटल पर अंकित हो जाती थी। हमारा देश समय समय पर महापुरुषों को जन्म देता रहा है और मैं समझता हूँ कि इस व्यवसायमें भारत सदासे कुशल रहा है, अग्रणी रहा है। पतित अवस्थामें भी, गुलामी की हालतमें भी भारतवर्ष ही अकेला ऐसा देश रहा है, जो जगद्वन्द्य महापुरुषोंको जन्म दे सका है। मैं समझता हूँ कि इस व्यवसायमें भारत सदासे कुशल रहा है। हमारे देशमें भगवान् बुद्ध हुए तथा अन्य धर्मोंके प्रवर्तक हुए, किन्तु सामान्य जनताके जीवनके स्तरको ऊंचा करनेमें कोई भी समर्थ नहीं हो सका। यह यथार्थ है कि पीड़ित मानवताके उद्धारके लिए नूतन धार्मिक संदेश उन्होंने दिये थे, समाजके कठोर भार को वहन करनेकी समर्थता प्रदान करनेके लिए उन्होंने नए नए आश्वासन दिये थे, उनके विध्वंसक हृदयोंको शान्त करनेके लिए पारलौकिक सुखोंकी आशाएँ दिलायी थीं, लेकिन सामान्य जीवनके जो कठोर सामाजिक बंधन हैं, जो जनताके ऊपर कठोर शासन चल रहा है, जो सामाजिक और आर्थिक विषमताएँ हैं, जो दीनों और अकिंचन जनों को भांति-भांतिके तिरस्कार और अचहेलनाएँ सहनी पड़ती हैं, इन सब समस्याओंको हल करनेवाला यदि कोई व्यक्ति हुआ तो वह महात्मा गांधी हैं। उन्होंने ही सामान्य जीवनमें जनताके जीवनके स्तर को ऊंचा किया। उन्होंने जनतामें मानवोचित स्वाभिमान उत्पन्न किया। उन्होंने ही भारतीय जनताको इस बातके लिए सन्मति प्रदान की कि वह साम्राज्यशाहीके भी विरुद्ध विद्रोह करे और यह भी पाशविक शक्तियोंका प्रयोग करके नहीं, किन्तु आध्यात्मिक बलका प्रयोग करके हुआ। उनकी अहिंसा बेजोड़ थी। भगवान् बुद्धने कहा था 'अक्रोधेन जयेत् क्रोधम्' अर्थात् अक्रोधसे क्रोध को जीतना चाहिए। उनकी अहिंसाका सिद्धान्त भी केवल व्यक्तिगत आचरणका उपदेश मात्र न था, किन्तु सामाजिक समस्याओंको हल करनेके लिए अहिंसाको एक उपकरण बनाया और

राजनीतिक क्षेत्रमें अपने महान ध्येयकी प्राप्तिके लिए उसका सफल प्रयोग करना महात्मा गांधीका ही काम था और चूँकि वह संसारमें अहिंसाको प्रतिष्ठित करना चाहते थे, इसलिए उनकी अहिंसाकी व्याख्या भी अद्भुत, बेजोड़ और निराली थी। उनकी अहिंसाकी शिक्षा केवल व्यक्तिगत आचरणकी शिक्षा नहीं है। उनकी अहिंसाकी व्याख्या वह महान अस्त्र है जो समाजकी आजकी विषमताओंका, जो वैमनस्य और विद्वेषके कारण हैं उन्मूलन करना चाहती है। अहिंसाके ऐसे व्यापक प्रयोगसे ही अहिंसा प्रतिष्ठित हो सकती है।

सामाजिक और आर्थिक विषमताको दूर कर, मनुष्यको मानवतासे विभूषित कर, आत्मोन्नतिके लिए सबको ऊँचा उठाकर जाति-पांति और सम्प्रदायों को तोड़कर ही हम अहिंसाकी सच्चे अर्थोंमें प्रतिष्ठा कर सकते हैं। यदि किसी ने यह शिक्षा दी तो गांधीजीने शिक्षा दी। इसलिए यदि हम उनके सच्चे अनुयायी होना चाहते हैं तो समाजसे इस विषमताको, इस ऊँच-नीचके भेदभावको, इस अस्पृश्यताको, समाजके नीचे से नीचे स्तरके लोगों की दरिद्रता को और आर्थिक विषमता को समाजसे सदाके लिए उन्मूलित करके ही हम सच्चे अहिंसक कहला सकते हैं। यह महात्मागांधीजी की विशेषता ही थी।

हमारे देशकी यह प्रथा रही है कि महापुरुषके निधनके बाद हमने उसको देवताकी पदवीसे विभूषित किया। समाधि और मन्दिर बनाए। उसकी मूर्ति को मन्दिरोंमें प्रतिष्ठित किया या मजार बनाकर उनकी समाधि या मजार पर प्रेम और श्रद्धाके फूल चढ़ाकर हम सन्तुष्ट हो गए। इसी प्रकारसे भारतवासियोंने अनेक महापुरुषों की केवल उपासना और आराधना करके उनके मूल उपदेशोंको भुला दिया। मैं चाहता हूँ कि हम आज महात्मा गांधी को देवत्वकी उपाधि न दें, क्योंकि देवत्वसे भी ऊँचा स्थान मानवता का है। मानवकी आराधना और उपासना समाधिगृह और मजार बनाकर, उनपर फूल चढ़ाकर नहीं होती। दीपक, नैवेद्यसे उसकी पूजा नहीं होती। मानव की आराधना और उपासना का प्रकार भिन्न है, अपने हृदयों को निर्मल और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही उसकी सच्ची उपासना होती है। यदि हम चाहते हैं कि हम महात्मा गांधीके अनुयायी कहलाएँ तो हमारा यह पुनीत कर्तव्य है कि जनतामें अपने प्रेम और श्रद्धाके भावों का प्रदर्शन करनेके साथ साथ हम उनका जो अमर सन्देश है, उस पर अमल करें। उनका सन्देश भारतवर्षके लिए



## महाप्रयाण

ही नहीं बरन्, वर्तमान संसारके लिए है, क्योंकि आज संसार का हृदय व्यथित है, दुखी है। एक नए महायुद्धकी रचना होने जा रही है। उसकी पूर्ण सूचनाएँ मिल चुकी हैं। ऐसे अवसर पर संसार को एक आदेश और उपदेशकी आवश्यकता है। महात्माजी का बताया हुआ उपदेश जीवन का उपदेश है, मृत्यु का सन्देश नहीं है। और जो पश्चिमके राष्ट्र आज संकुचित राष्ट्रीयताके नाम पर मानव जातिका बलिदान करना चाहते हैं, जो सभ्यता और स्वाधीनता का विनाश करना चाहते हैं, वे मृत्युके पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, वे मृत्युके अग्रदूत हैं। यदि वास्तवमें हम समझते हैं कि हम महात्माजी के अनुयायी हैं तो हमारी सबकी सच्ची श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि हम इस अवसर पर शपथ लें, प्रतिज्ञा करें कि हम आजीवन उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, जो जनतन्त्र का मार्ग, समाजमें समता लाने का मार्ग, विविध धर्मों और सम्प्रदायोंमें सामञ्जस्य स्थापित करने का मार्ग है, जो छोटे से छोटे मानव को भी समान अधिकार देता है, जो किसी मानव का पक्ष नहीं करता, जो सबको समान रूपसे उठाना चाहता है। यदि महात्माजी के बताए हुए मार्गका हम अनुसरण करते तो एशिया का नेतृत्व हमारे हाथोंमें होता और हमारा देश भी दो भूखंडोंमें विभाजित नहीं हुआ होता। हम एशियाका नेतृत्व करेंगे, किन्तु इस गृह-कलहके कारण हमारा आदर विदेशोंमें बहुत घट गया है। इसलिए यदि हम उस नेतृत्व को ग्रहण करना चाहते हैं तो हमको अपने देशमें उस सन्देश को कार्यान्वित करना होगा। भारतवर्षमें बसने वाली विविध जातियोंमें एकता की स्थापना करके हम को संसार को दिखा देना चाहिए कि हम सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं। तभी सारा संसार हमारा अनुसरण करेगा।

महात्माजी के लिए जो सोचते हैं कि वह अन्तराष्ट्रीय व्यक्ति नहीं थे, उनका काम भारतवर्ष तक ही सीमित था, यह उनकी भूल है। भारतवर्ष तो उनकी प्रयोगशाला मात्र था। वह समझते थे कि यदि सत्य, अहिंसासे वह देशमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे, तो उनका संदेश सारे संसारमें फलेगा।

मैं अपनी श्रद्धांजलि महात्मा जी को अर्पित करता हूँ। और प्रार्थना करता कि मुझमें शक्ति पैदा हो कि मैं उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण किसी न किसी अंशमें कर सकूँ।

# संसारको महात्मा गांधीकी देन

पंडित श्री कृष्णदत्त पालीवाल

(सूचना व राजस्व मंत्री युक्त प्रांतीय सरकार)

हिन्दुस्तानके बापू और दुनियाके मसीहा महात्मा गांधीने बीसवीं सदी और दुनियाको सत्य और अहिंसाके जो दो संजीवन मंत्र दिये थे उनमेंसे सार्वजनिक जनांदोलनोंमें अहिंसाकी गतिशीलता, और उसकी अमोघशक्ति को देखकर सारा संसार चकित रह गया है।

जब महात्माजीने राजनीतिमें अहिंसाका प्रवेश किया तब तो देशमें लगभग सभी राजनैतिक नेता और विचारक उसमें अविश्वास रखते थे तथा उसकी आलोचना करते थे। और लोग उस समय तक अहिंसामें अविश्वास करते रहे जब तक कि १९३१ में गांधी-इरविन समझौतेके रूपमें उसके चमत्कारोंको नहीं देख लिया। कुछ लोग तो अब भी अहिंसाके तीव्र और कटु आलोचक हैं।

यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है क्योंकि हिंसा इंसानकी प्राकृतिक और परंपरागत प्रवृत्ति है। वह तो इंसानोंको हैवानोंसे विरासतमें मिली है। लेकिन अहिंसा एक तो वैसे ही दैवी संपत्ति है दूसरे कृष्ण और बुद्ध व ईसाके अहिंसा संबंधी उपदेशोंके होते हुए भी सार्वजनिक तथा राजनैतिक और सामाजिक जीवन में उसका प्रयोग एक मात्र महात्मा गांधीका अपना आविष्कार था। और नई बात तथा आविष्कारोंकी प्रारंभिक अवस्थामें उनका विरोध तथा उनकी आलोचनाका होना स्पष्टतः स्वाभाविक है।

इन सब बातोंके होते हुए भी अहिंसाके चमत्कार १९२०-२१ में ही दिखाई देने लगे। महात्मा गांधीने कहा था कि लोकमान्य तिलककी चिताकी राखसे अहिंसा का जन्म हुआ। वह पंजाब हत्याकांड, खिलाफत तथा स्वराज्यके लिए शुरु किया गया था। पंजाब हत्याकांडसे तमाम हिंदुस्तान गुस्सेसे भरा हुआ था लेकिन किसीको कोई

## महाप्रयाण

रास्ता नहीं दिखाई देता था कि क्या किया जाय । उसी अंधेरे और सियासी बेबसीकी हालतमें महात्माजीने अहिंसाके प्रकाशपुंज और असहयोगके आत्मावलंबनसे देशभरको जग-मगा दिया । सालभरमें कांग्रेसके करोड़ों मेम्बर बन गये । तिलक स्मारक फंडके लिए एक करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया । जनतामें आशा, साहस और आत्म-विरवास तथा अपरिमित बल आया ।

उसी समय दुनियाके दूसरे देशोंका ध्यान भी महात्मा गांधीके बताये हुए नये रास्तेकी तरफ गया । मिश्र, सीरिया, जर्मनी इत्यादिमें वहांकी पीड़ित जनताने उसका सहारा लिया ।

हिंदुस्तानमें तो यह हालत हुई कि अहिंसाकी नुकताचीनी करनेवाले तथा लड़ाकू कौमों तकको बरबस अहिंसात्मक सत्याग्रहसे अपने मकसद पूरे करने पड़े । मराठोंने अहिंसात्मक सत्याग्रह किया, सिखोंने गुरुद्वारेके सुधारमें अहिंसात्मक सत्याग्रहसे ही सफलता पाई । सरहदके पठानोंने भी बादशाह खां, सरहदी गांधीकी रहसु-माईमें अहिंसात्मक सत्याग्रहसे ही सरहदी सूबामें शासन सुधार प्राप्त किये । हिंदू सभाई और आर्यसमाजियोंको भी हैदराबादमें अहिंसात्मक सत्याग्रहकी शरण लेनी पड़ी । अहिंसाको शराफतके खिलाफ बतलानेवाले मुसलिम लीडरोंको भी लखनऊमें तबर और मद्दे साहबाका निबटारा करनेके लिए अहिंसात्मक सत्याग्रहके सिवा दूसरा रास्ता नहीं सूझा, न शियाओंको न मुन्नियोंको ।

१९४२ की सफल जनक्रांति अहिंसाकी जीती जागती यादगार बन गई । लार्ड माउण्टबेटेनकी १४ अगस्तको यह कहना पड़ा कि दुनियाकी तवारीखमें अहिंसा द्वारा स्वाधीनता प्राप्त करनेका यह पहला उदाहरण है ।

सच बात यह है कि बीसवीं सदीमें दुनियां भरकी पीड़ित जनताके पास अहिंसाके अमोघ अस्त्रके अलावा शासक और शोषकवर्ग तथा सत्ताधारियोंका सामना करके अपने अधिकार प्राप्त करनेके लिये और कोई रास्ता नहीं रह गया था । क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कारोंसे सरकारोंकी, शासकवर्गोंकी, सभी जगह संधारण शक्ति जनताके मुकाबले में बेतहाशा बढ़ गई थी ।

शासकवर्ग, शोषकदल, तथा सत्ताधारियों को इस ताकतकी बजहसे दुनिया भरमें हर मुकाममें जनताके लिए सरकारोंका मुकाबला करना गैर मुमकिन हो गया है ।

जे० एन० जोड नामके एक पार्शात्य लेखकने अपनी एक किताबमें लिखा है कि अब हिंसा द्वारा ताकत हथियानेका सिद्धांत बिलकुल बेकार है। कम्युनिस्टोंकी उम्मीद भी बेकारही गयी है कि फौजें जनतामें मिल जायंगी। चूंकि लड़ाईका आखिरी फैसला अब जहाजोंके हाथ है और हवाई जहाजोंमें सरकारें बीचके दरजेके फिरकेके लोगोंको भरती करती है और ये लोग मार्क्सवादके खिलाफ हैं।

अणुबमकी वजहसे तो पब्लिकके लिए हिंसाके जरिए सरकारका मुकाबला करना और भी गैर मुमकिन हो गया है। अणुबमका मुकाबला पब्लिककी कोई भी पार्टी हिंसाके जरिए कैसे कर सकती है? विज्ञानकी वजहसे जो यह ताकतका हेरफेर हो गया है उससे सरकारोंकी संहारक शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गयी है कि पब्लिकके लिए लोकतंत्रकी जनताके राजकी रक्षा करना बिलकुल गैर मुमकिन हो गया है।

आजकी दुनियामें पब्लिककी इस बेबसीकी वजहसे उसके पास शासकों शोषकों और सत्ताधारियोंका मुकाबला करनेके लिए महात्माजीके बताये हुए अहिंसाके रास्तेके अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। इसीलिखे महात्मा गांधीही आज सारे संसारके त्राता हैं। दुनियाभरके जनसंग्रामोंके वे एकमात्र सेना नायक ही नहीं, दुनियाभरके लिए बीसवीं सदीके युग निर्माता थे। जिस तरहसे मार्क्सवाद १९ वीं सदीकी युगधारा थी उसी तरह गांधीवाद २० वीं सदीकी युगधारा है।

इसके अलावा हिंसासे कभी कोई समस्या हल नहीं होती। हिंसासे पायी हुई कामयाबी चन्द्रोजा और धोलेकी टट्टी साबित होती। आल्ब्रस हफरले नामके नामी विद्वानने अपनी साध्य साधन नामक पुस्तकमें लिखा है कि फ्रांसके लुई राजवंशकी हिंसामें फ्रांसीसी राज्यक्रांतिकी हिंसा पैदा हुई। रूसके जारकी हिंसामें बोल्शेविकोंकी हिंसा पैदा हुई। कम्युनिस्टों की हिंसासे फासिस्टों और नास्तियों की हिंसा पैदा हुई। १९१४-१८ वाली दुनियाकी पहली लड़ाईमें हारा हुआ जर्मनी १९२९ में फिर १९३९ में लड़नेको उठ खड़ा हुआ। और कौन कह सकता है कि आगे क्या होगा? दूसरा संसारव्यापी युद्ध पूरी तरह खत्म भी नहीं होने पाया था कि तीसरे युद्धकी चर्चा होने लगी और दिनपर दिन बढ़ती जाती है। यानी हिंसासे सिधा सबको तबाही और बरबादीके किसीको कुछ फायदा नहीं होता है।

अंग्रेजीमें एक कहावत है कि पब्लिककी याददास्त बहुत थोड़े वक्तकी होती

## महाप्रयाण

है। वह पिछले नुकसानको बहुत जल्दी भूल जाती है। अगर कहीं याद रहे तो वह कभी भूलकर भी हिंसा और लड़ाईका नाम न ले।

महात्मा गांधीने हमें यह भी बताया है कि अहिंसा कमजोरोंका नहीं बहादुरोंका हथियार है। जाहिरभी है कि हथियार लेकर किसीको मारनेमें ऐसी क्या बहादुरी है? बहादुरी तो जानबूझकर बिना डरे मौतका मुकाबला करनेमें है। जब तक हमारे देशमें महात्माजीने अहिंसाका प्रचार नहीं किया था, उससे पहले बहादुर पंजाबमें गलियोंमें पेटके बल रेंगकर चलनेके हुकमकी मुखालफत एक भी बहादुर सिपाहीने नहीं की थी, जब कि महात्माजीकी अहिंसाकी नसीहतके बाद मुल्कमें ऐसे हजारों निकलेंगे जो इस तरहके हुकम माननेके पहले गोली या फांसीका शिकार होना खुरीसे पसन्द करेंगे।

## आत्मबल अणुबमसे अधिक

पिछली लड़ाईमें यह भी देखा गया कि ज्यादा हिंसासे मुकाबला होनेपर सभी हथियार ढाल देते थे। चाहे वह अमरिकन हो, या अंग्रेज, फ्रांसीसी हो या रूसी, अथवा जर्मन हो या जापानी। लाखोंकी तादादमें सबके सब हथियार ढालते देखे गये हैं। जब कि महात्मा गांधीके शब्दोंमें सच्चा सत्याग्रही कभी हथियार नहीं ढालता है। वह हमेशा प्रेमिका, माशूका की तरह मौतका स्वागत और आलिंगन करनेको तैयार रहता है। अकेला एक सत्याग्रही सारे संसारका सामना करनेको तैयार रहता है। उसका आत्मबल अणुबमसे भी अधिक होता है।

हिंसासे होनेवाली बुराइयोंको देखनेके लिए हमें लड़ाइयों और इतिहासकी तरफ जानेकी भी कोई जरूरत नहीं। पिछले दिनोंमें हमारे ही मुल्कके भाईके खूनसे भाईके हाथ रंगेजाने का जो शर्मनाक और दर्दनाक काण्ड हुआ है वही क्या कम है? उससे किसीका क्या फायदा हुआ! क्या हिंदू दब गये या सिख या मुसलमान? क्या हिंदू मर गये या सिख या मुसलमान? नयोंको मारनेसे जो पहले मर गये थे वे तो जिंदा नहीं हुए नये जरूर और मारे गये। आज भी हिंदू सिख व मुसलमान सबकी बहिष्त व बेदियोंको जो पिशाच भगा ले गये हैं उनके साथ क्या वीरता होगी। इसका क्या करते ही रोम रोम क्रोध, शोक और शर्मसे कांपने लगता है। कभी कभी अख-

बारोंमें जो बीभत्स तथा लोमहर्षक तथा रोमांचकारी समाचार निकल जाते हैं उन्हें पढ़कर तो आंखोंमें खून आ जाता है। ये नरपिशाच यह भी नहीं सोचते कि इसी तरह इनकी बहन बेटियोंपर भी बीत रही होगी।

संक्षेपमें आजके अंतराष्ट्रीय संसारमें स्थायी शान्ति, वास्तविक लोकतंत्र और सच्ची स्वाधीनताकी स्थापनाके लिए सिवा अहिंसाके और कोई उपाय नहीं है। अहिंसा ही उनका एकमात्र तथा सर्वोत्तम उपाय है। इसीलिए महात्मा गांधी बीसवीं सदीके मसीहा हैं। दुनिया भरके मसीहा सब देशों और सब युगोंके मसीहा हैं। लोकतंत्र और जनतंत्र तो अहिंसाके बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। हिंसाको आबोहवासे तो उसका दम घुट जाता है।

महात्माजीको अहिंसा केवल हिंसाका भाव किसीको न मारना ही नहीं है। वह सिर्फ किसीकी आत्माको दुख न पहुँचाने तक ही महद्द नहीं है। वह तो प्रेमका दूसरा नाम है। हर इन्सान दूसरे इन्सानसे, हर धर्म दूसरे धर्मोंसे, हर कौम दूसरे कौमोंसे नफरत करना छोड़कर सुहृद्भवत करे, यह अहिंसा है। इसी अहिंसासे आजके इन्सान उसके समाज और उसकी दुनियामें उसकी एक दुनिया और भाईचारेके सपने पूरे होंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह हिंदूस्तानमें उसकी आजादीका सपना पूरा हुआ।

आजाद हिंदुस्थानमें हम अपनी जवानीमें गाये हुए गीतोंमें

हिंदू मुसलिम सिख ईसाई।

बौद्ध पारसी जैनी भाई ॥

इस गीतको खास तौरपर पूरा कर दिखावें और इस तरह दुनियाभरके लिये हिंदुस्तानको नमूना बनाकर उस पाक कामको पूरा करें जिसके लिये महात्मा गांधी कुरबान हुए। हिंदू सिख और मुसलमान एक दूसरेको इज्जत करते हुए एक दूसरेसे सुहृद्भवत करते हुए सगे भाइयोंकी तरह रहें। इसीसे महात्माजी के जिंदगीका काम पूरा होगा। यही उनकी सच्ची यादगार होगी। हमें उनके बताये हुए अहिंसा मंत्रकी सिद्धि होगी। इसीसे श्रेणी हीन शोषण रहित नवीन सुन्दर संसार और मानव समाजका नव निर्माण होगा। सत्य और अहिंसासे ही वर्तमान अंतराष्ट्रीय संसारकी समस्त जटिल समस्याएँ सुलभ जायेंगी। अहिंसामें ही इतनी गतिशीलता, इतना विद्युत

## महाप्रयाण

भंडार है कि वह समस्त संसारको एक और प्रकाशमान तथा मानवमात्रको शक्तिशाली कर सके ।

संसारभरके समस्त प्रगतिशील और विवेकशील कर्मठ क्रांतिकारी कार्यकर्ताओंका परम पावन कर्तव्य है कि वे महात्मा गांधीकी जय, गांधीवाद जिंदाबादके नारे लगाते हुए रण हुकारोंसे पृथ्वी और आकाशको गुंजा दें तथा संकीर्ण सांप्रदायिकता और जड़ता तथा पशुताके खिलाफ जिहाद बोल दें, धर्म युद्ध छेड़ दें ।

यह याद रखें कि जिस तरह ईसामसीहके बलिदान के बाद, संसारने उनके मतको ग्रहण किया उसी तरह महात्मा गांधीकी कुरबानीके बाद संसार उनके मार्गको, गांधीवादको, सत्य और अहिंसाकी सच्चाई और मुहब्बतके उनके पैगामको और उनके संदेशको अपनायेगा ।



## हिन्दुत्वको बापूकी महती देन

कमलापति त्रिपाठी एम० एल० ए०

जब कोई जाति अपने स्वरूपको भूलती है तब उसका अधःपतन हो जाता है। युग आया, जब हिन्दू-जाति भी विस्तृति हो चली और बड़े वेगसे पतनकी ओर अभिसुख हुई। सहस्रों वर्षों तक विश्वके सांस्कृतिक और सामाजिक रंगमंचपर गौरवपूर्ण अभिनय करनेके बाद हिन्दू-जाति श्रान्त होकर पड़ रही और अपनी मूर्छामें अपनेकी भूल गयी। भारतके गौरवपूर्ण इतिहासका अन्त ईसाकी सातवीं शताब्दिमें हर्षवर्द्धनके बाद ही आरम्भ हो गया। जब जातियाँ अपने स्वरूपको भूलती हैं तो वे अपनी संस्कृतिकी आत्माकी उपेक्षा करने लगती हैं, और पूजा करने लगती हैं बाह्याङ्गबरोका, जो धीरे-धीरे रूढ़ियोंका स्वरूप ग्रहण करके हमारा कण्ठाबरोध करने लगती हैं। भारतीय इतिहास पर यदि आप दृष्टिपात करें तो आपको ज्ञात हो जायगा कि हर्षवर्द्धनके बाद इस देशमें उपर्युक्त प्रकारके युगका सूत्रपात हुआ था। तबसे प्रायः तेरह सौ वर्ष बीत गये, हम बराबर गिरते गये। हमने अपनी संस्कृतिके मौलिक रूपको भुला दिया, उसकी आन्तरिक प्रेरणाको विस्तृत कर दिया और उसके सच्चे स्वरूपके प्रति आँखें बन्द कर लीं। हमारी स्वतन्त्र चेतना क्रमशः ह्रासको प्राप्त होने लगी, हमारी स्फूर्ति नष्ट होने लगी और हमने ऊपरी बातोंको ही प्रमुखता प्रदान करना आरम्भ कर दिया। रूढ़ियोंकी पूजा निर्जीवताकी ओर ले बढ़ी और अन्धानुगमन, परिस्थितियोंके प्रति उदासीनता, कालप्रवाहकी उपेक्षा तथा प्रतिक्षण परिवर्तित होनेवाले संसारके साथ अपनी गति बनाये रखनेमें हमारी अद्यमर्थता हमें जड़ताकी ओर ले चली। धीरे-धीरे भारतीय जीवन जड़ हो गया और उसकी वह स्फूर्ति, वह स्पन्दन तथा वह तेजस्विता नष्ट हो गयी जो सजीव, सक्रिय तथा महान बनाये हुए थी। उसमें जब यह शक्ति न रही कि वह विश्वके सांस्कृतिक संघर्षमें टिक सके और जब यह शक्ति न रही कि गतिशील जगतमें उत्पन्न होनेवाले प्रवाहोंसे टक्कर ले सके, तब उसने भयभीत होकर अपनेको संकुचित तथा अनुदार बनाना आरंभ कर दिया। जिस प्रकार भयसे



## महाप्रयाण

प्रस्त प्राणी अपनेको कठिन प्रकोष्ठमें आबद्ध करके अपनी रक्षाकी चेष्टा करता है उसी प्रकार हिन्दू जातिने अपने को रुढ़ियोंके कठोर बंधनसे आबद्ध करके अपनी रक्षाकी चेष्टा की। ये प्रबल बंधन समय पाकर उसे और भी गतिहीन तथा निश्चेष्ट बनानेके कारण हुए।

गत बारह सौ वर्षोंका हिन्दू जातिका इतिहास इसी दुश्चक्रका इतिहास है। हिन्दुत्वकी आत्माको भूलकर उसकी जड़ कायाकी पूजा आरंभ की गयी और सारी अंतःप्रेरणा भूलकर उस कायाकी रक्षाके लिए उसे जगतसे अलग करके अंधेरे कमरेमें बन्द कर देना उचित समझा गया। फलतः मुक्त वायुमंडल तथा जीवनप्रद प्राकृतिक उपादानोंसे अलग रखा गया प्राणी जिस प्रकार बलहीन और निरुपाय हो जाता है उसी प्रकार हिन्दू जाति दुर्बल तथा निष्क्रिय हो गयी। इस दुश्चक्रसे उसे निकालनेके लिए समय समयपर महापुरुषोंने अनेक यत्न किये, पर हमारे दुर्भाग्यसे उन्हें भी अधिक सफलता न मिली। हम सांस्कृतिक दृष्टिसे जब गिरे तो राजनीतिक तथा आर्थिक पराभवको भी प्राप्त हुए। जिस पतनका सूत्रपात हर्षवर्द्धनके बाद ही हो गया था वह हिन्दू जातिको इतना निर्जीव बना चुका था कि एक शताब्दिके बाद ही भारतके निकट पश्चिमसे उठी हुई इस्लामकी महती हिलोरका सामना करनेमें समर्थ न हुई। भारत एक ओर इस्लामकी सांस्कृतिक टक्करसे विताड़ित हुआ और दूसरी ओर उसे मुसलमानोंकी राजनीतिक पराधीनता प्राप्त हुई। प्रायः सहस्र वर्षोंतक यह देश उस चक्कीमें पिसता रहा। यह हमारे पूर्वजोंकी महती तपस्याका फल था जो समय समयपर भगवानकी कृपासे उत्पन्न हुए। महापुरुषोंकी देन थी कि उस घोर पतनके युगमें मूर्छित और विस्मृत होते हुए भी हिन्दू जाति मरी नहीं और अपने जीवनकी रक्षामें समर्थ रही। यह युग समाप्त भी नहीं हो सका था कि सुदूर पश्चिमसे एक महती, अतिबलवती और नवशक्ति तथा नवप्रेरणासे अभिभूत सांस्कृतिक लहर उठी, जो बड़े वेगसे भारत भूमिको आप्लावित करनेमें समर्थ हुई। अंग्रेजोंका आगमन उसीका परिणाम था जिसके फलस्वरूप हिन्दू यदि मुसलमानोंकी पराधीनता से मुक्त हुए तो अंग्रेजोंकी परतन्त्रताकी शृंखलासे आबद्ध हो गये। अंग्रेज नवोत्पन्न वैज्ञानिक संस्कृतिकी शक्तिसे सम्पन्न होकर आये थे। उन्होंने इस देशको न केवल राजनीतिक दृष्टिसे प्रताड़ित किया प्रत्युत हमारी संस्कृतिपर भी गहरा प्रहार किया। विस्मरण और मोहमें पड़ी हुई हिन्दू जाति इस प्रकारको भला सहन ही

कैसे कर सकती थी ? वह सांस्कृतिक दृष्टिसे पराभूत हुई और एक युग ऐसा आया जब यह ज्ञात होने लगा कि कदाचित् हिन्दुत्वका वह सिसकता हुआ जीवन भी न रह जायगा जो मृत तुल्य होते हुए भी तनिक-तनिक सांस ले रहा था। वह थी हमारी अवस्था, जब इस देशमें हिन्दुत्वको सहसा पुनःजागृत करनेवाले महा-पुरुषोंका प्रादुर्भाव शुरू हुआ। परमहंसदेव रामकृष्ण और विवेकानन्द, रामतीर्थ और दयानन्द उसी शक्ति और प्रवृत्ति के प्रतीक थे जो हिन्दुत्वको पुनः विकसित, जागृत, मुखरित और गतिशाल बनानेके लिए उत्पन्न हुई थी। इन महापुरुषोंके कठोर तप आर परिश्रमसे हिन्दू जातिमें क्रमशः नया स्पन्दन प्रादुर्भूत हुआ। हमारे इतिहासके इन उज्वल रत्नोंने उन बन्धनोंको खोलनेकी सतत चेष्टाकी जिन्हें रूढ़ियोंका रूप देकर स्वयम् हिन्दू जातिने अपने हाथ और पैरमें कसकर बाँध रखा था। इन्होंने हिन्दूकी मूर्छा भङ्ग करने और उस विस्मृतिका निराकरण करनेका प्रयत्न किया। इन्होंने हिन्दू जातिको ध्यान बलपूर्वक हिन्दुत्वकी उस अमर आत्माकी ओर आकृष्ट करनेकी चेष्टा की जिसे भूलकर हम धराशायी हुए थे।

इन विभूतियोंके तपका यह परिणाम था कि हिन्दू समाज आँखें खोलनेके लिए बाध्य हुआ और अपनी पतितावस्था, अपने बन्धन तथा अपने चतुर्विक्के अन्धकारपूरित वातावरणकी अनुभूति की। पर हिन्दू जाति यद्यपि चैतन्य हुई थी पर उससे उसकी समस्या हल नहीं हो सकती थी। आवश्यकता थी, उसे ऐसी प्रेरणाकी जो उसे धरतीसे उठाकर पैरोंपर खड़ा कर देती, अपने बन्धनोंको क्षणमात्रमें विच्छिन्न कर देनेकी शक्ति देती और बल देती कि वह पग बढ़ाये तथा तीव्र वेगसे सांस्कृतिक पथपर अग्रसर हो जाय। उसे आवश्यकता थी ऐसी स्मृतिकी जो उसे आशा तथा अपने प्रति आस्था और विश्वास प्रदान करती। उसे आवश्यकता थी एक प्रकाश की, जो उसके अन्तर और बाह्यको आलोकित कर देता और उसकी स्मृतिभ्रंशताको दूर करके उसे अपनेपनका ज्ञान करा देता। जो जाति अपने अतीत को भूल चुकी थी, वर्तमानके प्रति उदासीन थी और भविष्यके प्रति आशा तथा आस्था खो चुकी थी, उसे पुनः आन्तरिक ज्योतिसे उदीप्त करनेकी आवश्यकता थी इसलिए कि उसका स्वाभिमान जागे, उसके हृदयमें अतीतकी गौरवानुभूति या उसका अन्तर वर्तमानके प्रति घृणासे भर छूटे और उसका हृदय उसके वर्तमानके विरुद्ध विप्लवकी आग लिये हुए ऐसे भविष्यकी रचनाकी ओर उन्मुख हो जो,

## महाप्राण

उसकी अतीतकी परम्पराके तथा उसके गौरवके अनुकूल हो। हिन्दू, हिन्दुत्वकी अमर आत्माका साक्षात्कार करे और उसके उज्ज्वल स्वरूपकी पूजासे वह बल पावे जो उसके रूढ़िमूलक जीवनको मुक्त करके उसमें गति भर दे। आवश्यकता थी इस बातकी कि हिन्दू अतीतकी पूजामें रत हो, पर इस प्रकार न रत हो कि वह पूजा शवकी पूजा हो जाय। शवसे चिपकना मृत्युका आवाहन करना है। पर जो गया है उसे प्रेरणा ग्रहण करके भविष्यकी चिन्ता करना जीवनका आवाहन करना है। फलतः आवश्यकता थी अतीतकी ऐसी पूजाकी, जिससे उज्ज्वल प्रेरणा तो प्राप्त हो, पर शवसे चिपटनेकी प्रवृत्तिका विलोप हो। बिना इन आवश्यकताओंकी पूर्तिके हिन्दू जातिफा, हिन्दू संस्कृतिका पुनरुद्धार सम्भव नहीं था। आवश्यकता थी ऐसे युगपुरुषकी, जो हिन्दुत्वकी आत्माको उज्ज्वल करके हिन्दूको जीवन प्रदान कर देता। विचार कीजिये कि इस आवश्यकताकी पूर्ति कैसे हुई? निसर्ग की महती कृपाके फलस्वरूप विश्वात्माकी अनुकम्पाके परिणामस्वरूप, हिन्दुत्वके सौभाग्यस्वरूप, हमारे पूर्वजोंके सुकृतके फलस्वरूप बापू अपतरित हुए जिन्होंने जीवन और मृत्युके धागेमें लटकती हुई हिंदू जातिको वह सब प्रदान किया जिसके अभावमें उसकी मृत्यु ही ध्रुव थी। जिस कार्यको संतोंका युग अधूरा छोड़ गया था और जिस कार्यको रामकृष्ण और विवेकानन्द, रामतीर्थ और दयानन्द केवल स्पन्दित करके चले गये, उसे इस महाप्राण व्यक्तिने पूरा किया। बापूने हमारी शताब्दियों की अन्धरूढ़ियोंका उन्मूलन किया, हमारी सांस्कृतिक निश्चेष्टताका उच्छेदन किया, चतुर्दिक व्याप्त अन्धकारका उत्पादन किया और उस जड़ताका विनाश किया जो हमें दबोचे हुए थी। हमारी आत्माका स्पर्श किया, हमें उज्ज्वल किया, अतीतकी स्मृति कराई, उसपर गर्व करनेकी शक्ति प्रदान की, वर्तमानके प्रति विप्लवी बनाया और भविष्यकी सुन्दरतामें आस्था और विश्वास प्रदान किया। हिंदू संस्कृतिकी मौलिक ज्योतिको पुनः जगाया और इस प्रकार जगाया कि उसके आलोकसे न केवल भारत, किन्तु वसुधा एक बार चौंधिया उठेगी। जगतने देखा कि प्राचीनसे उज्ज्वल सांस्कृतिक प्रकाश विश्वके अन्तरिक्षपर उदित हुआ है और क्रमशः अधिकाधिक प्रकाशित होता हुआ नभ-मण्डलको उद्दीप्त करता हुआ आगे बढ़ा चला आ रहा है। बापूके तपसे हिन्दू समाजकी वे कुरीतियाँ और रस्मरिवाज जो इसकी

देहमें यत्माके कीटाणुओंकी भांति पड़े हुए—उसे खाये जा रहे थे, वेगसे मरने लगे। अस्पृश्यताका वह विष जो हमारा सर्वनाश कर रहा था मिटने लगा। अशास्त्रीय जातिपातके बन्धनोंकी जड़ कटने लगी। हिन्दूमें आयी हुयी वह संकीर्णता और अनुदारता जो उसे जड़ बनाये हुए थी मिटने लगी। सर्वत्र रामका नाम गूंज उठा, गीताकी अमृतमय याणी व्यामोहको नष्ट करने लगी और उपनिषदोंसे प्रवाहित धारा पवित्रता और सजीवता प्रदान करने लगी। हिन्दूको अनुभूति हुईकि वह हेय, लघु और तुच्छ नहीं महान है और उसके पास ऐसी विभूति है जिसपर उचित अभिमान करनेका उसे अधिकार है। पुनरुत्थित, विकसित और स्वाभिमानी हिन्दुत्व जब आगे बढ़ा तब नये इतिहासकी रचना हो गयी। बारह सौ वर्षोंके उसके पतनके युगका अन्त अभी उस रोज ही तो हुआ है। एक बार हिंदूने भारत भूमिमें पुनः हिन्दुत्वके सम्मानकी अनुभूति की। हिन्दुत्वको बापूकी यह महती देन थी। हिन्दू जाति और हिन्दुत्वका ऐसा उद्धारक, ऐसा उन्नायक और ऐसा जीवनदाता हिन्दुत्वके नामपर ही लुप्त कर दिया गया। हिन्दूकी यह अकृतज्ञता उसके भावी विनाशकी सूचिका है ? आज स्वयम् हिन्दू विचार करे और उक्त प्रश्नका उत्तर दे।

## सर्वश्रेष्ठ मानव !

श्री रेजिनाल्ड सोरेन्सन

लेनिन और महात्मा गांधीको मैं विश्वमें बीसवीं शताब्दिका सबसे महान् व्यक्तित्व मानता हूँ, यद्यपि दोनों एक दूसरेके एकदम विपरीत हैं। इन दोनोंमें श्री मोहनदास करमचन्द गांधी वास्तवमें अत्यधिक प्रभावान्वित करनेवाले महापुरुष हैं। मैं गांधीजीसे प्रतिनिधिमण्डलके साथ दो अघसरपरमिला हूँ। उस समय वे मद्रासकी उस इमारतमें निवास कर रहे थे जो वहांकी एक विशाल संस्थामें ही थी। उनके द्वार-पर सदा ही भीड़ लगी रहती थी, सबेरे नित्य ही गांधीजी प्रार्थना करते थे जिसमें सहस्रोंकी संख्यामें लोग एकत्र होते थे।

हमलोग अर्धवृत्ताकारमें बैठे थे। गांधीजी भूमिपर मध्यमें शुभ्र गद्देपर बैठे थे। बिजली जल रही थी। प्रथमदिनसंध्याके अनन्तर दो घण्टेतक हमलोग पारस्परिक विचार-विनिमय तथा प्रश्नादि करते रहे। उस समय हमलोग तथा महात्माजीके अति-रिक्त और कोई न था। वह अत्यन्त कुशल और विनोदी थे किन्तु कभी-कभी गम्भीर रूपसे अपने पक्षके लिए दृढ़ हो जाते थे। विचार-विनियमके अवसरपर प्रश्नपर उनका मस्तिष्क सदा कार्य करता रहता था किन्तु उनके अपने विशेष ढंगसे। किन्तु उनकी उदारताकी पृष्ठभूमिमें अभेद्य दृढ़ताकी भावना विद्यमान रहती थी। कभी-कभी उनके तर्कमें अप्रासंगिकता एवं परस्पर विरीधी बातें सी मालूम पड़ती हैं, किन्तु वह अपने आलोककोंके सुधारका सदा स्वागत करते थे। व्यक्तिगत रूपसे अप्रासंगिकताके होते हुए भी महात्माजीको अपनी आत्मामें इस बातका विश्वास रहता था कि विषयके आप्रह एवं हितकी दृष्टिसे उनमें साम्बन्धक सम्बन्ध रहता है। धार्मिक एवं कर्त्तव्य-शास्त्रकी दृष्टिसे महात्माजीकी पहुँच अत्यन्त गहराई तक थी लेकिन साधारण राजनीति-ज्ञको संकटमें डाल देती थी। वादविवादमें जो लोग प्रतिशोध एवं शत्रुताकी भावना पैदा कर लेते हैं उन्हें यह बात अत्यन्त विचित्र प्रतीत होगी कि गांधीजीने 'भारत-छोड़ो' प्रश्नसे सम्बद्ध जब समस्त तर्क उपस्थित किया तो वह पूर्णतः न्याययुक्त

प्रतीत होता था। महात्माजीने स्पष्ट शब्दोंमें कहा—‘भारत-छोड़ो’ योजनामें अंगरेजोंके प्रति तनिक भी घृणाका भाव नहीं। यदि हम उनसे डरते हैं तो घृणाकी भावना उदपन्न होती है, यदि भयके भावका लोप हो जाता है तो घृणाका कहीं अस्तित्व ही नहीं रहता।’

महात्माजी जो कुछ कहते थे वह शुद्ध और सच्चे अर्थमें। वह अपने देशवासियों को सत्य और स्वातन्त्र्यके लिए बिना किसी विरोधी भावनारो युक्त हुए आगे कदम बढ़ानेके लिए कहते थे। विरोधियोंके लिये हृदयमें भ्रातृभावनासे युक्त होनेका सदा उनका आदेश रहता था। यह एक ऐसी असाधारण वस्तु है जो विरले राजनीतिक नेतामें पायी जाती है।

महात्मा गाँधीजीका ‘व्यक्तित्व हम ब्रिटेनवासियोंको कुछ विचित्र और चुनौती देनेवाला भले ही प्रतीत हो, किन्तु इस बातमें तनिक सन्देह नहीं किया जा सकता कि करोड़ों भारतीयोंकी आश्यकताओं एवं आशाओंके वे मूर्ति रूप थे। भारतीय जनताके लिए वह राजनीतिक नेता मात्र नहीं अपितु आराध्यदेव ‘महात्मा’ थे। प्रायः सभी प्रमुख ब्रिटिश नेताओंने इस बातको स्वीकार किया है कि महात्माजी सा प्रभावशाली अन्य कोई नहीं। विरोधी आलोचना तथा विपरीत विकासके लक्षणोंके बावजूद वह पूर्ववत् शान्ति एवं साम्यकी स्थितिमें रहते थे।

## मानवताके प्राण गांधी

### श्रीमती पर्लबक

अमेरिकामें पेन्सिलवेनियाके निकट देहाती क्षेत्रमें एक गाँव हे पेरेक्सिर । वहीं हमारी शान्तिमयी झोंपड़ी है । ३१ जनवरीको वह दिन पिछले दिनोंकी तरह ही आरम्भ हुआ । हम सवेरे ही उठनेके अभ्यासी हैं क्योंकि बच्चोंको कुछ दूर स्कूल जाना पड़ता है । नित्यकी तरह ही आज हम जलपानके लिए मेजके चारों ओर इफट्टे हुए और साधारण बात-चीत करने लगे । खिड़कियोंसे बाहर घने हिम-पातका दृश्य दिखलायी दे रहा था और आकाशकी आभा भूरे रंगकी हो रही थी । हमारे बच्चोंको शंका हो रही थी कि कहीं और अधिक हिम-पात न हो । एकाएक गृहपति कमरेमें आये । उनकी मुखमुद्रा गम्भीर थी । उन्होंने कहा—‘रेडियोपर अभी एक अत्यन्त भयानक समाचार आया है !’

यह सुनकर हम सब उनकी ओर देखने लगे और तुरंत ये हृदय-विदारक शब्द सुनाई पड़े—‘गांधीजीका देहावसान हो गया ।’

मेरी इच्छा है कि भारतसे हजारों मील दूर स्थित अमेरिका निवासियोंपर गांधीजीकी मृत्युसे जो प्रतिक्रिया हुई उसे भारतवासी जानें । हम लोगोंने हृदयको दहला देनेवाला यह संवाद सुना । यह साधारण मृत्यु नहीं है । गांधीजी शान्ति की प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने अपना सारा जीवन अपने देशकी जनताकी सेवाके लिए लगा दिया था । ऐसे शान्तिप्रिय व्यक्तिकी हत्या कर दी गयी । मेरे दस वर्षके छोटे बच्चेकी आँखोंमें आँसू छलकने लगे और उसने कहा—‘मैं चाहता हूँ कि यदि बन्दूक बनानेका आन्विष्कार ही न हुआ होता तो बड़ा ही अच्छा था ।’

हम लोगोंमेंसे किसीने भी कभी गांधीजीको नहीं देखा था, क्योंकि जब हम लोग भारतवर्षमें थे तब गांधीजी सदा जेलमें ही थे । फिर भी हम सभी उन्हें जानते थे । हमारे बच्चे गांधीजीकी आकृतिसे इतने परिचित थे मानो गांधी जी स्वयं हमारे

साथ घरमें ही रहते थे। हमारे लिए गांधीजी संसारके इनेगिने महात्माओंमेंसे एक महात्मा थे। पृथ्वीके उन गिने-चुने पीरोंमेंसे वे एक थे जो अपने विश्वासपर हिमालयकी तरह अटल और दृढ़ रहते थे। उनके सम्बन्धमें हमारी धारणा भी वैसी ही अटल है।

उनकी मृत्युका समाचार सुननेके बाद हम परस्पर गांधीजीके जीवन और उनकी मृत्युसे होनेवाले सम्भावित परिणामोंके सम्बन्धमें बात-चीत करने लगे।

हमें भारतवर्षपर गर्व है कि महात्मा गांधी जैसे महान् व्यक्ति भारत अधिवासी थे। पर साथ ही हमें खेद भी है कि भारतके ही एक अधिवासीने उनकी हत्या की। इस प्रकार दुखी और सन्तप्त हम लोग चुपचाप अपने दैनिक कार्योंमें लग गये।

भारतवासी सम्भवतः यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि हमारे देशमें गांधीजीकी यश कितने व्यापक रूपमें फैला। वे यह जानकर आश्चर्यान्वित होंगे। मैं उनकी मृत्युके एक घण्टे बाद सड़कसे होकर कहीं जा रही थी कि एकाएक एक किसानने मुझे रोका और पूछा—‘संसारका प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि गांधीजी एक उत्तम व्यक्ति थे तो फिर लोगोंने उन्हें मार क्यों डाला?’

मैंने अपना सिर धुना और कुछ बोल न सकी। उसने संकेतसे कहा कि ‘जिस तरह लोगोंने महात्मा ईसाको मारा था उसी तरह लोगोंने महात्मा गांधीको मार डाला।’

उस किसानने ठीक ही कहा था कि महात्मा ईसाकी सूलीके अतिरिक्त संसारकी किसीभी घटनाकी महात्मा गांधीकी गौरवपूर्ण मृत्युसे तुलना नहीं हो सकती। गांधीजीकी मृत्यु उन्हींके देशवासी द्वारा हुई। यह ईसाके सूलीपर चढ़ाये जानेके बाद दूसरी ही वैसी घटना है। संसारके वे लोग जिन्होंने गांधीजी को कभी नहीं देखा था आज उनकी मृत्युसे शोक संतप्त हो रहे हैं। वे ऐसे समयमें मरे जब उनका प्रभाव दुनियाके कोने-कोनेमें व्याप्त हो चुका था।

कुछ दिनोंसे अमेरिका-निवासियोंमें महात्मा गांधीके प्रति बढ़ती हुई श्रद्धाका अनुभव हम कर रहे थे। महात्मा गांधीके प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा थी।



महात्मा गांधीके प्रति जनतामें वास्तविक आदर था और हम लोगोंको यह प्रतीत होने लगा था कि वे जो कुछ कह रहे थे वही ठीक था ।

आज अपने देशके अति उन्नत सैनीकीकरणके मध्य हमारी दृष्टि गांधीकी ओर जाती थी और यह प्रतीत होता था कि ( युद्धका नहीं बल्कि शांतिका ) गांधीका मार्ग ही ठीक है । हमारे समाचारपत्रोंने गांधीकी इस नयी शक्तिको पहचाना । भारत की इस महान् व्यक्तिके कारण अन्य देशोंमें प्रतिष्ठा बढ़ी । महात्मा गांधीजीके नेतृत्वमें होनेवाले भारतीय स्वातन्त्र्य युद्धकी ओर हमारी दृष्टि गयी क्योंकि उनका ढँग राष्ट्रोंके बीचके मतभेदोंको शांतिपूर्ण ढँगसे तय करनेका था ।

मैं चाहती हूँ कि भारतके प्रत्येक नर-नारीके हृदयमें विश्वास करा दूँ कि उनके देशको अब अन्य देशवासी क्या समझते हैं । आज भारत केवल भारत ही नहीं है । वरन् वह संसारकी मानव-जातिका प्रतीक है । चर्चिल और उनके समान अन्य व्यक्ति हमें बताते रहे कि यह आवश्यक नहीं है कि दुनियाके सभी लोग स्वतन्त्र हों । इन लोगोंका कहना है कि जगतको यह जान लेना चाहिये कि कुछ थोड़े बलवान और शक्तिशाली व्यक्ति ही विश्वपर शासन कर सकते हैं ।

कुछ लोग कहते हैं कि कोई न कोई शासक तो अवश्य ही होगा और यदि हम स्वयं शासित होना नहीं चाहते हैं तो हमें शासक होना चाहिये । लेकिन हम इस बातपर विश्वास नहीं करते । हम तो ऐसे संसारकी कल्पना कर रहे हैं जिसमें जनता स्वयं अपना शासन चलाने के लिये स्वतन्त्र रहे । हमारे लिए उस काल्पनिक संसारका प्रतीक भारतवर्ष है । हम प्रतिदिन भारतीय समाचारोंके लिए समाचारपत्रोंको बढ़ी उत्कण्ठासे आँखें फाड़-फाड़कर देखते हैं । श्री चर्चिलने जिस 'रक्त-स्नान' की धमकी दी थी, वस्तुतः क्या वह घटना सत्य होगी ? क्या यह सत्य है कि लोग अपने मत-भेदोंको शान्तिसे न मिटा सकेंगे ? क्या युद्ध सदा होते रहेंगे ?

हम सभी लोगोंके लिए—जिनकी धारणा थी कि जनतापर विश्वास करना चाहिये—गांधीजी आशाके केन्द्र थे । यह बात नहीं है कि हम उस क्षीणकाय चरमे-वाले गांधीको भावुकतामें आकर कोई देवता समझ बैठे थे, बल्कि हमारा यह विश्वास था और हम आशा करते थे कि गांधीजीने मानव-जीवनके मौलिक सत्यको प्राप्त कर

लिया था। उनकी मृत्यु पराजय है या विजय? इसका उत्तर भविष्यमें भारतवासी विश्वको अपनी भावी गतिविधिसे देंगे।

उन लोगोंमें जो समझते थे कि गांधीजी सत्य पथपर थे, यदि उनकी मृत्युसे नयी जाग्रति, नयी चेतना और नया संकल्प उत्पन्न हो सके तो यह हमारे और भारतके लिए समान रूपसे लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि हम मानवतामें विश्वास करते हैं। यदि उनकी मृत्युसे हम निराश और पराजित हो जायँ तो निश्चय ही संसारकी मानवता पराजित हो जायगी।

अमेरिकामें गांधीजीकी मृत्युका समाचार धक्केकी तरह लगा और कुछ क्षणोंके लिए लोग स्तब्ध रह गये। लोग एक दूसरेकी ओर आश्चर्यसे देखने लगे। नेहरूजी अभी जीवित हैं। अब ऐसी दुर्घटना न घटेगी। केवल यही नहीं कि पश्चिमी जगत् भारतके किसी और व्यक्तिकी अपेक्षा नेहरूको अधिक जानता है बल्कि वह नेहरूकी बुद्धिमत्ता, योग्यता और धैर्यपर विश्वास भी करता है। भारतमें इतना वर्गभेद नहीं हो जायगा जिससे निराशा और पराजयके कारण लोग नेहरूको पदच्युत कर दें। यदि ऐसा हुआ तो भारतकी बड़ी हानि होगी और वह पश्चिम जगत्की दृष्टिमें नितान्त गिर जायगा।

बुद्धिमान भारतीय ऐसी गलती करनेके पूर्व अच्छी तरह सोचेंगे। मैं न केवल एक साधारण अमेरिकनकी दृष्टिसे यह कह रही हूँ बल्कि भारतके सन्बन्धमें जो कुछ भी जानती हूँ कि भारत अपने लिए क्या करना चाहता है तथा नेताके रूपमें संसारके लिए क्या कर सकता है। इस दृष्टिसे मेरे उक्त विचार हैं।

भारतका भाग्य अधरमें दोलायमान हो रहा है। भारतीय अपने वर्गभेदकी भावनाको मिटाकर अपने विशाल हृदय, सत्यनिष्ठ नेताओंके आदेशपर चले और संकुचित विचारवाले उन्नतिमें बाधक नेताओंसे बचे, तभी उनका कल्याण होगा।

# बुद्ध और गांधीके अंतिम संस्कार

भदन्त आनन्द कौसलायन

नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित शब्दसागर ही शायद हिन्दीका सबसे बड़ा कोष है। उसमें ९३११५ शब्द होंगे। किन्तु इतने हजार शब्दोंमें क्या एक भी शब्द ऐसा है जो इस देशकी वेदनाको उस तीव्रताको व्यक्त कर सके जो इसे अपने राष्ट्र-पिता महात्मा गांधीको गंधाकर हुई।

कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे एक पत्रकार रहा। इससे हर पत्रकार लज्जित है। सुनते हैं वह ब्राह्मण भी है, जिससे हर ब्राह्मण जमीनमें गड़ा जा रहा है। वह हिन्दू है, यह हर हिन्दूके लिए डूब मरनेकी बात है। वह भारतीय है, भारतमाता उस कुलकलांकीको जन्म देनेके कारण अनुत्पन्न है। भारतीयता ही नहीं सारी मानवतापर लगे अभिशापका दूसरा नाम है नाथूराम गोडसे।

हमें लगता है जिस प्रकार इस देशमें कोई भी रावण कहलाना पसन्द नहीं करता, विभीषण कहलाना पसन्द नहीं करता, उसी प्रकार भविष्यमें कोई अपना नाम नाथूराम भी रखना पसन्द न करेगा।

किन्तु इस महान पातकका दूसरा पहलू भी है। इस पातकने महान बापूको और भी महान सिद्ध कर दिया। देशमें भभकती हुई साम्प्रदायिकताकी आगकी शांतिके लिये कदाचित् स्वयं राष्ट्रपिताकी बलि अपेक्षित थी। अब तो यह द्वेषाग्नि शांत हो।

बापूके बलिदानके बाद देशमें जो कुछ हुआ है वह सभी कुछ अमृतपूर्व है। बलिदान—दिवससे आजतक इस महान राष्ट्रने ही नहीं अन्य राष्ट्रोंने भी 'हाय बापू' कहकर जितने ठंडे सांस लिए उतने इससे पहले काहेको कभी किसी बड़ीसे बड़ी विभूतिकी यादमें भी लिए गये होंगे ! यमुना तटपरका दाह-करण-संस्कार, गांगा, यमुना तथा सरस्वतीके संगममें बापूकी अस्थियोंका प्रवाह और देश भरकी सभी पवित्र नदि-

योंका बापूके भस्मका अधिकारी होना हमें भगवान बुद्धके अंतिम संस्कारकी याद दिलाता है। पाली वाङ्मयमें वह इस प्रकार दर्ज है:—

## १ अन्तिम वचन

‘तब भगवानने आयुष्मान आनन्दसे कहा—‘आनन्द ! शायद तुमको ऐसा हो—(१) अतीत-शास्ता (=चले गये गुरु) का यह उपदेश है, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनन्द इसे ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय विहित किये हैं मेरे बाद वही तुम्हारे शास्ता (=गुरु) हैं।... (२) इच्छा होनेपर संघ मेरे बाद छोटे मोटे भिक्षु नियमोंको छोड़ दे सकता है।’

तब भगवानने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—‘भिक्षुओ ! यदि बुद्ध, धर्म, संघमें एक भिक्षुको भी कुछ शंका हो, तो पूछ लो। भिक्षुओ ! पीछे अफसोस मत करना—‘शास्ता हमारे सम्मुख थे किन्तु हम भगवानके सामने कुछ पूछ न सके।’

किसी एक भी भिक्षुको कोई शंका न थी। तब भगवानने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—हन्त ! भिक्षुओ अब तुम्हें कहता हूँ। सभी संस्कार नाशवान हैं। अप्रमादके साथ (=आलस्यरहित होकर) जीवनके लक्ष्यको प्राप्त करो—यही तथागतके अंतिम वचन हैं।

## २ निर्वाण

तब भगवान प्रथम ध्यानको प्राप्त हुए। प्रथम ध्यानसे उठकर द्वितीय ध्यानको प्राप्त हुए।...चतुर्थ ध्यानसे उठनेके अनंतर भगवान परिनिर्वाणको प्राप्त हुए। भगवानके परिनिर्वाण होनेपर निर्वाण होनेके साथ शोषण, लोम-हर्षण भूचाल हुआ। देव दुंदुभियां वजीं, उस समय ब्रह्माने कहा—

‘संसारके सभी प्राणी जीवनसे गिरेंगे। जब कि लोकमें ऐसे बल प्राप्त अद्वितीय पुरुष, तथागत शास्ता, बुद्ध परिनिर्वाणको प्राप्त हुए।’

उस समय देवेन्द्र शंकरने कहा—‘अरे, संस्कार उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं। भगवानके परिनिर्वाण हो जानेपर जो अवीतराग भिक्षु थे, उनमें कोई बांह पकड़कर क्रन्दन करते थे, कटे वृक्ष के सदृश गिरते थे, धरतीपर लोटते थे—भगवान बहुत

महाप्रयाण

जल्दी परिनिवृत्त हो गये । किन्तु जो वीतराग भिन्नु थे वह स्मृतसम्प्रजन्यके साथ स्वीकार करते थे—‘संस्कार अनित्य हैं, (-वियोग न हो ) यह कहां मिलेगा ?’

तब आयुष्मान अनुरुद्धने भिक्षुओंसे कहा—

‘नहीं आबुसो ! शोक मत करो, रोदन मत करो ।

भगवानने तो आबुसो ! यह पहिले ही कह दिया है—

‘सभी प्रियोंसे जुदाई होनी है ।’

आयुष्मान अनुरुद्ध और आयुष्मान आनन्दने वह बाकी रात धर्म कथामें बिताई । तब आयुष्मान अनुरुद्धने आयुष्मान आनन्दसे कहा—

‘जाओ, आयुस आनन्द ! कुसीनारामें जाकर, कुसीनाराके मल्लोंसे कहो—  
‘वाशिष्ठो ! भगवान परिनिवृत्त हो गये अब जो तुम्हें करना उचित लगे वह करो ।’

‘अच्छा भन्ते !’ कह आयुष्मान आनन्द कुसीनारामें प्रविष्ट हुए । उस समय किसी कामसे कुसीनाराके मल्ल, संस्थागार (=प्रजातन्त्र सभाभवन) में जमा थे । आयुष्मान आनन्द वहीं जाकर बोले—

‘वाशिष्ठो ! भगवान परिनिवृत्त हो गये अब जो तुम्हें करना उचित लगे वह करो ।’

आयुष्मान आनन्दसे यह सुना तो मल्ल, मल्ल पुत्र, बधुएं, मल्ल-भार्याएं दुःखित हो क्रन्दन करने लगीं । कोई केशोंको बिखेरकर रोती थीं, बांह पकड़कर रोती थीं, कटे वृक्षकी भांति गिरती थीं, धरतीपर लुण्ठित होती थीं—बड़ी जल्दी भगवानका निर्वाण हुआ, बड़ी जल्दी सुगतका निर्वाण हुआ, बड़ी जल्दी लोक नेत्र अन्तर्धान हो गये ।

तब कुसीनाराके मल्लोंने पुरुषोंको आज्ञा दी—‘तो भणे ! कुसीनाराकी सभी प्रकारकी गन्ध मालाएं आर सभी वाद्योंको जमा करो ।’

तब कुसीनाराके मल्ल गन्धमाला, सभी वाद्यों और पांच हजार धान-जोड़ोंको लेकर जहां उप-वस्तन था, जहां भगवानका शरीर था, वहां गये । जाकर उन्होंने भगवानके शरीरको नृत्य, गीत, वाद्य, माला गन्धसे सत्कार करते पूजते कपड़ेका मण्डप बनाते दिन बिता दिया । तब कुसीनाराके मल्लोंके मनमें आया—भगवानके शरीरके

दाह करनेको आज बहुत विकाल हो गया । अब कल भगवानके शरीरका दाह करेंगे । इस प्रकार कुसीनाराके मल्ल सात दिनतक भगवानके शरीरकी सत्कार पूजा ही करते रहे । सात दिनके बाद कुसीनाराके मल्लोंने नगरसे उत्तर-उत्तरमें ले जाकर जहां मुकुट-बन्धन नागक मल्लोंका चैत्य था, वहां भगवानका शरीर रखा । तब कुसीनाराके मल्लोंने आयुष्मान आनन्दसे पूछा—

‘भन्ते आनन्द ! हम तथागतके शरीरको कैसे करें ?’

‘वाशिष्ठो ! जैसे चक्रवर्ती राजाके शरीरको करते हैं वैसे ही उनके शरीरको करना चाहिये ।’

‘कैसे भन्ते ! चक्रवर्ती राजाके शरीरको करते हैं ।’

‘वाशिष्ठो ! चक्रवर्ती राजाके शरीरको नये वस्त्रसे लपेटते हैं, नये वस्त्रसे लपेटकर धुनी रुईसे लपेटकर नये वस्त्रसे लपेटते हैं । इस प्रकार लपेटकर तेलकी लोह द्रोणी (=दोन) में रखकर दूसरी लोह द्रोणीसे ढांककर, सभी सुगन्धित लकड़ियोंकी चिता बनाकर राजा चक्रवर्तीके शरीर को जलाते हैं, जलाकर बड़े चौरस्तेपर राजा चक्रवर्तीका स्तूप बनाते हैं । हमें भी तथागतका स्तूप बनवाना चाहिये । वहां जो माला, गन्ध या चूर्ण चढ़ायेंगे, या अभिनन्द करेंगे, या चित्तको प्रसन्न करेंगे, उनके लिए वह चिरकाल हित-सुखके लिए होगा ।’

तब कुसीनाराके मल्लोंने भगवानके शरीरको कोरे वस्त्रसे लपेटा । कोरे वस्त्रसे लपेटकर धुनी रुईसे लपेटा, धुनी रुईसे लपेटकर कोरे वस्त्रसे लपेटा फिर तांबे (=लोहे) की तेलवाली कढ़ाईमें रख ( =चन्दन आदि ) सुगन्धित काष्ठोंकी चिता बनाकर भगवानके शरीरको चितापर रक्खा ।

×

×

×

तब आयुष्मान महाकाश्यपने जहां मल्लोंका मुकुटबन्धन नामक चैत्य था, जहां भगवानकी चिता थी, वहां पहुंचकर चीवरको एक कन्धेपर कर अंजलि जोड़ तीन बार चिताकी परिक्रमा कर सिरसे वन्दना की । पांच सौ भिक्षुओंने भी एक कन्धेपर चीवर कर हाथ जोड़ तीन बार चिताकी प्रदक्षिणा कर भगवानके चरणोंमें सिरसे वन्दना की ।

### ३. दाहक्रिया

आयुष्मान महाकाश्यप और उन पांच सौ भिक्षुओंके वन्दना कर लेते ही भगवानकी चित्ता स्वयं जल उठी। भगवानके शरीरकी जो झिल्ली या चर्म मांस, नस या चर्बी थी, उनकी न राख जान पड़ी, न कोयला, सिर्फ अस्थियां ही बाकी रह गयीं, जैसे कि जलते हुए घी या तेलकी न राख (=छरिका जान पड़ती है न कोयला (=मसी))। भगवानके शरीरके दग्ध हो जानेपर मेघने प्रादुर्भूत हो आकाशसे भगवानकी चिताको ठण्डा किया। कुसीनाराके मल्लोंने भी सर्वगन्धमिश्रित जलसे भगवानकी चिताको ठण्डा किया।

तब कुसीनाराके मल्लोंने भगवानकी अस्थियोंको सप्ताह भर संस्थागारमें रख उनकी पूजा की।

### ४. स्तूपनिर्माण

राजा मागध अजातशत्रु वैदेही पुत्रने सुना 'भगवान कुसीनारामें परिनिर्वाणको प्राप्त हुए।' राजा मागध अजातशत्रु वैदेही पुत्रने कुसीनाराके मल्लोंके पास दूत भेजा—'भगवान भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ; भगवानकी अस्थियोंमें मेरा भी उचित हिस्सा है। मैं भी भगवानकी अस्थियोंपर 'स्तूप बनाऊंगा और पूजा करूंगा।'।

वैशालीके लिच्छवियोंने सुना०।

कपिलवस्तुके शाक्योंने सुना०।

अल्लकप्पके बुद्धियोंने सुना०।

रामग्रामके कोलियोंने सुना०।

वेठ दीपके ब्राह्मणोंने सुना०।

पावाके मल्लोंने भी सुना०।

ऐसा कहनेपर कुसीनाराके मल्लोंने उन संघों और गणोंसे कहा—'भगवान हमारे ग्राम क्षेत्रमें परिनिवृत्त हुए, हम भगवानकी अस्थियोंका भाग नहीं देंगे।'।

उनके ऐसा कहनेपर द्रोण ब्राह्मणने उन संघों और गणोंसे कहा—

'आप सब मेरी एक बात सुनें। हमारे बुद्ध क्षमावादी थे। यह ठीक नहीं

कि उन उत्तम पुरुष की अस्थियां बांटनेमें मारपीट हो, आप सभी एक मत होकर आठ भाग करें, दिशाओंमें स्तूपोंका विस्तार हो। बहुतसे लोग बुद्धमें प्रसन्न हों।'

'तो ब्राह्मण तू ही भगवानकी अस्थियोंको आठ समान भागोंमें सुविभक्त कर।'

'अच्छा भी ?' कह ब्राह्मणने भगवानकी अस्थियोंको आठ भागोंमें बांटकर उन संघोंसे निवेदन किया—'आप सब ये कुंभ ( घड़ा ) मुझे दें, मैं कुंभका स्तूप बनाऊंगा और पूजा करूंगा।'

उन्होंने द्रोण ब्राह्मणको कुंभ दे दिया।

पिप्पलिवनके मौर्योंने सुना।

'भगवानकी अस्थियोंका भाग नहीं है। भगवानकी अस्थियां बँट चुकीं। यहाँसे कोयला ले जाओ।'

वे वहाँसे कोयला ले गये।

राजा अजातशत्रुने राजगृहमें भगवानकी अस्थियोंका स्तूप बनाया और पूजा की।

वेशालीके लिच्छवियोंने भी०।

कपिलवस्तुके शाक्योंने भी०।

अलकपर्णके बुलियोंने भी०।

रामग्रामके कोलियोंने भी०

बेठ दीपके ब्राह्मणोंने भी०।

पावाके मल्लोंने भी०।

कुसीनाराके मल्लोंने भी०।

द्रोण ब्राह्मणने भी कुंभका०।

पिप्पलिवनके मौर्योंने भी कोयलेका०।

इस प्रकार चक्षुष्मान (=बुद्ध) का शरीर सुसंस्कृत हुआ। देवेन्द्रों, नगेन्द्रों, नरेन्द्रोंसे पूजित तथा श्रेष्ठ मनुष्योंसे पूजित हुआ, उसे हाथ जोड़कर वन्दना करो, सौ वत्समें भी बुद्ध होना दुर्लभ है।

काश ! चापूकी राखपर भी देशके कोने-कोनेमें स्तूप बनवा दिये जा सकते।



## गांधी-वाणी

मेरा जीवन खुली पुरतक है, उसमें कोई भेद नहीं और मैं रहस्यको प्रोत्साहन भी नहीं देता ।

आत्मानुभूति, आत्म-निरीक्षण और आत्मशुद्धिसे ही हमें प्रतिभा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, हमारी प्रतिष्ठा भी उसीसे बढ़ेगी और हम प्रगति कर सकेंगे ।

प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हिंसा क्षम्य नहीं ।

जो मनुष्य अपने मन के विकारों के अलावा दूसरी आपत्तियों का भय रखता है, वह अहिंसा का पालन नहीं कर सकता । इस कारण अभय देवी सम्पत्तियों में ऐसा गुण है जिसे पहले प्राप्त करना चाहिये ।

सारे संसार को भी प्रसन्न करनेके लिए मैं ईश्वरके साथ विश्वासघात न करूँगा । मैं तो काम करना पसन्द करता हूँ और आशावादी हूँ ।..मेरी आँखें बन्द हो जाने पर ही मेरे कार्य पर मत-प्रकाशन हो सकेगा । सत्यके अलावा मेरा कोई ईश्वर नहीं है ।

सच्ची सुन्दरता तो हृदय की पवित्रतामें है और इसलिए मैं ऐसी कला और ऐसा साहित्य चाहता हूँ जो करोड़ोंसे और करोड़ों की ओरसे बोल सके ।

मैं चाहता हूँ कि भारत यह अनुभव करे कि उसकी आत्मा अमर है; शारीरिक कमजोरियोंसे ऊँचे उठकर वह समस्त विश्वको अपनी आत्मिक प्रतिभा और अहिंसासे प्रभावित करदे ।

मैं तो आत्माकी अमरता पर विश्वास करता हूँ । जीवनके सागरमें हम सब बिन्दु मात्र हैं और जीवनकी वास्तविकता ही सत्य है — आत्मा है — परमात्मा है ।

अमर आत्मा, विश्व-विभूति और राष्ट्रके पिता की यह सन्त वाणी हमें उनकी आत्मा की अमरता का विश्वास दिलाये, जिनकी नश्वर देह अब तो भस्म होकर भारत माता की धूलि में मिल गयी !





ज्योति-पुञ्ज

# रोदन

अरे राम ! कैसे हम झेलें, अपनी लज्जा, उनका धोक,  
गये हमारे ही पापों से अपने राष्ट्र-पिता परलोक ।

—राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त

## गांधीमय जगत्

जहाँ जहाँ मैं हिन्दुस्तानके बाहर गया, चाहे यूरोपका कोई देश हो या चीन या कोई ओर देश, पहला प्रश्न मुझसे यही हुआ—“गांधी कैसे हैं ? अब क्या करते हैं ?” हर जगह गांधीजीका नाम पहुँचा था, गांधीजीकी प्रसिद्धि पहुँची थी। दुसरोँके लिए गांधी हिन्दुस्तान था और हिन्दुस्तान गांधी !

—जवाहरलाल नेहरू

### मानवता का पुजारी

टार्लसटायके बाद ही इतनी जल्दी जिस जमाने ने एक दूसरा महान् ‘मानवता का पुजारी’ पैदा किया है उसमें रहना कितना अच्छा है। अहा ! ये साधु-सन्त ये पैगम्बर और भक्तगण किस प्रकार घातावरणको स्वच्छ निर्मल बनाते हैं और आसपास फैले हुए ‘सघन तिमिर’ में प्रकाश चमकाते हैं।

ओलिव श्रीनरने अपने एक गद्यकाव्यमें ‘सत्यरूपी पक्षी’ की खोजमें प्रयत्नशील साधकका एक चित्र खींचा है। उसे उस पक्षीकी झलक एक बार दिखाई दी। उसकी तलाशमें वह पर्वत शिखर पहुँचता है, जहाँ जाकर उसका शरीर छूट जाता है। उसके हाथमें उस पक्षीका गिरा हुआ एक पंख है, जिसे छातीपर चिपकाए हुए वह साया है। गाँधीजी अपने जीवनकालमें जो संदेश हमारे लिए छोड़ रहे हैं, यह हमारे लिए ऐसा ही एक पंखा सिद्ध हो, और हम सचमुच बड़भागी होंगे अगर अपनी मृत्युके समय उसे अपनी छातीसे लगाए और अपनाए रहेंगे !

—हेनरी एस० एल० पीलक



# हिंद रो उठा

## श्री अरविन्द

जो प्रकाश स्वतंत्रता प्राप्तिमें हम लोगोंका नेतृत्व करता रहा वह ऐक्य प्राप्ति नहीं करा सका, परंतु वह प्रकाश बुझा नहीं है। वह अभी प्रज्वलित है और जबतक विजयो न हो जायगा, जलता ही रहेगा। मेरा विश्वास है कि इस देशका भविष्य अत्यन्त महान् है तथा यहाँ ऐक्य अवश्य स्थापित होगा। जिस शक्तिने इस संघर्ष कालमें भी हम लोगोंका नेतृत्व करके लोगोंको स्वतंत्रता प्राप्त करायी, वही शक्ति हमें उस लक्ष्यतक भी ले जायगी जिसके लिए महात्माजी अंत तक सचेष्ट रहे और जिसके कारण उन्हें दुर्घटनाका शिकार होना पड़ा। जिस प्रकार हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, उसी प्रकार हमें ऐक्य प्राप्तिमें भी सफलता मिलेगी। भारत स्वतंत्र और संघटित रहेगा। देशमें पूर्ण ऐक्य होगा तथा राष्ट्र अत्यन्त शक्तिशाली होगा।

## लार्ड माउण्ट बैटन, गवर्नर जनरल

हिंद में सदियों गांधीजीके समान कोई महापुरुष पुनः जन्म ले नहीं सकता। हमलोगोंको केवल एक यही संतोष है कि उनके सत्य, प्रेम और सहिष्णुताका सिद्धांत-संकटापन्न विश्वके उद्धार में सहायक होगा।

## पं० जवाहरलाल नेहरू, प्रधान मंत्री

हम तो केवल इतना जानते हैं कि एक विभूति ( गांधीजी ) थी, जो अब नहीं है। हम यही जानते हैं कि इस समय चारों ओर अंधकार है किंतु वह अंधकार पूर्ण घटाटोप नहीं है, क्योंकि जब हम अपने दिनोंको टटोलते हैं तो उनमें हमें एक ज्योति दिखाई देती है, जिसे उन्होंने जगाया था। यदि यह ज्योति जलती रही तो हमारे देशमें अंधकार नहीं होगा और हम सत्यन उनके मार्गका अनुसरण करते हुए तथा उन्हें स्मरण करते हुए इस देशको फिरसे देदीप्यमान कर देंगे। यद्यपि हम साधारण मनुष्य हैं किन्तु फिर भी हममें वह अनुरक्ति है जो उन्होंने हममें भरी थी।

महाप्रयाण

अतीत भारतके वे सबसे बड़े प्रतीक थे—मैं कहना चाहूँगा कि भावी-भारतके भी वे उतने ही बड़े प्रतीक रहेंगे !

### गोविन्दवल्लभ पन्त ( युक्तप्रांत मंत्री )

‘महात्मा गांधी इस युगके मसीहा थे। गांधीजीने भारतमें नवीन जान डाली और संसारमें पुनः एक बार भारतको सम्भावित स्थान दिखाया। गांधीजीने देशवासियोंको केवल स्वतन्त्रता ही नहीं दिखायी, बल्कि भारतवासियोंको सभ्यता और संस्कृतिके आधार भूत सिद्धान्तोंकी आर हमारा ध्यान आकर्षित किया। जनताको यह अनुभव करना चाहिये कि साम्प्रदायिकतासे भयंकर परिणाम निकलता है। मुझे आशा है कि जनता गांधीजीके सिद्धान्तोंको नहीं भूलेगी।

### आचार्य नरेंद्रदेव

जिस समय हमारे चारों ओर गहन अंधकार छाया हुआ था गांधीजीने हमें अमर प्रकाश प्रदान किया। जब हम अपनी परम्परासे गिरकर अधोगतिको प्राप्त हो चुके थे तो उन्होंने हमें अपनी नवीन आध्यात्मिक और सामाजिक मान्यताओं और आदर्शों से आलोकित किया। गांधीजी आज हमारे बीच नहीं हैं हमारा राष्ट्रीय प्रकाशस्तम्भ बुझ गया है। किन्तु यह समय रोनेका नहीं है। उनके आदर्श सदैव हमारा मार्ग प्रदर्शित करते रहेंगे। जिसके हृदयमें उनके लिए श्रद्धा है उनके लिए आज भी वे जीवित हैं।

हमारे सामने आज दो रास्ते खुले हैं एक विनाशका तथा दूसरा गांधीजी द्वारा दिखलाया गया कल्याणका प्रशस्त पथ, यदि हम गांधीजीकी हत्याका कत्तंक धोना चाहते हैं और संसारमें शानके साथ अपना अस्तित्व कायम रखना चाहते हैं तो हमें उन्हींके आदर्शोंपर चलना होगा। आज भले ही क्षाणिक शोक हम उनकी मृत्युपर मनाते किन्तु आगे गांधीजीकी मरण तिथि प्रेरणा प्रदान करनेवाला पुनीत पर्व होगा।

### श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

स्वतन्त्र-भारतकी महत्ता और महात्मा गांधीका व्यक्तित्व दोनों अभिन्न हैं। संसारके किसी कोनेमें जब भारतकी महत्ताका नाम लिया जायगा गांधीजीका नाम

भी साथ रहेगा। जिस हिन्दूने भ्रान्त हिन्दुत्वके पागलपनमें उनकी हत्याकी है उसने सबसे अधिक हानि हिंदुओंको ही पहुँचायो है।

### डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी

उनकी मृत्यु देश पर सबसे भारी आघात है। जिस व्यक्तिने भारतको स्वतन्त्र करके अपने पावों पर खड़ा किया, जो सबका मित्र था और किसीका भी शत्रु नहीं था, जिसे करोड़ों व्यक्ति प्रेम और आदर करते थे, उनका अपनीही जाति और अपने ही धर्मके एक कातिलके हाथों मारा जाना अत्यधिक लज्जा और दुखकी बात है। गांधीजो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका प्रभाव कभी नहीं मिटता बल्कि समय गुजरनेके साथ निरंतर बढ़ता जाता है। हत्यारेकी गोलीने महात्मा गांधीके नश्वर देहको ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म और भारतके हृदयोंको भी बीध डाला है जो कि केवल तभी जीवित रह सकते हैं जब कि लोग दृढ़ निश्चयके साथ ऐसे तरोकोंका अपनाया जाना असम्भव बना दें।

### सर्वपल्ली राधाकृष्णन

गांधीजीकी हत्याके समाचारसे हम स्तब्ध हो गये हैं। आवश्यकसनीय एवं अविचारणीय घटना घटित हो गयी है। हमारे युगके सर्वविशुद्ध, सर्वोन्नतकारी तथा सर्वोत्साहवर्धक राजका इस प्रकार एक विक्षिप्त व्यक्तिके क्रोधका शिकार होना भी विधिकी विडम्बना ही है। गांधीजी आज नहीं हैं पर सत्य एवं प्रेमकी देवी ज्योतिसे निस्सरित होनेवाला उनका प्रकाश कभी भी लुप्त नहीं सकता है। हिंसा, क्रूरता तथा अशान्तिके गर्तमें गिरनेसे बचानेका एक ही मार्ग—महात्मा गांधीके सिद्धान्तका अनुसरण करना है।

### श्रीमती नायडू (युक्तप्रांत गवर्नर)

गांधीजीकी अन्तिम क्रिया दिल्लीमें हुई ठीक ही हुआ। दिल्ली राजाओंका समाधिस्थल है और गांधीजी राजाओंमें भी राजा थे। वह सभी खोद्दाओंमें अग्र्यतम थे। वह बड़े क्रांतिकारी थे जिसने अपने देशको गुलाबीसे मुक्त किया और उसे स्वतन्त्रता प्रदान की।



## पाकिस्तान भी कराह उठा

लियाकत अली ख़ाँ

साम्प्रदायिक एकताके लिए गांधीजी ने जो प्रयत्न किये थे उनकी प्रत्येक शान्तिप्रिय सराहना करेगा ।

मियाँ इफ्तखारुद्दीन

महात्माजी को समाप्त करनेवाली पाशविक शक्तिका धोतबाछा रहेगा या उनकी आत्मा और जीवोंसे पशुवृत्तिका अन्त करेगी, यह अभी देखना है । यह बात हमारे प्रयत्नोंपर निर्भर करती है ।

सर जफरुल्ला

इस दुखान्त मृत्युसे भारत तथा पाकिस्तान दोनोंकी महान क्षति हुई है—सचमुच सारे संसारकी शान्ति स्थापनाके कार्यमें यह ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती । महात्मा गांधी करोड़ोंके प्रिय पात्र थे । जो उनका नाम सुनते थे उनके श्रद्धालु बन जाते थे । उनको महत्ताओंमेंसे एक यह बात थी कि वह दूसरोंके हृदय-को जीत लेते थे । यह प्रश्नसे बाहर था कि कोई उन्हें हानि पहुंचा सकता है । दुर्भाग्य तो यह है कि वह एक हत्यारेके हाथों मारे गये हैं । यह कहना तो मुश्किल है कि इस विपत्तिका क्या संकेत है, तथापि यह आशा और प्रार्थना तो की ही जाय कि इस बलिदान द्वारा महात्मा गांधीके उस कार्यमें प्रगति मिले जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन धरसर्ग किया ।

## श्री एच० एस० सुहरावदी

मुझे मालूम पड़ता है कि संसारका आधार ही टूट गया। अब कौन है जो पीड़ितोंकी आर्होंको कम करेगा उनके आँसुओंको पोंछेगा ? ओर कठिनाइयोंमें लोग किसकी ओर मार्गप्रदर्शन ओर सलाहके लिए देखेंगे ? निर्बल भारत रोओ, तबतक रोओ जबतक तुम्हारा हृदय टूक टूक न हो जाय क्योंकि वह प्रकाश बुझ गया जिससे सत्य और न्याय मानवताके प्रति प्रेम और असहायोंके प्रति सच्ची सहानुभूतिकी आशा निकली थी। हम उनकी शिक्षाओंका हृदयङ्गम करें और नरारयके बीच होते हुए भी शान्ति ओर प्रेमके उन उपदेशोंको कार्यान्वित करें जिनके लिए वे मरे। मुझे विश्वास है कि वे हमारे कार्योंको देख रहे हैं। हमें उनके इच्छित स्वप्नको पूर्ण करनेका प्रयत्न करना चाहिये।

## सर सुल्तान अहमद

गत २८ जनवरीको जब मैं महात्मा गांधीसे मिला तो मैंने उनसे कहा कि कृपया बिहारकी ओर ध्यान दीजिये, वह भी आपका अपना ही प्रांत है। इसपर महात्माजीने मुस्कराकर कहा—‘अच्छा तो आप मेरे प्रान्तमें जा रहे हैं, कृपया मेरी अपनी जनताके लिए यह सन्देश ले जाइये। बिहारके लोगोंसे कह दीजियेगा कि ‘मैं उन्हें नहीं भूला हूँ, और वे भी मुझे न भूलें। उन्होंने मुझसे अल्पसंख्यक सम्प्रदायोंकी रक्षा करनेके लिए प्रतिज्ञा की है। मैं फिर बिहार आऊँगा, पर नहीं जानता कि कब आऊँगा’ मुझे आश्चर्य मालूम होता है कि क्या महात्माजीने उस समय यह महसूस किया था कि बिहारके लिए यही उनका अन्तिम सन्देश है। साम्प्रदायिक प्रेम और सद्भावनाकी जो रोशनी उन्होंने जलाई वह अब हमारे हाथोंमें आयी है, और यदि हम ईमानदारी और हृदयके साथ यह रोशनी नगर-नगर और गाँव-गाँवमें जलायें तो इससे महात्माजीकी आत्माको शांति मिलेगी।’

## सर मोहम्मद सादुल्ला

गांधीजीके सत्याग्रहका-सा दृश्य हमें तेरह सौ वर्ष पूर्व जब मुहम्मद पैगम्बरने मक्काको सड़कोंपर नये इस्लाम धर्मका प्रचार किया, मिलता है। पैगम्बर साहबके इतिहासको जाननेवाले लोग इस तथ्यसे परिचित हैं। महात्मा गांधी अपनी

## महाप्रयाण

प्रार्थनाओंमें कुरानका भी जो पाठ कराते थे उससे उनका विशाल दृष्टिकोण, भारतके विभिन्न धर्मी लोगोंकी एकताका उनका सच्चा प्रयत्न प्रकट होता है। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके बताये रास्तेपर चलें।

### बेगम सोघरा जिमाँपू मिर्जा हैदराबाद

गांधीजी आधुनिक युगके भारतके ऋषि थे। उनकी मृत्युकी घटनासे देशके प्रत्येक जातिके व्यक्तिको बहुत दुःख हुआ है। वे शहीदोंकी मौत मरे। उनके प्रेमियों तथा भक्तोंको हिन्दू-मुस्लिम एकताके आदर्शका पालन करना चाहिये जिसके लिए उन्होंने बलिदान किया।

## सम्पूर्ण जगत की श्रद्धांजलि

लेक सक्सेस ( ३१ जनवरी )

यह सबसे पहला मौका था जब राष्ट्र संघ ( united Nations ) की पताका एक ऐसे व्यक्तिके लिए झुकायी गई जो न किसी राष्ट्रका अधिनायक था और न राष्ट्र संघका ही सदस्य था ।

राष्ट्रसंघके निर्णयानुसार लगातार तीन दिनों तक उसकी पताका झुका कर रखी गयी !

राष्ट्रसंघकी सुरक्षा समितिके अध्यक्ष ने कहा कि "हम जानते हैं इस दुर्घटना ( महात्मा गांधीका निधन ) के क्या माने हैं और विशेष कर भारतकी जनताके लिए सुरक्षा समिति की तरफ से भारतक प्रतिनिधि, उनकी सरकार और उनके पूरे राष्ट्रके प्रति अगाध सहानुभूति और शोक प्रकट करता हूँ ।

गांधीजी ने दुनियाका एक बहुत बड़ा सबक दिया है ।

कम लोग होंगे जिन्होंने अपने उच्च विचारोंके प्रति ऐसी निष्ठा रखी हो । इन विचारोंकी जयके हित उन्होंने अनेक बार अपने प्राणोंकी बाजी लगा दी थी ।

जिस अहिंसा सिद्धांतसे हमारा संघ प्रेरणा लेता है उसके गांधी प्रतीक थे । वे एकता, साहस्युता और बन्धुत्वके भी प्रतीक थे । इन्ही कारणोंसे हमारे बाद-विवाद में उनका अनेक बार नाम लिया गया । हमारे वे एक महान मित्र थे ।

गांधीकी मृत्युसे उनके महान कार्य खतम नहीं हो सकते ! वे संसारसे चले गये हैं, तथापि वे उसी प्रकार आदर्शके प्रतीक रहेंगे जैसे अपने जीवन काल में थे ! उनके मुक्तके लोग तथा विदेशोंके वे सब निधासी जिन्होंने अश्रुके साथ उनकी स्मृति मनायी है, उनके अहिंसा और ऐक्यके सिद्धांतोंके प्रति, जिनके लिए वे जीये और मरे, सच्चे बने रहेंगे ।

# अभूतपूर्व नेता

अलबर्ट आन्स्टीन

बुद्धि, विनम्रताका प्रतीक, मानवताका महान रक्षक, अपने देशका अकेला रहनुमा महात्मा गान्धीने अपने कार्योंसे सारे संसारको आश्चर्यमें डाल दिया है। उन्होंने सदैव हिंसाका विरोध किया और अहिंसाके बलपर अपने अभूतपूर्व संघर्षमें सफलता प्राप्त की। गांधीजीने अपने देशवासियोंकी उन्नतिमें सारा जीवन खपा दिया। यूरोपकी पाशविकतासे ऊपर उठकर शानदार विनम्र इन्सानकी भांति कार्य करके गांधीजी यूरोपके सब नेताओंसे आगे बढ़ गये।

प्रधान मन्त्री, एटली ( ब्रिटेन )

गांधीजी विश्वकी विभूतियोंमेंसे थे। वे युग-पुरुष थे। करोड़ों देशवासी उन्हें देवता मानते थे। हत्यारेके हाथोंने विश्वसे उस वाणीका अन्त कर दिया जो शान्ति तथा आनृतत्वको प्रेरणा दिया करती थी। इस अद्वितीय पुरुषके निधन पर भारत ही नहीं समस्त विश्व दुःखी होगा। मानवताके महान सेवकके प्रति हम श्रद्धा-सज्जलि देते हैं।

आयरके प्रधान मंत्री श्री डिवेलरा

मुझे गांधीजीकी दुःखद मृत्युके समाचारसे बड़ा शोक हुआ। मैं भारत सरकार तथा जनतासे हार्दिक समवेदना प्रकट करता हूँ। यह क्षति केवल भारतकी ही नहीं है, संसारने महान् नेता खो दिया। तथापि इस अपार क्षतिके बावजूद आशा है कि भारत गांधीजीके आदर्शोंपर अग्रसर होनेसे नहीं रुकेगा।

हमारी जनता भारतीयोंके इस दुर्भाग्यमें समवेदना प्रकट करती है।

## आस्ट्रेलियाके प्रधान मन्त्री

गांधीजीके निधनका समाचार सुनकर आस्ट्रेलियाकी सरकार तथा जनताको अत्यन्त दुःख हुआ। आस्ट्रेलिया सदैव उन्हें एक ऐसे पुरुषके रूपमें स्मरण करेगा जिन्होंने शान्ति तथा मानव हितके लिए आजीवन कार्य किया।

## दक्षिण अफ्रीकाके मन्त्री मार्शल स्मट्स

मैं और गांधीजी ४० वर्षोंतक मित्र रहे हैं। वह सदैव युक्तिसंगत और खुले तौरपर बातचीत करनेको तैयार रहते थे तथा शान्तिमय हलके लिए तैयार रहते थे। गांधीजी अपने पीछे अपनी ऐसी प्रतिष्ठा छोड़ गये हैं जो संसारके इतिहासमें अनुपम है। वे संसारके बेजोड़ नेता थे।

## राष्ट्रपति ट्रूमन ( अमेरिका )

महात्माजी अन्तर्राष्ट्रीय नेता थे। उनका जीवन तथा उनकी कृति उनका सबसे महान् स्मारक है। उनके कार्योंकी अमिट छाप करोड़ोंपर पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि मानवताके उद्धारके लिए जो कार्य गांधीजी करते रहे उन्हें भारतीय नेता अब भी अपना आदर्श रखेंगे। न केवल भारतीय वरंच उन सभीको, जो उनसे प्रभावित हों, चाहिये कि उनका पदानुसरण करें।

## आयरके प्रेसीडेंट सीन ओकैली


महात्मा गांधीको मृत्युसे भारत सरकार और जनतापर जो विपत्ति आयी है, उसमें मेरी हार्दिक समवेदना उन्तक पहुंचा दीजिये। आयरके लोग सब देशोंके स्वाधीनता-प्रेमियोंके साथ उस महात्माकी क्षतिपर शोक प्रकट करते हैं। प्रभुसे प्रार्थना है कि वह भारत और संसारको उदारता, भ्रातृत्व और शान्तिकी वह भावना दे जिसके लिए गांधीजीने आजीवन उद्योग किया।

## लियो ब्लूम ( फ्रांस समाजवादी )

पृथ्वी रो रही है। मैंने गांधीको कभी देखा नहीं। उनकी भाषा भी मैं नहीं जानता। उनके देशमें मैंने पाँधतक नहीं रखा है। फिर भी मेरा हृदय दुःखित है जैसे कि मेरा कोई अपना सगा सम्बन्धी मर गया हो।

## सेनापति जेनरल डगलस मैक आर्थर

आधुनिक संसारके इतिहासमें इस पूरानीय -यत्तिकी मूर्खतापूर्ण हत्यासे अधिक विद्रोहात्मक कोई घटना नहीं हुई है। दशकालकी परिस्थितिवश उनका मसारमें आगमन हुआ था। उनके गिद्दान्ताका, जिन्हे उन्होंने अनेक बार दुहराया है, देव मुखसे ही नकल मानना चाहिये। वे शान्ति के देवदूत थे। हिंसात्मक ढंगसे उनका मरण होना एक ऐसा विषय है जिसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। सभ्यताके विकासमें, यदि सभ्यताका टिकना है तो सर्वाका अन्तमें उनके इस विश्वासका मानना ही होगा कि किसी विवादास्पद विषयका अपने विचारानुकूल प्राप्त करनेके लिए सागू-हिंसाका प्रयोग करना केवल गलत ही नहीं है बल्कि उसमें आ मतिनाशका बीज भी निहित है गांधीजी उन पेंगम्बरोमें हैं जो समग्रसे बहुत ही आगे हैं।



## कौन नहीं राधा ?

ग.धीजीकी हत्याके दुःखद समाचारसे सारा जगत ही रो उठा था ! निःसंवेह गांधी जगत व्याप्त थे ! वे फेवल भारतके नहीं विश्व भरके अपने थे, और विश्व उनके लिए अपना था ! यही कारण है कि उनके निधन पर संसारके विभिन्न देशोंके हिंदू सरकार, प्रधान मंत्री तथा श्रीदेवदास गांधीके पास श्रद्धांजलियाँ भेजी गयीं ।

इन श्रद्धांजलियोंकी सूची इस प्रकार है:— अवीसीनिया (सम्र टू हेल्सिलासी); अफगानिस्तान ( प्रधान मन्त्री शाह महमूद ); अर्जेंटाइना ( डा० जासे आके ); आस्ट्रेलिया ( प्रधान मन्त्री श्री चीफले, डा० हरबर्ट इघाट ); बगदाद ( ब्रिटिश राजदूत, परराष्ट्र मन्त्री हामदी पचायी ); ब्राजील ( परराष्ट्र मंत्री ओर डा० अराहा ); बर्मा ( प्रधान मंत्री थाकिन नू, बर्मा यूनियनके प्रेसीडेंट ); काहिरा ( नहस के मौरतफा, वपद के अध्यक्ष ); कनाडा ( प्रधान मंत्री श्री मेकजी किंग ); लंका ( गवर्नर जनरल सर हेनरी मार्क मेसनमूर, प्रधान मंत्री सेनानायक ) चिली; ( प्रेसिडेंट कात्रियल ); चीन ( मार्शल चांग काई शेक और मैडम चांग काई शेक, प्रधान मंत्री चांग चुन ) ! कोलंबिया ( प्रेसिडेंट मरानोस्पिना बबर ); चेकोस्लोवाकिया ( स्थानापन्न प्रेसिडेंट डा० बेनस ); क्युबा ( प्रेसिडेंट ); डेन्मार्क ( प्रधान मंत्री ); मिस्र ( शाह फारक, प्रधान मंत्री नोकाशी पाशा, अरब लीगके सेक्रेटरी जनरल अब्जाम पाशा ); फिनलैंड ( प्रधान मंत्री ); फ्रांस ( प्रधान मंत्री शुमन, परराष्ट्र मंत्री विदो, लियोन ( ब्लूम ); जर्मन ( अमरीकी फौजी गवर्नर जनरल क्ले डा० क्लू शुमर ); यूनान ( नायब प्रधान मंत्री साल दारिस ); हवाई ( क्योना और हवाईके राजकुमार ); हिंदीशिया प्रेसिडेंट डा० सोकार्नो, गवर्नर जनरल वानचुक ); ईरान ( प्रधान मंत्री श्री हालिमी ); ईराक ( रोजेठ अमीर अब्दुल इल्हा, और परराष्ट्र मंत्री ); आयरलैंड ( प्रेसिडेंट और प्रधान मंत्री डी वेलेरा ); इटली ( पोप, परराष्ट्र मंत्री काउन्ट स्फोजी ); जापान ( सम्राट हिरो हिता, प्रधान मंत्री और जनरल मैकार्थर ); लबना ( प्रेसिडेंट ); लक्जेंबर्ग ( परराष्ट्र मंत्री ); मोरक्को ( सेक्रेटरी जनरल अब्दमद बलारेज ); नेपाल



## महाप्रथाया

( नेपाल नरेश ) ; नेदरलैंडस ( प्रधान मंत्री डा० बील ) ; न्यूजीलैंड ( प्रधान मंत्री श्री पीटर फ्रेजर ) ; नार्वे ( प्रेसीडेंट तथा परराष्ट्र मंत्री ) ; फिलस्तीन ( यहूदी जनरल कौंसिलके प्रेसीडेंट ) ; फिलिपाइन ( प्रेसीडेंट ) ; पौलैंड ( परराष्ट्र मंत्री ) ; पुर्तगाल ( प्रेसीडेंट और प्रधान मंत्री ) ; सैन मैरिनो ( परराष्ट्र मंत्री ) ; साइचिलेस ( गवर्नर ) ; सोमालीलैंड ( ब्रिटिश सुल्तान अचिदल्लाही डेरिन वहर्जेइका ) दक्षिण अफ्रीका ( जनरल स्मट्स ) ; दक्षिणी रोडेशिया ( प्रधान मंत्री ) ; सूदान ( गवर्नर जनरल ) ; स्विटजरलैंड ( प्रेसीडेंट और अन्तरराष्ट्रीय मजदूर संघके डाइरेक्टर जनरल ) ; स्वीडन ( प्रधान मंत्री ) ; शाम ( कौंसिलके प्रेसीडेंट और परराष्ट्र मंत्री ) ; तिब्बत ( दत्ताई लामा और रोजेंट ) ; तुर्की कौंसिल और असेम्बलीके प्रेसीडेंट ) ; युगान्डा ( गवर्नर ) ; ब्रिटेन ( सम्राट, प्रधान मंत्री, एटली, नायब प्रधान मंत्री मारिसन श्री बेबिन, केन्टरबरीके बिशप, श्री चर्चिल ) ; अमरीका ( प्रेसीडेंट ट्रूमन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री फ्रोलिक्स फ्रैंक फर्टर, सिनेटर वाडेनबर्ग ) संयुक्तराष्ट्र ( सुरक्षा समितिके अध्यक्ष श्रीलैगन होव, स्थानापन्न सेक्रेटरी जनरल वायन ब्राइसजूलियन हक्सले ) ; जंजीबार ( ब्रिटिश रेजीडेंट ) ।

# विश्व भरके पत्रोंकी श्रद्धांजलियाँ

## नव-जीवन

हे बापू तुम्हें अपने कोटि-कोटि जनोके प्रेमकी, ममताकी श्रद्धांजलि स्वीकार हो !

हे महात्मा, तुमने अपनी साधना और तपस्याके बलसे जिस गुलाम देशको अनायास ही स्वतंत्र कर दिया, जिस कायर, निर्बल और संतप्त राष्ट्रको उन्नत बनाया, जिस छूआछूत और पाशविकताके बंधनोंसे जकड़ी हुई जातिको आदर्शवादकी ओर अग्रसर किया, उस देश, राष्ट्र और जातिका तुम्हें शत-शत बार प्रणाम है !

हे विश्वात्मा जिस हिंसा और दानवतासे पीड़ित एवं संतप्त विश्वको तुमने अहिंसा और मानवताका वरदान दिया, जिस विनाशकी ओर अग्रसर शोषण एवं उत्पीड़नकी संस्कृतिको तुमने कल्याणकारी निर्माणका संदेश दिया, जिस अनीश्वरवाद और भौतिकताकी मृगतृष्णामें संतप्त सभ्यताको तुमने नैतिकता और विश्वासका मार्ग दिखलाया वह विश्व, संस्कृति और सभ्यता आज नतमस्तक तुम्हारा अभिनन्दन कर रहे हैं ।

तुम्हारे पुण्य-तेजसे त्रस्त विश्वकी पशुताने तुम्हारे ऊपर प्रहार करके तुम्हारे पार्थिव शरीरको नष्ट कर दिया, लेकिन वह पशुता यह भूल गयी कि तुम अजर हो, तुम अमर हो, तुम असीम हो, तुम अखण्ड हो ।

हमें बंधन-मुक्त करनेके लिए ही हे परमपुरुष तुम पार्थिव शरीरके बंधनमें आये थे । तुमने अपना काम कर दिया और तुम बंधन-मुक्त हो गये । लेकिन तुम सदा अपने भक्तोंके पास हो—हे विश्वात्मा हम तुम्हारे भक्त अपनी आत्मामें तुम्हारा आवाहन करते हैं ।

सागरकी भांति गम्भीर; हिमालयकी भांति अडिग—तुम इस असत्य और स्वार्थके अंधकारमें डूबे हुए विश्वके लिए सत्य और ममताके उज्ज्वल प्रकाश थे, तुम

## महाप्रथाण

निर्बलों, निरीहों और पतितोंके एकमात्र अवलम्ब थे। आज हमारे बीचसे तुम्हारे चले जानेसे हम हत-प्रभ हैं, विक्षुब्ध हैं, किंकतव्य विमूढ़ हैं। आज जब इस नवजात राष्ट्रको तुम्हारे उपदेशों और निर्देशनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, हमारे पापोंके कारण हमारे सर परसे तुम्हारा वरद हस्त अनायास ही लुठ गया है। तुम दयाके आगार हो, तुम प्रेमकी अखण्ड ज्योति हो- हम रो-रोकर तुमसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे पापोंको क्षमा करो, अपनी ही हत्या करने वाले इस राष्ट्रको अपना आशीर्वाद दो कि वह तुम्हारी अहिंसा और मानवताको अपनावे।

हे बापू—हे महात्मा—हे विश्वात्मा हमारा कल्याण करो !

## न्यूयार्क टाइम्स

आज शमशानकी राखमें उड़कर एक गंध समस्त भूमण्डलोंमें व्याप्त हो गयी है। नहीं कहा जा सकता कि गांधीजीकी शिक्षाओं तथा आदर्शके बीजसे अगले पीढ़ीमें कैसे फूल फूलेंगे। भारत अभी तक प्रकाश तथा अंधकारकी शक्तियोंके मध्य भटक रहा है। आज महात्माजीकी अमर आत्मा समस्त भारत और समस्त संसारसे बोल रही है। गांधीजीका महात्माका स्वरूप भारतके मैदानों और पर्वतोंपर ही नहीं समस्त भूमण्डलमें चिरस्मरणीय रहेगा। जिस प्रकार अन्य व्यक्ति दुनियाकी चीजों और शक्तिके लिए ली जानसे प्रयत्न करते हैं, गांधीजीने पूर्णताके लिये चेष्टा की। जैसे जैसे गांधीजीका राजनीतिक प्रभाव घटता गया वैसे-वैसे उनकी लोक कल्याणकी शक्ति बढ़ती गयी। उन्होंने बाइबिलकी भावनामें अपने शत्रुओंसे प्रेम करनेका प्रयत्न किया और उनका भला करनेकी चेष्टा की। अब वे युग पुरुष हैं। अब तो यह जान पड़ता है, जैसा एक बार डा० जानहैन्सने लिखा था, कि गांधीजी मानवीय जीवनके कपड़ेपर सुनहरे तारके टाँकाँकी निरंतर आगे बढ़नेवाले उन सन्तों तथा द्रष्टाओंकी पंक्तिके एक जोड़ थे, जो यह कहते आये हैं कि मनुष्यकी आत्मा परमात्माकी ही तरह अपने लक्ष्यकी प्राप्ति करके जीवनको पूर्ण बना सकती है।

## वाशिंगटन पोस्ट

जिस प्रकार एक अन्य महान् अमरीकीके संबंधमें कहा जाता था, जिसने अपने अनुयायियोंके मतभेदोंको मिटानेके लिए महान प्रयत्न किया था, उसी प्रकार गांधीजीके संबन्धमें कहा जा सकता है। अब वे युग पुरुष हैं। हमें आशा करनी

चाहिये कि मोहनदास गांधी भारतीय राष्ट्रके लिए अपनी जो अमर विचारधारा विरासतके रूपमें छोड़ गये हैं वह उसके उन्मादपर विजय प्राप्त कर सकेगी। अब वह विश्वव्यापी विचारधारा है। यदि इस विश्लेषणको अन्ततक ले जाया जाय तो कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण संसार अपनी मुक्ति और नवजीवनके संचारके लिए इसी विचारधारापर निर्भर रहेगा।

### वाल्टीमारसन

भारतने शांति और एकताके लिए अपने बंधनको अपनी आत्माको छिन्न-भिन्न कर दिया। यदि इसे दीर्घकालके लिए सत्य माना जाय तो यही कहा जा सकता है कि भारतमें अभी अधिक हिंसा और यातना देखनेमें आयेगी, किंतु गांधीजी और उनके उपदेश अनश्वर रहेंगे। विजयिनि साम्प्रदायिकतासे सन्तों का भी प्राणान्त हुआ है।

### कम्युनिस्ट 'डिली' वर्कर

गांधीजीकी मृत्युसे मानवताको धक्का लगा है। यदि आज गांधीजीके शवके ऊपर भी भारतीय एकहो सकें तो भारतकी उन्नतिका द्वार खुल जायगा। ब्रिटिश सरकारने भारतमें जो साम्प्रदायिकता उत्पन्न की है वह तो अपने फल लायेगी ही।

### वामपत्र फ्रांटेरियट

हमारे युगने यदि एक ओर महा दैत्य हिटलरको देखा है तो दूसरी ओर गांधीके रूपमें वह शाश्वत ज्योति भी देखी है जो हिंसा, घृणा, और नृशंसताके करोड़ों धक्के खाकर आज तक न बुझी और जिसे एक पागल व्यक्तिकी गोळियोंने समाप्त कर दिया। हा हन्त !

### वार्शिगटन, 'लाइफ'

भारत महात्माजीकी महानताके संबंधमें अंतिम फैसला नहीं दे सकता। सभी कालोंमें, सभी राष्ट्रोंके मनुष्योंको उनसे जो अपार भ्रंशण मिलती रहेगी वसीके आधारपर हम गांधीजी जैसे महान व्यक्तिकी महानताका अंदाज लगानेमें सफल हो सकेंगे।

## महाप्रयाण

गांधीजी न केवल एक महान व्यक्ति थे बल्कि एक विश्व-साधु थे। एक ऐसे संत थे जो कि युगोंसे पश्चिमी संसारमें पदा नहीं हुआ।

### बोस्टन ग्लोब ( बोस्टन )

सुकरात को जहर, ईसा को सूली और गांधी को गोली का शिकार बनना पड़ा ! अपने जीवन काल में महात्मा गांधी एक संत थे। मरकर वे शहीद हो गये !

उनकी मृत्यु किसी मुसलमानके हाथसे भी नहीं हुई। लेकिन वे अपने ही आदिमियोंमें से एक हिन्दू द्वारा, जिन्हें उन्होंने राजनैतिक स्वतंत्रता दिलाई, मारे गये ! अहिंसा का यह एक वैचित्र्य है कि उसके प्रवर्तकों का अन्त हिंसासे होता है।

लेकिन गांधीके हिंसात्मक अंतमें उन्हें ही आश्चर्य हांगा जो मानवके कल्याणकर्त्ताओंके इतिहाससे परिचित नहीं हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस बीसवीं सदीमें एक ऐसा आदमी भी था ! जघन्य हत्या, राजनैतिक स्पर्धा और सैनिकीकरणके इस युगमें गांधीने लोगों को प्रेम, शांति, दया, सार्वत्र्य और पारस्परिक सहयोग का पाठ पढ़ाया !

### इंगलिश चर्च मैग ( लन्दन )

महात्मा गांधीकी हत्यासे सारे संसार को बहुत धक्का लगा है। निःसन्देह गांधीजी का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। कई पीढ़ियोंके बाद हिन्दुस्तानमें ऐसे व्यक्तिने जन्म लिया था। मानव समाजके तमाम दुर्गुणों- राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक का हल वे 'अहिंसा' के द्वारा करना चाहते थे। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि ऐसे व्यक्ति को स्वयं हिंसा का शिकार होना पड़ा।

### आब्जर्वेटोर रोमानो ( वैटिकन सिटी )

इस समय जब हमारी सभ्यता खतरेमें पड़ी हुई है गांधीजीके निधनसे चारों ओर अंधेरा छा गया है। ऐसा जान पड़ता है कि इस शान्तिप्रिय व्यक्तिकी हत्या विश्वशान्तिपर ही प्रहार है।

हत्कारे बहुधा यह सोचते हैं कि व्यक्ति विशेषको मार डालनेसे उसके विचारोंका भी अन्त हो जाता है। परन्तु वास्तवमें हत्याके बाद विचार और अधिक चमक उठते हैं। इसकी सत्यता सार संसारमें गांधीजीके निधनपर मनाये गये शोकसे सिद्ध होती है।

# अन्तिम लीला

## गांधीजीकी जीवन भांकी

२ अक्टूबर, १८६६—पोरबंदर (सुदामापुरी) के एक प्रतिष्ठित वैश्य-कुलमें जन्म

१८८३-१३ वर्षकी अवस्थामें कस्तूर बाईसे विवाह

४ सितम्बर १८८८—बैरिस्टरी पढ़नेके लिये इंग्लैंड रवाना ।

१० जून १८९१—बैरिस्टर हुए । १२ जूनको स्वदेश रवाना हुए । जुलाईमें बम्बई पहुँचे ।

अप्रैल १८९३—पोरबंदरकी एक मुसलिम फर्मकी ओरसे दक्षिण अफ्रीकाको रवाना

११ सितम्बर १९०६—द्रांसवालमें सत्याग्रहके रूपमें राजनीतिक प्रति-रोधकी एक नयी युद्ध-प्रणालीका जन्म

१९१५—दक्षिण अफ्रीकाका विजयी नेता स्वदेश वापस

अप्रैल १९१९—रोलट बिलके विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलनका सूत्रपात ।

३१ जुलाई १९२०—रोलट बिल, पंजाब कांड और खिलाफतके प्रश्नपर असहयोग आंदोलनका सूत्रपात ।

१० मार्च, १९२२—गांधीजीकी गिरफ्तारी तथा अहमदाबादमें ऐतिहासिक मुकदमा

१९२३—१२ जनवरीका पेटके फाड़ेका आपरेशन । आपरेशनके समय बिजली बुझ गयी, सार्जनने टाचकी रोशनीमें आपरेशन किया । १८ फरवरीका बिला शर्त रिहाई ।

१८ सितम्बर, १९२४—हिंदू-मुसलिम एकताके लिये दिल्लीमें २१ दिनका उपवास

१२ मार्च १९३०—दांडी-यात्रासे नमक सत्याग्रहका सूत्रपात

५ मार्च १९३१—गांधी अर्बिन समझौता अगस्तमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलनमें भाग लेनेके लिये लंदन रवाना ।

३१ दिसम्बर, १९३१—तीसरे सत्याग्रह संग्रामका सूत्रपात

२२ दिसम्बर, १९३२—मकडानारुद्ध के साम्प्रदायिक निर्णयके विरुद्ध आमरण अनशन

१५३४—सारा समय हरिजनौद्धारमें लगानेका निश्चय ।

३ मार्च १९३६—राजकोटके प्रश्नपर आमरण अनशन । बादमें अपनी हिमालय जैंगो भूल स्वीकार की ।

अक्टूबर १९४०—युद्धके संबंधमें लेखन तथा भाषण स्वतंत्रताके प्रश्नपर व्यक्तिगत सत्याग्रहका अधिनायक बने ।

८ अगस्त १९४२—भारत छोड़ोके आंदोलनका सूत्रपात ।

१० फरवरी १९४३—आगा खां महलमें नजरबंदीकी हालतमें ३ सप्ताहका उपवास

२२ फरवरी १९४४—फरसूरवाका निधन

१९४५—शांतिका संदेश लेकर नोआखालीके गांवोंमें पैदल यात्रा

१ सितम्बर १९४७—कलकत्तामें साम्प्रदायिक एकताके लिये अनशन

१३ जनवरी १९४८—दिल्लीमें साम्प्रदायिक एकताके लिये अनिश्चित कालका अनशन

३० जनवरी १९४८—प्रार्थना सभा करते समय एक पागल भाईके हाथ गोली खाकर देहांत ।

## बापू का अन्तिम उपवास—

क्यों !

हिन्दू मुसलमानों और सिखों में हार्दिक मैत्री स्थापित करनेके लिए १३ जनवरी १९४८ को बापूने उपवास आरंभ किया था। यह उपवास अनिश्चित काल तकके लिए किया गया था। गांधीजी ने कहा था 'उपवास तभी खतम होगा जबकि मुझे यह निश्चय हो जायगाकि सभी सम्प्रदायोंके हृदय बिना किसी बाहरी दबावके स्वतः मिल गये हैं।' १८ ता० को देशके सम्पूर्ण नेताओंसे मन के मुताबिक आश्वासन मिलने पर यह उपवास तोड़ दिया गया था।

अपने राजनैतिक जीवनमें गांधीजीका यह १५ वां उपवास था। इस उपवासके आरम्भ करनेसे पूर्व १२ ता० को गांधीजीने उसके लक्ष्यके बारेमें उस दिनकी प्रार्थना-सभामें निम्नलिखित वक्तव्य दिया था :—

कुछ लोग स्वास्थ्य लाभकी दृष्टिसे अनशन करते हैं तथा कुछ लोग किन्हीं दुष्कर्मोंके प्रायश्चित्तके लिए अनशन करते हैं। इन लोगोंके लिए अहिंसामें विश्वास करना आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और स्थिति है, जब अनशन किया जाता है। वह अनशन अहिंसक समाजके दुष्कर्मके विरोधमें ऐसी स्थितिमें बाध्य होकर करता है जबकि उसके लिए कोई अन्य चारा नहीं बच रहता है। आज हमारे सम्मुख ऐसी ही स्थिति उपस्थित हो गयी है।

करो या मरो को तैयार

जब मैं रात ९ सितम्बरको कलकत्तेसे दिल्ली आया तो मेरी इच्छा पश्चिमी पंजाब जानेकी थी। परन्तु वह सम्भव न हो सका क्योंकि दिल्ली सरीखा सम्पन्न नगर उस समय लश्कोंसे भर रहा था। मैं ज्योंही ट्रेनसे उतरा मुझे हर व्यक्तिके चेहरेपर चिन्ता दिखलाई पड़ती थी। सरदार सरीखे आमोदप्रिय व्यक्ति भी चिन्तासे मुक्त न थे। मुझे उसका कारण ज्ञात न था। वे मेरे स्वागतके लिए स्तेदान गये थे।



## महाप्रथाण

उन्होंने मुझे तुरंत ही हिन्दू यूनिनयनकी राजधानीके उपद्रवका समाचार सुनाया। तुरंत मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मुझे दिल्लीमें ही रहना होगा और 'करो या मरो' सिद्धान्तको कार्यान्वित करना होगा।

पुलिस तथा सेनाकी सहायतासे नगरमें पूर्ण बाह्य शान्ति तो स्थापित हो गयी है, परन्तु लोगोंका हृदय अब भी उद्वेलित हो रहा है। उनके हृदयमें आज जो तूफान उठ रहा है वह कभी भी बाहर प्रकट हो सकता है। मैं इसे ही अपनी लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता। शान्ति ही मुझे जीवित रख सकती है। मैं हिन्दू, मुसलमान, सिख सभीमें पूर्ण मैत्री चाहता हूँ। आज उस मैत्रीका पूर्ण अभाव है। ऐसी स्थिति कोई भी देशभक्त सहन नहीं कर सकता।

### अनशन अन्तिम अस्त्र

मेरी अन्तरात्मा कभीसे मुझे पुकार रही थी। परन्तु मैंने उधरसे अपना कान बन्द कर रखा था। मैं सोचता था कि कहीं शैतान मुझे आदेश न दे रहा हो। उसके आदेशका पालन मेरी दुर्बलता होगी। मैं कभी भी निस्सहाय नहीं होना चाहता। किसी सत्याग्रही को ता कभी भी अपनेको निस्सहाय न मानना चाहिये। सत्याग्रहीके लिए अन्तिम अस्त्र तलवार नहीं है, वरन् अनशन ही है।

### अनशन मंगलवारसे आरम्भ

आज मेरे पास उन मुसलमानोंके लिए कोई उत्तर नहीं जो प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मैं बताऊँ कि वे क्या करें। मुझमें पहलेसे दुर्बलता आती जा रही थी, पर अनशन आरम्भ होते ही यह समाप्त हो जायगी। मैं इस सम्बन्धमें गत कई दिनोंसे सोच रहा था। आज मेरी अन्तरात्माने अन्तिम निर्णय दे दिया। इससे मुझे प्रसन्नता है। किसी भी पवित्र आत्माके लिए ऐसे महान् उद्देश्यकी पूर्तिमें अपने प्राणोंका बलिदान कर देनेसे मूल्यवान् अन्य कोई चीज नहीं। मैं आशा करता हूँ कि मेरी आत्मा पवित्र है और वह इसका औचित्य सिद्ध कर सकती है। आप सभी मेरी सफलताके लिए मेरे साथ प्रार्थना करें। अनशन कल प्रथम भोजनके पश्चात् आरम्भ होगा। यह अनिश्चित काल तक चलेगा। अनशन कालमें मैं जल और नींबूका रस ले सकता हूँ। यह सभी समाप्त होगा जब मुझे विश्वास हो जायगा कि बिना किसी बाह्य दबावके कर्तव्यकी भावनासे जागृत होकर सभी सम्प्रदायोंके हृदय पुनः एकताके

सूत्रमें प्रार्थित हो गये हैं। यदि मैं सफल हुआ तो भारतकी प्रतिष्ठा और पश्चिमा तथा विश्वके हृदयपर व्याप्त सार्वभौमत्वको पुनः प्राप्त कर सकूँगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारतीय आत्माके हननसे पीड़ित, बुभिक्षित और उद्धेलित विश्वकी एकमात्र आशा ही समाप्त हो जायगी।

### विरोधियोंको उचार

मेरे इस निर्णयसे किसीको क्रोधित न होना चाहिये। मेरे अनेक मित्र हैं जिन्हें अनशनपर विश्वास नहीं। उन्हें इसपर विश्वास नहीं कि अनशनसे मानव भस्तिष्कमें परिवर्तन किया जा सकता है। पर जिस तरहमे उन्हें वैसा सोचनेको स्वतन्त्रता है वैसी ही स्वतन्त्रता मुझे भी है। ईश्वर ही मेरा एकमात्र-परामर्शदाता है और उसीकी प्रेरणासे मैं अपने निर्णयको कार्यान्वित करने जा रहा हूँ। यदि मैंने अपनी भूलोंका पता लगा लिया है तो उसे प्रकाशमें लानेमें मुझे कोई हिचकिचाहट न होनी चाहिये। अपनी भूलोंको जान लेना इतना सरल नहीं। सम्पूर्ण भारत अथवा केवल दिल्लीपर भी मेरे अनशनका प्रभाव पड़ा तो यह शीघ्र ही समाप्त किया जा सकता है। अनशनकी समाप्ति निकट भविष्यमें हो या विलम्बसे, किन्तु संकटपर विजय पानेके लिए हमें कुछ भी उठा न रखना चाहिये।

कुछ आलोचकोंने हमारे विगत अनशनोंको दबाव देनेवाला बताया है। उनका कथन है कि जिस उद्देश्यसे अनशन आरम्भ किये गये थे उसके फल ठीक उसके विपरीत सिद्ध हुए हैं। मैं कहता हूँ कि विरोधी कथनोंका मूल्य ही क्या जब मेरा उद्देश्य पवित्र है। कर्तव्यके रूपमें किया गया अनशन स्वयमेव पुरस्कार है। अनशनके प्रतिफलकी मुझे कामना नहीं है। मैं अनशन इसलिए करता हूँ क्योंकि ऐसा करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। अतः प्रत्येक व्यक्तिसे मेरी प्रार्थना है कि वह शान्तिपूर्वक उद्देश्यकी विवेचनासे अलग मुझे सृत्थोन्मुख होने दे। भारत, हिन्दुत्व तथा इसलामका विनाश होते हुए असह्य अवस्थामें देखते रहनेकी अपेक्षा सृत्थु मुझे गौरवपूर्ण मुक्ति प्रदान करेगी। यदि पाकिस्तानने अपना रवैया न बदला तो विनाश अवश्यम्भावी है। इसलामकी समाप्ति तो केवल भारतके दो खण्डोंमें ही होगी, विश्वमें इसका अस्तित्व कायम रहेगा, किन्तु हिन्दू और सिख धर्मों के लिए भारतके बाहर कोई स्थान प्राप्त नहीं है।

## महाप्रयाण

आप प्रिय भारत देशमें होनेवाले उपद्रवोंका जरा भी ध्यान करेंगे तो उसी समय आपको यह भोचकर प्रसन्नता होगी कि भारतमाताका एक पुत्र इतना पवित्र और इतना शक्तिशाली था कि उसने उनके विरुद्ध कदम उठाया। यदि उसमें इतनी शक्ति और इतनी पवित्रता नहीं है तो वह भूमिके लिए भार-स्वरूप ही है। वह भारस्वरूप व्यक्ति जितना शीघ्र उठ जाय उतना ही अच्छा है।

## अनशन आत्मशुद्धिका साधन

मैं अपने मित्रोंसे अनुरोध करूँगा कि वे बिड़ला भवनकी ओर दौड़ न पड़ें। वे न तो मुझे अपने निश्चयसे विचलित करनेकी चेष्टा करें और न मेरे लिए चिन्ता ही प्रकट करें। मैं पूर्णतः परमात्माके ही हाथमें हूँ। बिड़ला भवन की ओर दौड़नेकी अपेक्षा वे स्वयं अपने हृदयमें प्रकाशकी किरण ले जायँ, क्योंकि यह हम सभी के लिए परीक्षा-काल है। अपने कर्तव्यका उचित रूपमें तत्परतासे पालन करने-वाला व्यक्ति मुझे अधिक सहायता पहुँचायेगा। अनशन आत्मशुद्धिका साधन है।

## कांग्रेसजनोंका नैतिकपतन

देशके सम्मुख राजनीतिक तथा आर्थिक गुत्थियोंमें सभीसे बढ़कर कांग्रेसजनोंका नैतिक पतन है। मैं अन्य प्रान्तोंकी बात नहीं करता, पर मेरे प्रान्तमें स्थिति बड़ी दयनीय हो गयी है। राजनीतिक सत्ताने उन्हें उन्मत्त कर दिया है। असेम्बली तथा कौंसिलके बहुतसे सदस्य समयसे अधिकसे अधिक लाभ उठानेपर ही तुल गये हैं। अदालतोंके अधिकारमें भी हस्तक्षेप करने तथा अपने प्रभावसे पैसा प्राप्त करना मुख्य लक्ष्य हो गया है। जिला मैजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकारी भी असेम्बली तथा कौंसिलके हस्तक्षेपके कारण स्वतन्त्रतापूर्वक काम नहीं कर पाते। कोई भी आत्मसम्मानवाला अफसर ऐसी स्थिति सहन नहीं कर सकता क्योंकि उसके विरुद्ध मन्त्रियों तक झूठी शिकायत लेकर लोग दौड़ पड़ेंगे।

## कांग्रेसमें भ्रष्टाचार

स्वराज्य प्राप्तिकी भावनासे प्रभावित होकर देशके नर-नारी कांग्रेसके नेतृत्वके तले आये। पर अब यह व्यर्थ पूरा हो गया है। स्वतन्त्रताके महान संघर्षमें भाग लेनेवाले सिपाहियोंपर अब सभी नैतिक नियन्त्रण समाप्त हो चुके हैं। आज कांग्रेसके

कार्यकर्ता अपने व्यक्तिगत हितोंकी पूर्तिके लिए राष्ट्रीय आन्दोलनोंके कट्टर शत्रुओंसे हाथ मिला रहे हैं और कांग्रेसके सदस्य बना रहे हैं। स्थिति ऐसी असह्य हो गयी है कि इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस और कांग्रेस सरकार बुरी तरह बदसान हो रही है। आन्ध्रमें हुए हालके म्युनिसिपल चुनावसे सिद्ध है कि कितनी जल्दी कांग्रेसका प्रभाव आम जनतापरसे समाप्त होता चला जा रहा है।

### अत्याचारसे जनतामें विद्रोह

कांग्रेसजनोंके मतभेद तथा असेम्बली कौंसिलके सदस्यों और मन्त्रियोंकी प्रवृत्ति जनतामें विद्रोह उत्पन्न कर रही है। लोग कहने लगे हैं कि ब्रिटिश-सरकार इस कांग्रेस सरकारसे कहीं अच्छी थी।

आन्ध्र तथा अन्य प्रान्तोंके लोग मेरे इन वाक्योंपर ध्यान दें। मैं स्पष्ट रूपसे कहता हूँ कि अनाचार केवल आंध्रमें ही नहीं है। आंध्र तो एक उदाहरणमात्र है। हम सभीको सचेत हो जाना चाहिये।

### उपवास या हृदयकी शुद्धि

१७ जनवरीको डाक्टर सुशीला नथरने गांधीजीका एक लिखित संदेश प्रार्थना सभाको सुनाया था जिसमें गांधीजीने कहा था—‘मैं नहीं चाहता कि इस समय अनशनके दबावसे कुछ किया जाय वरना अनशनकी समाप्तिके साथ दबावसे किया गया कार्य भी खतम हो जायगा।

मेरे पास नित्य सर्वत्र हिन्दूसे और पाकिस्तानसे भी तमाम संदेश आते हैं। वैसे तो वे बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन जो लोग पाकिस्तानमें रहते हैं और जिनके हाथमें उसका भाग्य-निर्माण करना है, उनसे यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि यदि उनकी चेतना जागृत नहीं होती और पाकिस्तानके अपराधोंको वे स्वीकार नहीं करते तो वे पाकिस्तानको कायम नहीं रख सकते।

इसके यह माने नहीं कि दोनों राज्योंका श्वेच्छासे युनः एक हो जाना मैं नहीं चाहता। लेकिन हथियारोंके बलपर पाकिस्तानको शामिल करनेका विचार मैं बिल्कुल नहीं आने देना चाहता।

## मृत्युशय्या

मुझे विश्वास है कि आज जब मैं सच्चे अर्थमें देखा जाय तो मृत्युशय्या पर ही लेटा हूँ, मेरी बातको भेद अथवा झगड़ेकी बात समझनेकी गफलतहमी न होगी।

### पाकिस्तान समझो

मैं आशा करता हूँ, समस्त पाकिस्तानी इस बातको महसूस करेंगे कि यदि अपनी कमजोरीके कारण उनकी भावनाओंको चोट न पहुँचानेके ख्यालसे मैं उन बातोंको व्यक्त न करूँ जो मैं ठीक-ठीक अनुभव कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तानियोंके और अपने दोनोंके साथ अन्याय करूँगा।

यदि मैंने कहीं समझनेमें गलती की है तो मुझे बताया जाय मैं वादा करता हूँ कि ठीक समझ लेनेपर मैं अपनी बात वापस ले लूँगा। वैसे, जहाँतक मैं समझता हूँ इस विषयपर दो मत नहीं हैं।

मेरे उपवासको किसी भी अर्थमें राजनीतिक चाल समझना उचित न होगा। यह मेरी आत्मा और कर्त्तव्यकी पुकारपर किया गया है। जिस व्यथाको मैंने महसूस किया है उसीकी पीड़ासे मैंने अनशन शुरू किया है। मेरे गवाहके रूपमें दिल्लीके तमाम मुसलमान मित्र हैं जो दिन भरको घटनाओंको आकर मुझे सुनाते हैं। न तो राजे महाराज और न हिन्दू सिख और न अन्य लोग अपना या देशका भला करेंगे, यदि उन्होंने मेरे जीवनके इस महोत्सवपर मेरा अनशन खत्म करनेके लिए मुझे बहकानेकी कोशिश की।

यदि अनशनके दबावसे कुछ किया गया तो अत्यन्त भयंकर बात होगी। आध्यात्मिक उपवास हृदय शुद्धिकी अपेक्षा करता है। जिस प्रकार दीवालकी सफेदी कर देनेपर कोई आया हुआ व्यक्ति चला जाय तो सफेदी नष्ट नहीं हो जाती उसी प्रकार एक बार आत्मशुद्धि हो जानेके बाद उसका कारण न रहे तो भी आत्मशुद्धि बनी रहनी चाहिये। सांसारिक सफेदी तो फिर कुछ दिनों बाद करानी पड़ती है परन्तु हृदय शुद्धि तो मरते दम तक साथ रहती है।

प्रत्येक व्यक्ति यह जान ले कि जितना आध्यात्मिक उपवासके समय मैं प्रसन्न रहता हूँ उतना और कभी नहीं। इस उपवासने मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता दी है। कोई व्यक्ति इस प्रसन्नतावस्थाको छेड़नेका प्रयत्न न करे जबतक वह इस बातका

ईमानदारीसे दावा नहीं कर सकता कि अपनी जीवनयात्रामें वह सचमुच ही शैतानके पथसे मुड़कर ईश्वरके पथका अनुसरण करने लगा ।

### सफल उपवास

१८ जनवरी १९४८ को अपना अंतिम उपवास समाप्त करने पर गांधीजीने उस दिनकी प्रार्थना सभामें इस प्रकार आशा प्रकटकी थी—“यदि साम्प्रदायिक एकता स्थापित करनेकी प्रतिज्ञा सफल हुई तो मैं दूनी शक्तिसे ईश्वरसे प्रार्थना करूँगा कि वह मनुष्य मात्रकी सेवाके लिए मुझे पूरे जीवनकाल भर जीने दे । ऋषि-मुनियोंकी रायमें मनुष्यकी आयु १२५ वर्षकी होती है, कुछ लोगोंका कहना है कि आयु १३३ वर्षकी होती है ।

मैंने सत्यके नामपर अनशन शुरू किया था । सत्यका दुसरा नाम ईश्वर है । भगवानके नामपर हम लोगोंने कल्लेआम किये हैं, स्त्रियोंका सतीत्व नष्ट किया है और जबरदस्ती लोगोंका धर्म परिवर्तन किया है । मैं नहीं जानता कि किसीने सत्यके नाम पर भी ऐसा किया है । राम नामके साथ ही मैंने अपना अनशन तोड़ा है

### एकता की प्रतिज्ञा

राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद मेरे सामने १०० व्यक्तियोंको लाये जो हिंदू, सिख, मुसलमान, हिंदू महासभा, राष्ट्रतीय स्वयं सेवक संघ और पंजाब तथा सीमाप्रांतके शरणार्थियोंका प्रतिनिधित्व करते थे । इनमें पाकिस्तानके हाई कमिश्नर श्रीजाहिद हुसेन, दिल्लीके चीफ कमिश्नर तथा बिप्टी कमिश्नर, जनरल शाहनवाज, पंडित नेहरू मौलाना आजाद और डा० राजेन्द्र प्रसादने एक मसविदा हिंदुस्तानीमें पढ़ा जिसपर इन लोगोंके हस्ताक्षर थे और मुझसे इन लोगोंको और संकटमें न डाल अनशन तोड़नेको कहा । मेरे पास इसीके लिए अनेक तार भी आये हैं । इन लोगोंने प्रतिज्ञा की कि चाहे जो कुछ भी हो यहांपर हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी यहूदी सभीमें परस्पर प्रेम होगा । मैं अपने इन दोस्तोंका अनुरोध टाल न सका ।

### व्रत सफल हुआ

दिल्लीके नागरिकोंने मेरे व्रतका उद्देश्य मेरी आवासे पहले पूरा कर दिया

भङ्गाश्रयाण

इसका फल अच्छा ही होगा। मैं जानता हूँ कि कलसे हजारों शरणार्थी भी मेरे साथ अनशन कर रहे हैं। देश विदेशसे मेरे पास तार और लिखित आश्वासन आ रहे हैं। मेरे काममें ईश्वरका भी हाथ है, यह सब इसीका प्रमाण है।

मेरे व्रतका मुख्य उद्देश्य था पहले हिंदूके हिंदू-मुसलमानोंका परस्पर हार्दिक स्नेह और बाद पाकिस्तानके हिंदू और मुसलमानोंमें प्रेम-भाव। यदि पहला काम हो जाय तो दूसरा भी उसी प्रकार हो जायगा जिस प्रकार रातके बाद दिन होता है। यदि हिंदूमें अंधकार रहेगा तो पाकिस्तानमें प्रकाशकी आशा करना मूर्खता होगी। परंतु यदि हिंदूसे अंधकार दूर हो गया तो निश्चय ही पाकिस्तानमें भी अंधकार न रहेगा। पिछले ६ दिनोंसे जैसे ईश्वर हमें रास्ता दिखा रहा था, भविष्यमें भी वैसे ही दिखाये यही मेरी प्रार्थना है।



बापू—

होली के अवसर पर ब्राडकास्टिंग हाउस में शरणार्थियों को उपदेश देने गये थे।  
यह उनका प्रथम और अन्तिम दर्शन था।





## कांग्रेस को अन्तिम संदेश

इण्डियन नेशनल कांग्रेस देशकी सबसे पुरानी राष्ट्रीय राजनीतिक संस्था है। उसने कई अहिंसक लड़ाइयोंके बाद आजादी हासिल की है। उसे मरने नहीं दिया जा सकता। उसका खात्मा सिर्फ तभी हो सकता है, जब राष्ट्रका खात्मा हो। एक जीवित संस्था या तो जीवन्त प्राणीकी तरह लगातार बढ़ती रहती है, या मर जाती है। कांग्रेसने राजनीतिक आजादी तो हासिल कर ली है, मगर उसे अभी माली आजादी, साम्राजिक आजादी और नैतिक आजादी हासिल करनी है। ये आजादियाँ चूँकि रचनात्मक हैं, कम उत्तेजक और भड़कीली हैं, इसलिए इन्हें हासिल करना सियासी आजादीसे ज्यादा मुश्किल है। जीवनके सारे पहलुओंको समा लेने-वाला तामीरी काम करोड़ों जनताके सारे अंगोंकी शक्तिको जगाता है।

कांग्रेसको उसकी आजादीका प्रारम्भिक और जरूरी हिस्सा मिल गया है। लेकिन उनकी सबसे कठिन मंजिल आना अभी बाकी है। जमहूरी व्यवस्था कायम करनेके अपने मुश्किल मकसदतक पहुंचनेमें उसने अनिवार्य रूपसे दलबन्दी करनेवाले गन्दे पानीके गड्ढों जैसे मण्डल खड़े किये हैं, जिनसे घूसखोरी और बेईमानी फैली है और ऐसी संस्थाएँ पैदा हुई हैं, जो नामकी ही लोकप्रिय और प्रजातन्त्री हैं। इन सब बुराइयोंके जंगलसे बाहर कैसे निकला जाय ?

कांग्रेसको सबसे पहले अपने मेम्बरोंके उस स्पेशल रजिस्टरको अलग हटा देना चाहिये, जिसके मेम्बरोंकी तादाद कभी एक करोड़से आगे नहीं बढ़ी, और तब भी जिन्हें आसानीके शिनाख्त नहीं किया जा सकता। उसके पास ऐसे करोड़ोंका एक अज्ञात रजिस्टर था, जो उसके काममें नहीं आये। अब कांग्रेसका रजिस्टर इतना बड़ा होना चाहिये कि देशके मतदाताओंकी लिस्टमें जितने मर्द और औरतोंके नाम हैं, वे सब उसमें आ जायँ। कांग्रेसका काम यह देखना होना चाहिये कि कोई बना-

## महाप्रयाण

वटी नाम उसमें शामिल न हो जाय और कोई जायज नाम छूट न जाय । उसके अपने रजिस्टरमें उन देश-सेवकोंके नाम रहेंगे, जो समयपर दिया हुआ काम करते रहेंगे ।

देशके दुर्भाग्यसे ऐसे कार्यकर्त्ता फिलहाल खास तौरपर शहरवालोंमेंसे ही लिये जावेंगे, जिसमेंसे ज्यादातरको देहातोंके लिए और देहातोंमें काम करनेकी जरूरत होगी । मगर इस श्रेणीमें ज्यादासे ज्यादा तादादमें देहाती लोग ही भर्ती किये जाने चाहिये ।

इन सेवकोंसे यह अपेक्षा रखी जायगी कि वे अपने-अपने हलकोंमें कानूनके मुताबिक रजिस्टरमें दर्ज किये गये मतदाताओंके बीच काम करके ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे और उनकी सेवा करेंगे । कई व्यक्ति और पार्टियाँ इन मतदाताओंको अपने पक्षमें करना चाहेंगी । जो सबसे अच्छे होंगे उन्हींकी जीत होगी । इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे कांग्रेस देशमें तेजोसे गिरती हुई अपनी अनुपम स्थितिको फिरसे हासिल कर सके । अभी कलतक कांग्रेस बेजाने देशकी सेविका थी । वह खुदाकी खिदमतगार थी—भगवानकी सेविका थी । अब वह अपने आपसे और दुनियासे कहे कि वह सिर्फ भगवानकी सेविका है—न इससे ज्यादा है, न कम । अगर वह सत्ता हड़पनेके व्यर्थके झगड़ोंमें पड़ती है, तो एक दिन वह देखेगी कि वह कहीं नहीं है । भगवानको धन्यवाद है कि अब वह जनसेवाके क्षेत्रकी एकमात्र स्वामिनी नहीं रही ।

मैंने सिर्फ दूरका दृश्य आपके सामने रखा है । अगर मुझे वक्त मिला और स्वास्थ्य ठीक रहा तो मैं इन कालोंमें यह चर्चा करनेकी उम्मीद करता हूँ कि मालिकों—सारे बालिग मर्द और औरतोंकी नजरोंमें अपनेको ऊँचा उठानेके लिए देशसेवक क्या कर सकते हैं (२७-जनवरी-१९४८) !

## अन्तिम प्रवचन

भाइयो और बहिनों ! मेरे सामने चीज तो काफी पड़ी हैं, उनमेंसे जो आजके लिए चुननी चाहिये, वें चुन ली हैं । ६ चीजें हैं । पन्द्रह मिनटमें जितना कह सकूंगा, कहूंगा ।

एक बात तो देख रहा हूँ कि थोड़ी देर हो गयी है—ऐसी होनी नहीं चाहिये थी । सुशीला बहन बहावलपुर चली गयी है । बहावलपुर में दुखी आदमी हैं उनको देखनेके लिए चली गयी हैं—दूसरा अधिकार तो कोई है नहीं और न हो सकता था । फ्रेंडस सर्विसके मित्र लोग हैं उनको भेजनेका मैंने इरादा किया था । उनका नाम लेसली क्रस है—वे सज्जन पुरुष हैं । वहाँ लोगोंको देखेंगे, मिलेंगे और मुझको बता देंगे । उस वक्त सुशीला बहिनके जानेकी बात नहीं थी लेकिन जब सुशीला बहिनने सुन ली तो उसने मुझसे कहाकि इजाजत देदो तो मैं क्रस साहबके साथ चली जाऊँ । वह जब नोआखालीमें काम करती थी तबसे वह उनको जानती थी । आखिर कुशल डाक्टर है और पंजाबके गुजरातकी है, उसने भी काफी गँवाया है क्योंकि उसकी तो वहाँ काफी जायदाद है फिर भी दिलमें कोई जहर पैदा नहीं हुआ है । तो उसने बताया कि मैं वहाँ क्यों जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं पंजाबी बोली जानती हूँ, उर्दू और अंग्रेजी भी जानती हूँ तो वहाँ मैं क्रस साहबको मदद दे सकूँगी । तो मैं यह सुनकर खुश हो गया । वहाँ खतरा तो है लेकिन उसने कहा कि मुझको क्या खतरा है, ऐसी डरती तो नोआखाली क्यों जाती । पंजाबमें बहुत लोग मर गये हैं, बिरकुल मिटियाभेट हो गये हैं लेकिन मेरा तो ऐसा नहीं है, खाना पीना मिल जाता है, ईश्वर सब करता है । अगर आप भेज दें और क्रस साहब मेरेको ले जायें तो वहाँके लोगोंको देख लूँगी । तो मैंने क्रस साहबसे पूछा कि क्या आपके साथ सुशीला बहिनको भेजूँ । तो वे खुश हो गये और कहा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है । मैं उनके भारभरत दूसरोंसे अच्छी तरह बात चीत कर सकूँगा । सित्र वर्गमें हिन्दुस्तानी जाननेवाला कोई रहे वा वह बड़ी भारी चीज हो जाती है । इससे बेहतर ज़्यादा हो सकता है । वे रेड-

## महाप्रयाण

क्रासके हैं। रेडक्रासके मायने यह है कि लड़ाईमें जो मरीज हो जाते हैं उनको दवा देनेका काम करना। अबतो दूसरा तीसरा भी काम करते हैं। तो डाक्टर सुशीला क्रास साहबके साथ गयी हैं या डाक्टर सुशीलाके साथ क्रास साहब गये हैं यह पेचीदा प्रश्न हो जाता है लेकिन कोई पेचीदा है नहीं, क्योंकि एक दूसरेके दोस्त हैं और दोनों एक दूसरेको चाहते हैं, मुहब्बत करते हैं। वे सेवाभावसे गये हैं, पैसा कमाना तो है नहीं, वे जो देखेंगे गुझे बतलायेंगे और सुशीला बहिन भी बतायेंगी। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा गुमान रखे कि वह तो डाक्टर है और क्रास साहब दूसरे हैं। कौन ऊंचा है नीचा है ऐसा कोई भेदभाव न करें लेकिन क्रास साहब तो औरतको आगे कर देते हैं और अपनेको पीछे रहते हैं। आखिर वे उनके दोस्त हैं। मैं एक बात ओर कह देना चाहता हूँ कि नवाब साहबतो मुझको लिखते रहते हैं। मुझको कई लोग भूठ बात भी लिखते हैं तो उसे माननेका मेरा क्या अधिकार है। तो मैंने सोचाकि मुझको क्या करना चाहिये। तो बहावलपुरके जो आये हैं उनको बता दूँ कि वे वहांसे आयेंगे तो मुझको सब बात बता देंगे।

अभी बन्नूके भाई लोग मेरे पास आ गये थे—शायद चालीस आदमी थे। वे परेशान तो हैं लेकिन ऐसे नहीं हैं कि चल नहीं सकते थे। हाँ, किसीकी अँगुलीमें घाव लगे थे, कहीं कुछ था कहीं कुछ था ऐसे थे। मैंने तो उनका दर्शन ही किया और कहाकि जो कुछ कहना है वृजकिशनजीसे कह दें लेकिन इतना समझ लें कि मैं उन्हें भूला नहीं हूँ। वे सब भले आदमी थे गुस्सेसे भरे होना चाहिये था लेकिन फिर भी वे मेरी बात मान गये। एक भाई थे, वे शरणार्थी थे या कौन थे मैंने पूछा नहीं। उसने कहा कि तुमने बहुत खराबी तो कर ली है, क्या और करते जाओगे। इससे बेहतर है कि जाओ। बड़े हैं, महात्मा हैं तो क्या, हमारा काम तो बिगाड़ते ही हो। तुम हमको छोड़ दो, भूल जाओ, भागो। कहाँ जाऊँ ? पीछे कहा तुम हिमालय जाओ, तो मैंने डाटा। वे मेरे जितने बुजुर्ग नहीं है—बैसे बुजुर्ग नहीं हैं, तगड़ा है, मेरे जैसे पाँच सात आदमीको चोट कर सकता है। मैं तो महात्मा रहा धवराहट में पड़ जाऊँ तो मेरा क्या हालहोगा। तो मैंने हँसकर कहा कि क्या मैं आपके कहनेसे जाऊँ, किसकी बात सुनूँ, क्योंकि कोई कहता है कि यहीं रहो, कोई तारीफ करता है, कोई डाँदता है, कोई गाली देता है। तो मैं क्या करूँ ? ईश्वर जो हुक्म करता है वही मैं करता हूँ। तो कहो कि मैं ईश्वरको नहीं मानता हूँ तो इतना तो कर कि मुझे अपने

दिलके अनुसार करने दे। तो कहा कि ईश्वर तो हम हैं। मैंने कहा तो परमेश्वर कहाँ जायगा। ईश्वर तो एक है। हाँ, यह ठीक है कि पञ्चपरमेश्वर हैं लेकिन पाँचका सवाल नहीं है। दुखीका बल परमेश्वर है लेकिन दुखी खुद परमात्मा नहीं। जब मैं दावा करता हूँ कि जो एक बहिन है, मेरी सगी बहिन है, लड़की है तो मेरी सगी लड़की है इस तरहसे उनका दुःख मेरा दुःख हुआ तो आप ऐसा क्यों मानते हैं कि मैं दुखको नहीं जानता, आपके दुखोंमें मैं हिस्सा नहीं लेता, मैं हिन्दुओं और सिखोंका दुश्मन हूँ और मुसलमानोंका दोस्त हूँ। उसने साफ साफ कह दिया। कोई गाली देकर लिखता है। कोई विवेकसे लिखता है कि हमको छोड़ दो, चाहे हम दोजखमें जायँ तो क्या। तुमको क्या पड़ी है, तुम भागो? मैं किसीके कहनेसे कैसे भाग सकता हूँ किसीके कहनेसे मैं खिद्मतगार नहीं बना हूँ, किसीके कहने से मैं मिट नहीं सकता हूँ, ईश्वरके चाहनेसे, मैं जो हूँ बना हूँ। ईश्वरको जो करना है सो करेगा। ईश्वर चाहे तो मुझको मार सकता है। मैं समझता हूँ कि मैं ईश्वरकी बात मानता हूँ। एक डाँटता है, दूसरे लोग मेरी तारीफ करते हैं तो मैं क्या करूँ। मैं हिमालय क्यों नहीं जाता। वहाँ रहना तो मुझको पसन्द पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझको वहाँ खाना, पीना, ओढ़नेको नहीं मिलेगा—वहाँ जाकर शान्ति मिलेगी लेकिन मैं अशान्तिमेंसे शान्ति चाहता हूँ नहीं तो उस अशान्तिमें मर जाना चाहता हूँ। मेरा हिमालय यहाँ है। आप सब हिमालय चलें तो मुझको भी आप लेते चलें।

### शरणार्थी मेहनत करें

मेरे पास शिकायतें आई हैं—सही शिकायतें हैं—कि यहाँ शरणार्थी पड़े हैं, उनको खाना देते हैं, पीना देते हैं, पहननेको देते हैं, जो हो सकता है, सब करते हैं लेकिन वे मेहनत करना नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते हैं। जो उनकी खिद्मत करते हैं, उन लोगोंने लम्बा-चौड़ा लिखकर दिया है, उससे मैं इतना ही कह देता हूँ। मैंने तो कह दिया है अगर दुख मिटाना चाहते हैं, दुखमेंसे सुख निकालना चाहते हैं, दुखमें भी हिन्दुस्तानकी सेवा करना चाहते हैं साथमें अपनी भी सेवा हो जाती है तो दुखियोंको तो काम करना ही चाहिए। दुखीको ऐसा हक नहीं है कि वह काम न करे और भोज एवं शौक करे। गीतामें तो कहा है—‘यज्ञ करो और खाओ’, यज्ञ करो और शेष रह जाता है उसको खाओ। यह मेरे लिए है और आपके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है—सबके लिए है। जो दुखी हैं उनके लिए भी है। एक आदमी कुछ करे नहीं,

महाप्रयाण

बैठा रहे और खाये तो ऐसा नहीं हो सकता। करोड़पति भी काम न करे और खाये तो वह निकम्मा है, पृथ्वीपर भार है। जिस आदमीके घर पैसा भी है, वह भी मेहनत करके खाये तब बनता है। हाँ, यदि कोई लाचारी है—पैर नहीं चलता है या वृद्ध हो गया है तो बात दूसरी है लेकिन जो तगड़ा है, वह क्यों न करे। जो काम कर सकता है वह काम करे। शिविरमें जो तगड़े पड़े हैं उनको पैखाना भी उठाना चाहिये। चर्खा चलायें तो वह भी चलायें। इस तरहसे जो काम बन सकता है, करें। जो काम नहीं जानते वह काम लड़कोंको सिखायें, इस तरहसे काम लें। लेकिन कोई कहे कि केम्ब्रिजमें सिखाते हैं वैसे सिखायें, मैं मेरा बाबा तो केम्ब्रिजमें सीखा था तो लड़कोंको वहाँ भेजो, तो यह कैसे हो सकता है? मैं तो इतना कहूँगा कि जितने शरणार्थी हैं वे काम करके खायें, उन्हें काम करना ही चाहिये।

### किसान राज्यकी आवश्यकता

आज एक किसान राजकी बात है। एक सज्जन आये थे, भूल गया उनका नाम। मैंने तो कह दिया था कि मेरी चले तो गवर्नर जनरल किसान होगा, मेरा चले तो हमारा बड़ा वजीर किसान होगा—सब किसान होगा क्योंकि यहाँका राजा किसान है। मुझको बचपनसे सिखाया था—एक कविता है 'हे किसान, तू बादशाह है।' किसान जमीनसे पैदा न करे तो हम क्या खायेंगे। हिन्दुस्तानका सचमुच राजा तो वही है लेकिन आज हम उसको गुलाम बनाकर बैठे हैं। आज किसान क्या करें? एम० ए० बने, बी० ए० बने—ऐसा किया तो मिट गया, पीछे कुदाली नहीं चलायगा। जो किसान अपनी जमीनसे निकाले और उसे खाये, ऐसा आदमी जनरल बने, प्रधान बने तो हिन्दुस्तानकी शक्ल बदल जायगी—आज जो सड़ा पड़ा है वह नहीं रहेगा।

[ २६ जनवरीकी प्रार्थना सभाका भाषण ]

सब व्याधियों  
की औषधि  
'राम'



## प्रकाशमान पुरुष

हम बड़े भाग्यशाली हैं और हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि ईश्वरने हमें ऐसा प्रकाशमान समकालीन पुरुष दिया कि—वह भावो पीढ़ियोंके लिए भी प्रकाश स्तंभका काम देगा ।

गांधीजी बिना किसी बाहरी शक्तिकी सहायताके अपने देशकी जनताके नेता हैं । वे एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिसकी सफलता किसी कौशल या शास्त्रीय ज्ञानपर नहीं बरन् विश्वास उत्पन्न करनेवाले उनके व्यक्तित्वपर आधारित है । वे एक ऐसे विजयी योद्धा हैं जिसने बल प्रयोगसे सदा घृणा की है । वे धीमान और विनयशील तथा दृढ़प्रतिज्ञ और अडिग दृढ़तावाले व्यक्ति हैं, जिसने अपने लोगोंको ऊपर उठाने और सुखी बनानेमें अपनी सारी शक्ति लगा दी है । उन्होंने निश्चल मानवोचित तेजसे यूरोपको बबरताका सामना किया है और इस प्रकार वे सदा ऊँचे उठे ।

आनेवाली पीढ़ियाँ, संभव हैं, शायद ही यह विश्वास करे कि इनकी तरहका कोई व्यक्ति इस पृथ्वीपर कभी हुआ था ।

अलाबर्ट आइन्सटीन

### गांधी के नामपर

जो लोग लेनिनके उद्देश्यके लिए मरे, वे वीर माख्म होते हैं, किंतु जो गांधीके नामपर मरेंगे वे बहादुर और शहीद दोनों ही प्रतीत होंगे ।

मैं यह बिलकुल सही-सही कह सकती हूँ कि गाँधीजीसे परिचय होनेके कारण मुझमें कुछ परिवर्तन हो गया है । जीवनमें किसी कदर रस आ गया है, कुछ वह वस्तु उसकी आभा मिली है, जिसे दूसरे अधिक उपयुक्त शब्दके अभावमें हम प्रेरणा कहते हैं ।

क्लोयर शेरिडन

## बापू का प्रिय भजन

वैष्णव जन तो तेने कहीए जे पीड पराई जाणे रे,  
पर दुःखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे,  
सकल लोकमां सहुने वंदे, निंदा न करे केनी रे,  
वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे,  
समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे,

जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे,  
मोह माया व्यापे नहिं जेने, हृद वैराग्य जेना मनमां रे,  
रामनामशुं ताली लागी, सकल तीरथ तेना तनमां रे,  
वणलोभी ने कपटरहित छे, काम क्रोध निवार्या रे,  
भणे नरसैयो तेनुं दरसन करतां, कुल एकतेर तार्या रे !

## बापू की सायंकालीन प्रार्थना

बौद्ध मन्त्र—

नम्यो हो रेंगे क्यों

उपनिषत् मन्त्र—

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।  
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥  
यं ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवै-  
र्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषद्वैर्गायन्ति यं सामगाः ।  
ध्यानावस्थिततद्गततेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो  
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः ॥

गीता; अध्याय—२

अर्जुन उवाच

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ?  
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम् ॥ ५४ ॥  
प्रज्जहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् ।  
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥  
दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः ।  
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥  
यः सर्वत्रानभिस्नेहः तप्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।  
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥  
यदा संहरते चायं कूर्मोङ्गानीव सर्वशः ।  
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥  
विषया विनिवर्त्तते निराहारस्य देहिनः ।  
रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्त्तते ॥ ५९ ॥  
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।  
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥  
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।  
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥  
ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।  
सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥  
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ।  
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६३ ॥  
रागद्वेषद्विभ्रंशस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।  
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥

प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते ।  
 प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥  
 नास्तिबुद्धिरयुक्तस्य नचायुक्तस्य भावना ।  
 न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतःसुखम् ॥ ६६ ॥  
 इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुबिधीयते ।  
 तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविवाग्भसि ॥ ६७ ॥  
 तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ।  
 इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥  
 या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।  
 यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६९ ॥  
 आपूर्व्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।  
 तद्वत्कामा यं प्रविशति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥  
 विहाय कामान्यः सर्वान्पुमाश्चरति निस्पृहः ।  
 निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥  
 एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ।  
 स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॥ ७२ ॥

### एकादश व्रत—

अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यमसंग्रहः शरीरश्रमोऽनास्वादः सर्वत्र भयवर्जनम् ।  
 सर्वधर्मे समानत्वं स्वदेशि-स्पर्शभावना, इत्येकादश सेवाभिर्नव्रत्नेष्वतनिश्चये ॥

### जरतुरती गाथा—

मज्जदा अत मोह बहिरता स्रवा ओस्वा श्योथनाचा वओचा  
 ता—तू वहू मनघहा अशाचा ह्रुषुवेम स्तुतो  
 क्षमा का श्रथा अहूरा फेरवेम् वस्ना हइ श्येम दाओ अहूम ।

### कुरानकी आद्यत—

अऊजु बिल्लाहिं मिनश् शैत्वानिर रजीम् ।  
 बिस्मिल्लाहिर् रहमानिम् रहीम् ॥  
 अलाह्मुदु लिल्लाहि रब्बिल् आलमीन् ।  
 अर रहमानिर् रहीमि मालिकी यौमिहीन् ॥  
 ईयाकं, नअबुदु व ईयाक नस्ताईन् ।  
 इह् दिनस्, सिरावल्सु सुस्तकीम् ॥  
 सिरात्सल् लजीन अनूअस्त अलै हिम् ।  
 गौरिल् मन दूबूबि अलै हिम् अलाद् द्वाल्कीन् ॥

## रामधुन

रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम  
सीताराम जय सीता राम, पतित पावन सीताराम  
ईश्वर अल्ला तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान  
रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम

जय राम जय राम जय जय राम

पतित पावन सीताराम

भज मन प्यारे राम रहीम

भज मन प्यारे कृष्ण करीम

रघुपति राघव राजाराम

पतित पावन सीताराम ।

